



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30—फरवरी 5, 2010 (माघ 10, 1931)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30—FEBRUARY 5, 2010 (MAGHA 10, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2010

थल सेना मुख्यालय

सं. 39, दिनांक 24 दिसम्बर 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जीडी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्यार चंद ठाकुर (जेसी-347611वाई),
21 जनवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सथीसन एम डी (जेसी-347606एन), 24
जनवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सतबीर सिंह (जेसी-347624डब्ल्यू), 04 फरवरी
2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) जोस एम (जेसी-347685एन), 06 फरवरी
2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामराज मिश्रा (जेसी-347911ए), 21 जनवरी
2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सत्यनारायण सिंह (जेसी-347726एम),
08 फरवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) चन्दन सिंह (जेसी-347714एक्स), 07 फरवरी
2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सीता शरण शुक्ला (जेसी-347961एल),
02 फरवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेश चन्द्र (जेसी-348145एफ), 04 दिसम्बर
2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेन्द्र पिल्ले एस (जेसी-348144वाई),
03 नवम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) श्री कुमार एस (जेसी-347963डब्ल्यू),
19 जुलाई 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) पंजाब सिंह (जेसी-348192वाई), 23 जनवरी
2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) हरी राम (जेसी-348028डब्ल्यू), 24 जनवरी
2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) पुरन सिंह (जेसी-348052एम), 04 मार्च 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) देवेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-348163के), 07 फरवरी 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) करतार सिंह यादव (जेसी-348133एम), 19 जनवरी 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) झिरमल सिंह (जेसी-347968पी), 06 मार्च 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सतीश कुमार (जेसी-348041ए), 05 फरवरी 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) फुल चन्द्र यादव (जेसी-347867एफ), 21 अप्रैल 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) महावीर सिंह (जेसी-348201पी), 02 मई 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) जसबीर शर्मा (जेसी-348121एक्स), 18 मई 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) विनोद कुमार (जेसी-347604एच), 20 मई 2009

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रमेश चन्द्र (जेसी-348109डब्ल्यू), 04 अगस्त 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) भुमी सिंह (जेसी-347981वाई), 06 अगस्त 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) नरेन्द्र कुमार (जेसी-348060एल), 04 सितम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेश कुमार तिवारी (जेसी-347970एम), 03 सितम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) केवल कुमार (जेसी-347973ए), 04 सितम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) दवंगे हरीभाऊ मारुती (जेसी-348179पी), 06 अक्टूबर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामेसन नायर पी एस (जेसी-348000डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) चंडगी राम यादव (जेसी-348099एक्स), 16 अक्टूबर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सत्य नारायण भाथी (जेसी-348308के), 03 नवम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) अमीन चंद (जेसी-348189वाई), 02 दिसम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) बलबीर सिंह गुलेरिया (जेसी-348118एक्स), 03 नवम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) अरिवंदकशन पिल्लै एन (जेसी-348197एक्स), 02 दिसम्बर 2008

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार (जीडी) शिंदे बाजीराव बाबाबाव (जेसी-348092एन), 04 फरवरी 2008

सूबेदार (जीडी) सोहनबीर सिंह मान (जेसी-348299एन), 08 फरवरी 2008

सूबेदार (जीडी) त्रिवेणी राव (जेसी-348421वाई), 02 फरवरी 2008

सूबेदार (जीडी) कासम खान (जेसी-348363ए), 08 फरवरी 2008

सूबेदार (जीडी) सुभाष गुलाबराव निरमले (जेसी-348129के), 04 फरवरी 2008

सूबेदार (जीडी) जोगिन्दर सिंह (जेसी-348757वाई), 08 दिसम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) मोहिते राजाराम (जेसी-348624एच), 05 अक्टूबर 2008

सूबेदार (जीडी) जोगिन्दर सिंह (जेसी-348756डब्ल्यू), 06 फरवरी 2008

सूबेदार (जीडी) उमराव लाल सैनी (जेसी-348782एक्स), 05 मार्च 2009

सूबेदार (जीडी) चरन सिंह (जेसी-349211एल), 07 मार्च 2009

सूबेदार (जीडी) राजेन्द्र सिंह (जेसी-348771एल), 13 मार्च 2009

सूबेदार (जीडी) कैलाश चन्द (जेसी-348924के), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार (जीडी) भवंर लाल सैन (जेसी-348819एन), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार (जीडी) हनीफ अहमद (जेसी-348849एल), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार (जीडी) यशवंत विठल जोगले (जेसी-348774वाई), 13 अप्रैल 2009

सूबेदार (जीडी) देवेन्द्र सिंह (जेसी-348814पी), 15 मई 2009

सूबेदार (जीडी) गोरे सुरेश मस्कु (जेसी-348262एम), 18 मार्च 2009

सूबेदार (जीडी) मोहन लाल (जेसी-348449वाई), 01 जुलाई 2008

सूबेदार (जीडी) जाधव परशराम दत्ताराम (जेसी-348519एम), 04 सितम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) श्री निवास पांडे (जेसी-348434डब्ल्यू), 09 सितम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) मनी राम शर्मा (जेसी-348513एल), 02 सितम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) हरबंस सिंह (जेसी-348491एक्स), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) जसबीर सिंह (जेसी-348557एच), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार (जीडी) मोहम्मद जानुदीन (जेसी-348471के), 29 अगस्त 2008

सूबेदार (जीडी) पाटील किरन कुमार (जेसी-348607एच), 04 अक्टूबर 2008

सूबेदार (जीडी) चरन सिंह (जेसी-348751एक्स), 03 नवम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) कप्तान सिंह (जेसी-348661डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2008

सूबेदार मेजर (संगीतकार) के रैंक में

सूबेदार (संगीतकार) राम शरण (जेसी-349486वाई), 06 मार्च 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) के रैंक में

सूबेदार (एसकेटी) शिवराज सिंह चौधरी (जेसी-348448डब्ल्यू),
20 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर (आरटी) के रैंक में

सूबेदार (आरटी) वकीलुद्दीन (जेसी-140506डब्ल्यू), 05 दिसम्बर
2008

सूबेदार (आरटी) अच्युतानंद त्रिपाठी (जेसी-140997एक्स), 18 नवम्बर
2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) वेद प्रकाश (जेसी-348996एन),
17 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) अनुप सिंह जरयाल (जेसी-349011पी),
18 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राज करन जाट (जेसी-349027ए),
21 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राकेश कुमार (जेसी-348957पी),
15 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुभाष चंद्र (जेसी-348994एच),
15 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रभु नारायण पाठक (जेसी- 348708डब्ल्यू),
23 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) मेवा राम (जेसी-348993ए), 06 फरवरी
2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कुरडा राम (जेसी-349002एन),
16 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) विक्रम सिंह (जेसी-349286एच),
09 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) पाटील व्यंकट धोंडीबा (जेसी- 349571एफ),
19 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेंद्र बहादुर सिंह (जेसी-349524के),
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) विक्रम चंद राना (जेसी-349597डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेश सिंह (जेसी-349582एन),
15 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महावीर प्रसाद शर्मा (जेसी-349565एन),
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुखदेव सिंह (जेसी-349575एक्स),
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) देशमुख सतीश कुमार एकनाथ (जेसी-
349404एल), 02 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कुंवर सिंह (जेसी-349242एल),
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) मदन मोहन उनियाल (जेसी-
349621एफ), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सोनवणे बालकृष्ण भिकाजी (जेसी-
349611एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) भालेराव संजय कुमार शांतवन (जेसी-
349636के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कृपा शंकर उपाध्याय (जेसी-
349635एफ), 02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) ओम प्रकाश (जेसी-349713एन),
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जोगिंदर सिंह चौहान (जेसी-349590एम),
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेश कुमार (जेसी-349620वाई),
15 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) हबीब शाह (जेसी-349710ए),
02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रनवीर सिंह रावत (जेसी-349591पी),
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेंद्र बहादुर सिंह (जेसी-349583डब्ल्यू),
02 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामहरी दाय रे (जेसी-348641पी),
02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रताप सिंह (जेसी-349634वाई),
21 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कोंढेकर माल्लु गणपती (जेसी-
350000पी), 21 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) उत्तम सिंह (जेसी-349718एम),
02 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कुलकर्णी चंद्रकांत हरीपंत (जेसी-
349715वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेश सिंह (जेसी-349181वाई),
26 मार्च 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) चंद्रिका प्रसाद (जेसी-349719पी),
01 मई 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कुरहाडे काशप्पा कलपा (जेसी-
349727एन), 01 मई 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामजीलाल गोस्वामी (जेसी-349803पी),
01 जून 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेश प्रसाद सिंह (जेसी-349788एल),
01 जून 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दरीबा एस चौगले (जेसी-349791एल),
01 जून 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) अम्बर लाल (जेसी-349499डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) खेम सिंह (जेसी-349472वाई),
07 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) पाटील विश्वनाथ कृष्णा (जेसी-
349397ए), 18 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दलबीर सिंह (जेसी-349531ए),
01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम निवास सिंह (जेसी-349520एन),
01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दुबल रमेश पिताजी राव (जेसी-
349538के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) लोखंडे शिवाजी बापु (जेसी-
349595एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) साबले पांडुरंग कचरू (जेसी-
349579एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दुष्यंत कुमार (जेसी-349495ए),
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) धाने शिवाजी शंकर (जेसी-349506एफ),
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शिव रतन सिंह शाकिया (जेसी-
348668ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) श्री कृष्णा (जेसी-349541के),
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) येवले विलास सीताराम (जेसी-
349510के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) धुरी विठल गोविंद (जेसी-349536वाई),
15 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) फालके रंगनाथ बबन (जेसी-
349521डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शिवाजी यादव (जेसी-349525एम),
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महेंद्र सिंह (जेसी-349542एम),
03 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राधे श्याम (जेसी-349552डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) देशमुख नानासाहेब बाबासाहेब (जेसी-
349576ए), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) खेम चंद गुप्ता (जेसी-349581एल),
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेश कुमार मिश्रा (जेसी-349553वाई),
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) गुरदीप सिंह (जेसी-349676एल),
17 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरप्रीत सिंह (जेसी-349668एम),
16 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) कुलवंत सिंह (जेसी-349669पी),
17 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) धर्म पाल (जेसी-349696वाई),
28 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) तजाने रघुनाथ दशरथ (जेसी- 349658एच),
18 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) हरभजन सिंह (जेसी-349642एक्स), 15 जनवरी
2008

नायब सूबेदार (जीडी) कदम शिवाजी कृष्णाजी (जेसी- 349660ए),
22 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) कटारे गोरखनाथ जगन्नाथ (जेसी-
349680एन), 18 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) चंद्र गोपाल (जेसी-349672पी),
15 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) भोसले अमोल केशव (जेसी- 349684के),
16 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अरविंद कुमार दत्ता (जेसी- 349656एक्स),
15 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सत्तार खान (जेसी-349661एच),
01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) चव्हाण दिलीप अक्रम (जेसी- 349841एल),
18 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) मलकीत सिंह (जेसी-349974एफ), 01 नवम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) कुलदीप सिंह (जेसी-349989के),
03 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) तरसेम सिंह (जेसी-349977पी),
08 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) लक्ष्मण रामचंद्र सकपाल (जेसी- 349953एल),
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) साने सुभाष शिंदु (जेसी-349971एन),
13 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुभाष चंद्रा राम खोत (जेसी- 349981एक्स),
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) शोकत अली (जेसी-350009के), 12 जनवरी
2008

नायब सूबेदार (जीडी) गंगा प्रसाद वर्मा (जेसी-350080एक्स),
10 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मेजर सिंह (जेसी-349973वाई), 03 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) शिवाजी राम मीना (जेसी-350022एन), 07 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) जगीर सिंह भट्टी (जेसी-350035एल), 09 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद इहदीद अंसारी (जेसी-350021एल), 07 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) अक्रम महादेव खोत (जेसी-350025एफ), 07 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेश पाल (जेसी-350042एफ), 16 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मलकीत सिंह (जेसी-350023डब्ल्यू), 15 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) खामकर भीमराव दत्तात्रय (जेसी-349946पी), 24 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) लुटे सखाराम महादजी (जेसी-350010वाई), 07 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) हरक सिंह मेहता (जेसी-350037डब्ल्यू), 12 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) बंसी श्रीपती ढाकने (जेसी-350014पी), 12 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) रामेश्वर दास (जेसी-350044एम), 12 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) रघबीर सिंह (जेसी-350024वाई), 16 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) गायकवाड मारुती रामु (जेसी-350038वाई), 20 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) शिव प्रसाद पांडे (जेसी-350036एन), 16 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद ईशक (जेसी-350056एफ), 18 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) नेहाल सिंह (जेसी-350053एन), 18 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) प्रीतम सिंह (जेसी-350019एन), 12 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) बिसाले अशोक बिछोबा (जेसी-350040डब्ल्यू), 27 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) राम चंद्रा (जेसी-350071डब्ल्यू), 26 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) चांदगुडे काका महिपती (जेसी-350074के), 16 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) कदम माणिक राव दामोदर (जेसी-350054डब्ल्यू), 16 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) हरविंदर सिंह (जेसी-350106एफ), 18 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) भूप सिंह (जेसी-350041वाई), 03 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) सतबिंदर सिंह (जेसी-350059पी), 23 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील महादेव बलवंत (जेसी-350072वाई), 21 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) खुले विनोद गणेश राव (जेसी-350058एम), 19 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) कडुकर श्रीपती शिवराम (जेसी-350309एल), 20 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (जीडी) पीर अली (जेसी-350065एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मनमोहन सिंह (जेसी-350076पी), 09 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) शेर मुहम्मद (जेसी-350075एम), 07 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) रणजीत सिंह (जेसी-350112पी), 11 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद जलील (जेसी-350051एच), 26 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) जवाहर खान (जेसी-350102एल), 13 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) बलवीर सिंह (जेसी-350093पी), 03 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) सतनाम सिंह (जेसी-350111एम), 08 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) चरन सिंह (जेसी-350047ए), 31 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मनजीत सिंह (जेसी-350073एफ), 25 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) फटून खान (जेसी-350033ए), 28 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) सुमेर सिंह (जेसी-350064ए), 02 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) अजमल (जेसी-350108एम), 02 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) जाधव दादाराव दत्तात्रय (जेसी-350077एक्स), 04 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) महिमान सिंह थापा (जेसी-350310ए), 12 मार्च 2009

नायब सूबेदार (जीडी) महाडिक जयवंत दौलत (जेसी-350045पी),
16 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) चोपडे गजानन भीमाजी (जेसी-350082एच),
05 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक यशवंत पवार (जेसी-350113एक्स),
05 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) हरमेल सिंह (जेसी-350110के), 08 अप्रैल
2009

नायब सूबेदार (जीडी) गया प्रसाद (जेसी-350103एन), 29 अप्रैल
2009

नायब सूबेदार (जीडी) हिरा सिंह नेगी (जेसी-350115एच), 11 अप्रैल
2009

नायब सूबेदार (जीडी) बलदेव सिंह (जेसी-350373एच), 01 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) हरी सिंह (जेसी-350039एफ), 01 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) तसदिक (जेसी-350132एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) दर्शन सिंह (जेसी-350137एफ), 01 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) औते सुरेश श्रीपती (जेसी-350138के),
01 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) मोहन चंद्रा जोशी (जेसी-350092एम),
04 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) तोंडे चंद्रकांत बिठोबा (जेसी-350140एफ),
04 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) परभती लाल (जेसी-350118डब्ल्यू), 11 अप्रैल
2009

नायब सूबेदार (जीडी) महेंद्र सिंह (जेसी-350186के), 18 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) जसपाल सिंह (जेसी-350123एफ), 11 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) राजेंद्रन पी (जेसी-350048एच), 16 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) हरमोहिंदर सिंह (जेसी-350143पी), 10 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेंद्र पाल सिंह (जेसी-350141के), 01 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) मुरलीधरन के (जेसी-350158एक्स), 01 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) गुरमेल सिंह (जेसी-350114ए), 08 अप्रैल
2009

नायब सूबेदार (जीडी) जसपाल सिंह (जेसी-350194एच), 01 जून
2009

नायब सूबेदार (जीडी) बलबीर सिंह (जेसी-350142एम), 25 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) कन्हैया ठाकुर (जेसी-350182एन), 01 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) माझी स्वायन (जेसी-350378एफ), 01 जून
2009

नायब सूबेदार (जीडी) संत सिंह (जेसी-350196एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार (जीडी) भियुंगडे लक्ष्मण मारुती (जेसी-350261एच),
02 जून 2009

नायब सूबेदार (जीडी) सुखचैन सिंह (जेसी-350144एक्स), 01 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) खोत सखाराम खंडु (जेसी-350109पी),
03 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) रास बिहारी (जेसी-350104डब्ल्यू), 15 मई
2009

नायब सूबेदार (जीडी) सदानंद राम (जेसी-350057के), 01 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) वडीराज चनागेरी (जेसी-349898ए),
02 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जीडी) विनोद कुमार (जेसी-349812डब्ल्यू),
05 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जीडी) बख्शीश सिंह (जेसी-349839एन), 14 अगस्त
2008

नायब सूबेदार (जीडी) मोमीन खान (जेसी-349876एफ), 05 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) कुशेबा तुलसीराम हंगरे (जेसी-349891डब्ल्यू),
06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जोगिंदर सिंह (जेसी-349915पी), 04 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) बिर्दर सिंह (जेसी-349888डब्ल्यू), 01 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) इंगले राजाराम महादेव (जेसी-349892वाई),
01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) यामीन अली (जेसी-349893एफ), 01 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरदीप सिंह (जेसी-349911वाई), 01 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) जोगिंदर सिंह (जेसी-349895एम), 02 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) कुलवंत सिंह (जेसी-349894के), 08 सितम्बर
2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरमेल सिंह (जेसी-349827वाई), 11 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जीडी) राजेंद्र सिंह (जेसी-349889वाई), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) पडले भागीनाथ अम्बादास (जेसी-349887एन), 05 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दर्शन सिंह (जेसी-349902एक्स), 09 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरजंत सिंह (जेसी-349933एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दिलीप दिनकर पाटील (जेसी-349913के), 11 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) चांद सिंह (जेसी-349922एल), 03 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) हरभजन सिंह (जेसी-349916एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेंद्र सिंह (जेसी-349920ए), 03 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) ओम पाल सिंह (जेसी-349917ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अल्लाबचाया मिरासी (जेसी-349945एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) इथापे रामदास नानाभाऊ (जेसी-349962एम), 06 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुनील मोती राम जोगी (जेसी-349947एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरदेव सिंह (जेसी-349936एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरजंत सिंह (जेसी-349960एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) नवाब अली अंसारी (जेसी-349923एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) ज्ञान सिंह जटव (जेसी-349919एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जितेंद्र पाल सिंह (जेसी-349938डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दर्शन सिंह (जेसी-349961के), 14 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दयाल सिंह (जेसी-349857डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) हरी सिंह (जेसी-349939वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जरनैल सिंह (जेसी-349918एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) रावल सिंह (जेसी-349968एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) भगवान श्रीपती पाटील (जेसी-349857डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जीडी) साखरे ज्ञानेश्वर भैयाजी (जेसी-349817पी), 10 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सरबजीत सिंह (जेसी-349972डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) राकेश चंद्र पांडे (जेसी-349965ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अयुब खान (जेसी-349970एल), 03 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) बहादुर सिंह (जेसी-349967एल), 03 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जाधव राजाराम बाबुराव (जेसी-349966एच), 03 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) शिवताज सिंह (जेसी-349914एम), 10 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दविंदर सिंह (जेसी-349969डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) गुरमीत सिंह (जेसी-349944के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) कश्मीर सिंह (जेसी-349980पी), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील दत्तात्रय परसु (जेसी-349901पी), 05 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अबदुल कलाम अंसारी (जेसी-349890एन), 02 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) भाटकर सुधीर गुलाबराव (जेसी-349995एक्स), 08 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक बापुराव सातपुते (जेसी-349952एच), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) रूलडा राम (जेसी-349949एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) हरबंस सिंह (जेसी-349976एम), 04 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक कुमार (जेसी-349979ए), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) उभे मोहन बालु (जेसी-349990वाई),
05 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दीना नाथ त्रिपाठी (जेसी-349996ए),
08 दिसम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) भबीषण सिंह (जेसी-349423डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (एसकेटी) ओम लाल (जेसी-349053एफ),
09 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (एसकेटी) सुरेंद्र सिंह (जेसी-349055एम), 07 फरवरी
2008

सूबेदार (आरटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) महेन्द्र कुमार (जेसी-348397एन), 06 अप्रैल
2009

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) गबरू खान (सं. 1575134वाई अब जेसी-
351173वाई), 01 जून 2009

हवलदार (जीडी) गुरमीत सिंह (सं. 1575151वाई अब जेसी-
351174एफ), 01 जून 2009

हवलदार (जीडी) देसाले गोकुल पंडित (सं. 1575449एच अब जेसी-
351175के), 01 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) जोसफ हेमरोम (सं. 1575921ए अब जेसी-
351176एम), 11 मई 2009

हवलदार (जीडी) गुरचरन सिंह (सं. 1576142के अब जेसी-
351177पी), 01 जून 2009

हवलदार (जीडी) जगदीश सिंह (सं. 1576402पी अब जेसी-
351178एक्स), 15 मई 2009

हवलदार (जीडी) जगदाले विजय कुमार जयसिंगराव (सं. 1576415एफ
अब जेसी-351179ए), 01 मई 2009

हवलदार (जीडी) ओम देव (सं. 1576647ए अब जेसी- 351180पी),
01 मई 2009

हवलदार (जीडी) राम सिंह (सं. 1576682एच अब जेसी-
351181एक्स), 10 जून 2009

हवलदार (जीडी) जाधव नारायण विठ्ठल (सं. 1576882वाई अब जेसी-
351182ए), 07 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) करंडे अनंदा प्रह्लाद (सं. 1571317एक्स अब जेसी-
351188एफ), 03 जून 2009

हवलदार (जीडी) पवार सुभाष जयसिंग (सं. 1571360वाई अब जेसी-
351189के), 01 जून 2009

हवलदार (जीडी) सुखदेव सिंह (सं. 1571395पी अब जेसी-
351190वाई), 02 जून 2009

हवलदार (जीडी) आनंदपाल सिंह शिशोदिया (सं. 1576993डब्ल्यू
अब जेसी-351191एफ), 01 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) गोडगे रमेश तुकाराम (सं. 1577002के अब जेसी-
351192के), 09 जून 2009

हवलदार (जीडी) संतोष कुमार (सं. 1577010एच अब जेसी-
351193एम), 02 जून 2009

हवलदार (जीडी) अफक अहमद अंसारी (सं. 1577070एक्स अब
जेसी-351194पी), 02 जून 2009

हवलदार (जीडी) बेनी प्रसाद नामदेव (सं. 1577274के अब जेसी-
351195एक्स), 04 जून 2009

हवलदार (जीडी) सुलतान सिंह (सं. 1577532वाई अब जेसी-
351196ए), 22 जून 2009

हवलदार (जीडी) जावेद खान (सं. 1577549एम अब जेसी-
351197एच), 08 जून 2009

हवलदार (जीडी) दर्शन सिंह (सं. 1577582के अब जेसी- 351198एल),
01 जून 2009

हवलदार (जीडी) पाटील राज कुमार शंकर (सं. 1577850एच अब
जेसी-351199एन), 03 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) सरभत सिंह (सं. 1581562एन अब जेसी-
351183एच), 01 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) सुरेश सिंह नरवारिया (सं. 1576312एच अब
जेसी-351184एल), 01 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) ईंद्र कुमार यादव (सं. 1580488एल अब
जेसी-351185एन), 18 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) गौतम रॉय (सं. 1580498पी अब जेसी-
351186डब्ल्यू), 01 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) सोम नाथ (सं. 1580967एम अब जेसी-
351187वाई), 22 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) सुरेंद्र सिंह (सं. 1581373के अब जेसी-351201ए), 04 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) माया शंकर पांडे (सं. 6930903एन अब जेसी-351207एफ), 13 जुलाई 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) कौर सिंह यादव (सं. 1581368वाई अब जेसी-351208के), 14 जुलाई 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) अभय देव प्रसाद (सं. 1581566के अब जेसी-351209एम), 13 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) रवी भिकाजी मोरे (सं. 1574534वाई अब जेसी-351200एक्स), 20 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) जगतार सिंह (सं. 1576396एफ अब जेसी-351202एच), 10 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) बलवंत राय (सं. 1571531ए अब जेसी-351203एल), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) पाटील अरविंद यशवंत राव (सं. 1577261एम अब जेसी-351204एन), 20 जून 2009

हवलदार (जीडी) बंशराज वर्मा (सं. 1577685एच अब जेसी-351205डब्ल्यू), 06 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) शाहिद हुसैन (सं. 1577783एच अब जेसी-351206वाई), 11 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) दिलबाग सिंह (सं. 1572698डब्ल्यू अब जेसी-351210एफ), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) राम बहादुर सिंह (सं. 1572930डब्ल्यू अब जेसी-351211के), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) सुखदेव सिंह (सं. 1573150एक्स अब जेसी-351212एम), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) बलदेव सिंह (सं. 1573154एन अब जेसी-351213पी), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) रामजी राम (सं. 1577898डब्ल्यू अब जेसी-351214एक्स), 01 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) लखविंदर सिंह (सं. 1577946एल अब जेसी-351215ए), 03 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) कैलाश नाथ (सं. 1577972एम अब जेसी-351216एच), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) लवटे बबन निवृत्ती (सं. 1577991एक्स अब जेसी-351217एल), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) फिरोज अली (सं. 1579090के अब जेसी-351218एन), 02 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) राम शब्द सिंह (सं. 1573422एम अब जेसी-351219डब्ल्यू), 06 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) वरे बाबा भीमराव (सं. 1573488एच अब जेसी-351220एल), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) महावीर वैष्णव (सं. 1573733ए अब जेसी-351221एन), 02 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार गिरीश चंद्रा राय (सं. 1476292एल अब जेसी-338772ए), 22 नवम्बर 2008\$

हवलदार राकेश कुमार (सं. 1472234के अब जेसी-338773एच), 02 मई 2009@

हवलदार नरेंद्र सिंह असोला (सं. 1477658के अब जेसी-338774एल), 02 अप्रैल 2009@

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 1478175वाई अब जेसी-338775एन), 01 अप्रैल 2009@

हवलदार नरेश कुमार (सं. 1478192वाई अब जेसी-338776डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2009@

हवलदार प्रदीप कुमार बिश्वास (सं. 1478322डब्ल्यू अब जेसी-338777के), 18 मई 2009#

हवलदार हीरा सिंह (सं. 1478448डब्ल्यू अब जेसी-338778एफ), 01 मई 2009#

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 1478484एफ अब जेसी-338779के), 01 मई 2009#

हवलदार राकेश कुमार सिंह (सं. 1478517एफ अब जेसी-338780वाई), 01 मई 2009#

हवलदार नेत्र पाल सिंह (सं. 1478525ए अब जेसी-338781एफ),
01 मई 2009#

हवलदार भुपाल सिंह (सं. 1478575एल अब जेसी-338782के),
01 मई 2009#

हवलदार तरिंद्र पाल सिंह (सं. 1478645वाई अब जेसी-338783एम),
04 मई 2009#

हवलदार बिजेंद्र सिंह (सं. 1478739डब्ल्यू अब जेसी-338784पी),
01 मई 2009#

हवलदार रमेश सिंह (सं. 1478828पी अब जेसी-338785एक्स),
01 जून 2009*

हवलदार मंगला नंद (सं. 1478834एच अब जेसी-338786ए),
05 जून 2009*

हवलदार दलीप कुमार नाथ (सं. 1478845पी अब जेसी-338787एच),
01 जून 2009*

हवलदार चंद्रवीर सिंह (सं. 1478851एच अब जेसी-338788एल),
01 जून 2009*

हवलदार जय नारायण (सं. 1478863एक्स अब जेसी-338789एन),
02 जून 2009*

हवलदार देवेंद्र सिंह (सं. 1478872वाई अब जेसी-338790एक्स),
01 जून 2009*

हवलदार दिलीप कुमार स्वेन (सं. 1478887एफ अब जेसी-
338791एक्स), 01 जून 2009*

हवलदार किशन सिंह (सं. 1478936वाई अब जेसी-338792एन),
02 जून 2009*

हवलदार विरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 1479006के अब जेसी-
338793डब्ल्यू), 01 जून 2009*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 1479017डब्ल्यू अब जेसी-
338794वाई), 01 जून 2009*

हवलदार मधु सुदन गोपे (सं. 1479019एफ अब जेसी-338795एफ),
01 जून 2009*

हवलदार सुनील कुमार छेत्री (सं. 1492485पी अब जेसी-338796के),
01 जून 2009*

हवलदार कंवर राकेश सिंह (सं. 1493222एच अब जेसी-338797एम),
01 जून 2009*

हवलदार पी राधा कृष्णन (सं. 1488527वाई अब जेसी-338798पी),
01 जून 2009*

हवलदार चेत राम (सं. 1475004एफ अब जेसी-338799एक्स),
02 जुलाई 2009*

हवलदार गज्जन सिंह (सं. 1476026एफ अब जेसी-338800एफ),
24 जून 2009*

हवलदार कुबेर सिंह (सं. 1476121वाई अब जेसी-338801के),
01 जुलाई 2009**

हवलदार अली बोरद्दीन बिश्वास (सं. 1476649डब्ल्यू अब जेसी-
338802एम), 01 जुलाई 2009**

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 1477475एन अब जेसी-338803पी),
01 जुलाई 2009**

हवलदार जवीर सिंह (सं. 1477760एम अब जेसी-338804एक्स),
01 जुलाई 2009**

हवलदार प्रभु नाथ सिंह यादव (सं. 1478516वाई अब जेसी-
338805ए), 01 जुलाई 2009**

हवलदार बलवंत कुमार पांडे (सं. 1478760वाई अब जेसी-
338806एच), 01 जुलाई 2009**

हवलदार राजेश कुमार सिंह (सं. 1476190पी अब जेसी-338807एल),
01 जुलाई 2009**

हवलदार किशन बिहारी सिंह यादव (सं. 1479001एल अब जेसी-
338808एन), 01 जुलाई 2009**

हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 1479126एच अब जेसी-338809डब्ल्यू),
01 जुलाई 2009**

हवलदार नबा कुमार सिंगा (सं. 1479179एफ अब जेसी-
338810एल), 17 जुलाई 2009**

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार सत्य पाल शर्मा (सं. 1574387एफ अब जेसी-338811एन),
28 मई 2009&

हवलदार मनोज कुमार पांडे (सं. 1477170एन अब जेसी-
338812डब्ल्यू), 21 मई 2009@

हवलदार रघुनाथ प्रसाद सिन्हा (सं. 1477235डब्ल्यू अब जेसी-
338813वाई), 09 जुलाई 2009@

हवलदार राम बिलास (सं. 1477348वाई अब जेसी-338814एफ),
09 जून 2009@

हवलदार सुदर्शन के (सं. 1477764एच अब जेसी-338815के),
10 मई 2009@

हवलदार जगदीश सिंह पटेल (सं. 1478469एम अब जेसी-338816एम),
18 मई 2009#

हवलदार तपन कुमार दास (सं. 1478520एफ अब जेसी-338817पी),
15 जून 2009#

हवलदार रमेश टी सी (सं. 1478731के अब जेसी-338818एक्स),
05 जून 2009#

हवलदार ब्रज भूषण रॉय (सं. 1477237एफ अब जेसी-338819ए),
13 जुलाई 2009*

हवलदार एस लक्ष्मणन (सं. 1478003के अब जेसी-338820पी),
13 जुलाई 2009*

हवलदार लियाकत अली मंडल (सं. 1478527एल अब जेसी-338821एक्स), 13 जुलाई 2009*

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 1479430एम अब जेसी-338822ए), 01 जून 2009**

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 1479522वाई अब जेसी-338823एच), 11 जुलाई 2009**

हवलदार हनुमान राम (सं. 1479858वाई अब जेसी-338824एल), 14 जुलाई 2009**

नायब सूबेदार क्लर्क (आईएम) के रैंक में

हवलदार ओम पाल सिंह (सं. 1475817एक्स अब जेसी-338825एन), 26 मई 2009#

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार योगेन्द्र सिंह नेगी (सं. 15344313के अब जेसी-338826डब्ल्यू), 09 मई 2009@

हवलदार हीरा सिंह (सं. 15344326एफ अब जेसी-338827वाई), 12 जून 2009@

हवलदार महेश कुमार (सं. 15344300एम अब जेसी-338828एफ), 27 मई 2009@

हवलदार शिव शंकर सिंह यादव (सं. 1479599एफ अब जेसी-338829के), 18 मई 2009#

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 1480806पी अब जेसी-338830वाई), 14 मई 2009#

हवलदार पंकज झा (सं. 15344338डब्ल्यू अब जेसी-338831एफ), 01 जुलाई 2009**

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008)

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009)

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009)

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

अलका जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 40, दिनांक 29 दिसम्बर 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

कोर ऑफ सिग्नल्स

स्थाई सूबेदार (ओपी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार सुंदर लाल गौतम (जेसी-374580एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार एम अजमेरी (जेसी-374585एम), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार महिन्दर सिंह (जेसी-374587एक्स), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-374588ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार देवदास वी (जेसी-374589एच), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार भरत राम (जेसी-374606एक्स), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-374607ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार बुध प्रकाश सिंह (जेसी-374610ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार तुलसी सिंह (जेसी-374688एल), 27 जनवरी 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-374691एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार सत्रुहन तिवारी (जेसी-374758वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-374761वाई), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार वी रवीन्द्रन नायर (जेसी-374763के), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-374806एन), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार राम पति (जेसी-374807डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार महिन्दर सिंह (जेसी-374808वाई), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार कौशलेन्द्र कुमार (जेसी-374809एफ), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार रिशी मुनी शर्मा (जेसी-374810डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार नरेश दत्त (जेसी-375058एक्स), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार लिला राम (जेसी-375079एन), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार पार्थसारथी के (जेसी-375080एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार प्रेम नाथ साह (जेसी-375084वाई), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-375085एफ), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार एन किशोर पोखरिया (जेसी-375188ए), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-375189एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार मधर सिंह (जेसी-375190एक्स), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-375191ए), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-375193एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार बुट्टा सिंह (जेसी-375226एल), 01 मई 2008

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-375227एन), 01 मई 2008

नायब सूबेदार राम किशोर साहु (जेसी-375216एफ), 01 मई 2008

नायब सूबेदार सोमबीर शर्मा (जेसी-375258एन), 01 जून 2008

नायब सूबेदार शादी राम प्रजापत (जेसी-375259डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-375292एन), 07 जून 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुधाकरन एन (जेसी-375293डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार ममाचन टी एम (जेसी-375334पी), 01 जून 2008

नायब सूबेदार बी के महापात्रा (जेसी-375366एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार राधा कृष्ण मिश्रा (जेसी-375368एच), 01 जून 2008

नायब सूबेदार अजीत कुमार राय (जेसी-375369एल), 01 जून 2008

नायब सूबेदार तारा दत्त शर्मा (जेसी-375415पी), 01 जून 2008

नायब सूबेदार दीप चन्द साहु (जेसी-375417ए), 01 जून 2008

नायब सूबेदार मेथ्यू पी एम (जेसी-375453एल), 17 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-375456वाई), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार सरावन कुमार (जेसी-375488एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार के बहादुर सिंह (जेसी-375489के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मेनेजर प्रसाद (जेसी-375490वाई), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सुसान्त कुमार दास (जेसी-375491एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार उमेश प्रसाद सिंह (जेसी-375492के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सतपाल वर्मा (जेसी-375493एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार ए एन त्रिपाठी (जेसी-375494पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार गंगाधरन ए (जेसी-375518एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार बी एस करवासरा (जेसी-375520एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार आनन्द कुमार (जेसी-375522डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-375542के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजन वी सी (जेसी-375543एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-375544पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-375764वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार रामजीयावन (जेसी-375799पी), 25 नवम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सतविन्दर सिंह (जेसी-375845वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार राय सिंह (जेसी-375846एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार अनिल कुमार तिवारी (जेसी-375848एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार मोहम्मद एन के (जेसी-375849पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार ब्रजेश कुमार (जेसी-375850के), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार राम करन (जेसी-375851एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जंगबीर (जेसी-375852पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सुमन कुमार (जेसी-375853एक्स), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह (जेसी-375854ए), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार कपल सिंह (जेसी-375917एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार ब्रजाबन्धू महंती (जेसी-375918ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-375919एच), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार जिले सिंह (जेसी-375920एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-375921ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार राम देव (जेसी-375922एच), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार देशमुख नगोराओ वी आर (जेसी-376030के), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार आजाद सिंह (जेसी-376032पी), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार मारकंडे (जेसी-376033एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार श्री भगवान (जेसी-376090वाई), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार दिवाकर प्रसाद मौर्या (जेसी-376091एफ), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार मित्तर देव ठाकुर (जेसी-376092के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार चांदबीर (जेसी-376093एम), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार दया कृष्ण (जेसी-376095एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार देबाशीष चटर्जी (जेसी-376099एन), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार शर्मा (जेसी-376100एक्स), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत (जेसी-376101ए), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार बिजय के मोहापात्रा (जेसी-376102एच), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार सकादेवन बी (जेसी-376103एल), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार कली राम यादव (जेसी-376104एन), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार गुप्ता (जेसी-376105डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-376188एम), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-376189पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार श्याम बाबु शर्मा (जेसी-376190के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बच्चु सिंह चौधरी (जेसी-376230ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-376231एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सरोज कुमार शर्मा (जेसी-376269एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बनानाली नायक (जेसी-376265डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जे एस प्रसाद रमन (जेसी-376267एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-376268के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार शिवा कुमार (जेसी-376270एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार हरीश ई आर (जेसी-376271के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार लभ सिंह (जेसी-376337पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-376340पी), 01 मई 2009

नायब सूबेदार पुष्कर सिंह रावत (जेसी-376341एक्स), 01 मई 2009

नायब सूबेदार राज करन (जेसी-376342ए), 01 जून 2009

नायब सूबेदार पविश्रन वी (जेसी-376358एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार ब्रिजेंद्र सिंह (जेसी-376359एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार जया कुमार ए (जेसी-376360एच), 01 जून 2009

नायब सूबेदार आर के एस कुशवाह (जेसी-376361एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-376362एन), 01 जून 2009

सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार लुकोज डी (जेसी-372598एल), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार वेद प्रकाश शर्मा (जेसी-372599एन), 12 मार्च 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बुद्रा ओरेन (जेसी-372600एक्स), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-372601ए), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-372602एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सरदार सिंह रावत (जेसी-372603एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार कलिल टी (जेसी-372604एन), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार हीरा लाल (जेसी-372605डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सुरेश कुमार एन (जेसी-372606वाई), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार कैलाश यादव (जेसी-372680ए), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार दुशासन परीदा (जेसी-372681एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार राम ध्यान सिंह (जेसी-372682एल), 12 मई 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के सी जेना (जेसी-372683एन), 01 मई 2008

नायब सूबेदार रामनाथ प्रसाद (जेसी-372723के), 01 जून 2008

नायब सूबेदार दयानंद यादव (जेसी-372802वाई), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार हरदन रावत (जेसी-372803एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार एस एस नेगरकोटी (जेसी-372804के), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार दिलीप शर्मा (जेसी-372805एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-372806पी), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार अजीत राज (जेसी-372807एक्स), 17 अगस्त 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जेसी-372808ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार नाहर सिंह (जेसी-372868पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार गोकरन सिंह (जेसी-372869एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार दिबाकर साहु (जेसी-372902के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सुरेश चंद्र होटा (जेसी-372903एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार परशु राम साह (जेसी-372960एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-373034पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार दलविंदर सिंह (जेसी-373035एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-373036ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार परगट सिंह (जेसी-373037एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार बिनोदा नंद झा (जेसी-373038एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार पी के चक्रवर्ती (जेसी-373039एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार वजीर सिंह सिवाच (जेसी-373040एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार राजिंदर सिंह (जेसी-373041एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-373042एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार ओमप्रकाश पुरोहित (जेसी-373043डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रोहितश (जेसी-373044वाई), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार अमरिक सिंह (जेसी-373045एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-373046के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार झब्बु सिंह (जेसी-373143एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार राम शरन (जेसी-373144के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मेहताब सिंह (जेसी-373191एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-373192के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नर सिंह अवाना (जेसी-373193एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार एस रामा मूर्ती (जेसी-373194पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार ओमकार सिंह (जेसी-373195एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार ससि के (जेसी-373300एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार एम पी सिंह (जेसी-373301एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार पलविंदर सिंह (जेसी-373302एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार रमेश चंद नायक (जेसी-373303डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-373305एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-373307एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सरन सिंह (जेसी-373308पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राम किशन यादव (जेसी-373310एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सत्येंद्र (जेसी-373326एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार ई एस नारायना मुर्ती (जेसी-373327ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार दयानाथ प्रतिहास्त (जेसी-373440पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार दामोदर एस (जेसी-373441एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेंद्र राम (जेसी-373442ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार चंद्रकांत आर के (जेसी-373443एच), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-373444एल), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सी गर्नेद्रिया राओ (जेसी-373445एन), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार के एस जूरैल (जेसी-373446डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार रामा क्रिशनन नायर बी (जेसी-373447वाई), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार मानिक चंद्र सेकिया (जेसी-373448एफ), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार समबरेकर पी बी (जेसी-373450वाई), 27 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुनील दत्त (जेसी-373451एफ), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार तेज राम प्रेमी (जेसी-373452के), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार सोमन नायर आर (जेसी-373779एच), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार रविंद्र सिंह (जेसी-373780एक्स), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार अतिश बाबू (जेसी-373783एल), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-373784एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-373785डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार कमल कांत महाकुड (जेसी-373786वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार के अशोक चिनकुबा (जेसी-373787एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार श्री कुमार बी (जेसी-373788एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मान सिंह बघेल (जेसी-373789एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार इंद्रामनी साहू (जेसी-373790एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जेसी-373791के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-373792एम), 01 मई 2009

सबस्टेंटिव सूबेदार (एफ एण्ड एस) के रैंक में

नायब सूबेदार सतीशन एन (जेसी-373106एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार के सी खांडा (जेसी-373108वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार रूप सिंह (जेसी-373113के), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार एस मोहम्मद फारूख जेड (जेसी-373114एम), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार एम वाई श्रीनिवास राओ (जेसी-3736115पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-373116एक्स), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार अनिल कुमार पांडे (जेसी-373129पी), 07 मार्च 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार वेनुगोपालन एम पी (जेसी-373130के), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार सरस्वती प्रसाद (जेसी-373131एम), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार यशवंत राओ एम (जेसी-373132पी), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार एम विस्वेस्वर रेड्डी (जेसी-373133एक्स), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार सिंह (जेसी-373134ए), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार एन पी राओ (जेसी-373136एल), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार पी के गिरी (जेसी-373137एन), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार टी फनीबाबू (जेसी-373138डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-373139वाई), 15 अप्रैल 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बिस्वजीत नंदी (जेसी-373140एन), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-373141डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजेंद्र कुमार (जेसी-373142वाई), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार कनिकई राजा ए (जेसी-373383वाई), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार बूपालन पी (जेसी-373384एफ), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार ससि मोहनन ए वी (जेसी-373385के), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार सोबरन लाल शर्मा (जेसी-373386एम), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार सुब्रता भौमिक (जेसी-373387पी), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार देवराज वर्मा (जेसी-373388एक्स), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार हरचरन सिंह (जेसी-373389ए), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार स्यामल कुमार दास (जेसी-373390पी), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार हर्देरा सिंह (जेसी-373391एक्स), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार महेंद्र सिंह (जेसी-373392ए), 16 जुलाई 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ठाकुर दत्त (जेसी-373393एच), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार नरहरी सामल (जेसी-373394एल), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार आर राजेंद्रन (जेसी-373395एन), 01 जून 2008

नायब सूबेदार लगन सिंह राना (जेसी-373396डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार एस नारायना मूर्ती (जेसी-373397वाई), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार पटेली सदाशिव बी (जेसी-373398एफ), 01 जुलाई

2008

नायब सूबेदार सी एम नायर के (जेसी-373399के), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार थाम्बन पी वी (जेसी-373400एन), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार स्वरन दीपक (जेसी-373401डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार रवी चंद्रन आर (जेसी-373402वाई), 17 जुलाई 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अतुल रजिंले (जेसी-373120ए), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार इंद्र सिंह चौहान (जेसी-373403एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार अर्विंद कुमार सिंह (जेसी-373405एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार संजय कुमार सिंह (जेसी-373406पी), 17 सितम्बर 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अपुर्बा कुमार दास (जेसी-373407एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मंगल सैन (जेसी-373408ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मिशाल नागेश बी (जेसी-373409एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सुंदरन ई (जेसी-373410एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार एन आर हरमुख (जेसी-373411ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सुनील नर्वानी (जेसी-373412एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार नंदन सिंह जीना (जेसी-373413एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रामा स्वामी आर (जेसी-373414एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-373415डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार अवाटे पी डी (जेसी-373416वाई), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार बाट्य क्रूशन बेहरा (जेसी-373417एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार महाबीर प्रसाद जोशी (जेसी-373419एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार निराकार बारिक (जेसी-373420एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सुनील एम (जेसी-373421के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार नेक राम राठौर (जेसी-373422एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार उमेश चंद्र (जेसी-373424एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रंजीत कुमार (जेसी-373425ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जिंका सेशाद्री (जेसी-373426एच), 10 फरवरी 2009 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)	नायब सूबेदार दिनेश प्रताप (जेसी-373834एन), 01 सितम्बर 2008
नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-373427एल), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार पी मुर्गन (जेसी-373835डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2008 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)
नायब सूबेदार एम पौल राज (जेसी-373808एम), 09 सितम्बर 2008 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)	नायब सूबेदार कैलाश चंद (जेसी-373836वाई), 01 सितम्बर 2008
नायब सूबेदार साजीव एम पी (जेसी-373809पी), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार सुधीर कुमार (जेसी-373837एफ), 03 अक्टूबर 2008 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)
नायब सूबेदार आवाचार गनेश के (जेसी-373811एम), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार मनमोहन मोहापात्रा (जेसी-373838के), 01 सितम्बर 2008
नायब सूबेदार एलंगुअन एन (जेसी-373812पी), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार पिजुस कांती दत्ता (जेसी-373839एम), 01 सितम्बर 2008
नायब सूबेदार बी के जयसवाल (जेसी-373813एक्स), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार अनिल कुमार के वी (जेसी-373840एफ), 01 सितम्बर 2008
नायब सूबेदार मुकेश कुमार शर्मा (जेसी-373814ए), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार जयभये मधुकर एन (जेसी-373842एम), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार वी शंमुगम (जेसी-373815एच), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार टिका राम (जेसी-373843पी), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार एन कुमार सारंगी (जेसी-373816एल), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार दुर्गेश यादवा (जेसी-373844एक्स), 17 अक्टूबर 2008 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)
नायब सूबेदार खुसी लाल राजपूत (जेसी-373817एन), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार शिव सिंह (जेसी-373845ए), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार सोनेश्वर देव (जेसी-373818डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार विरेंद्र सिंह (जेसी-373846एच), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-373819वाई), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार अविनाश चंद्र पंत (जेसी-373847एल), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार दरिया सिंह (जेसी-373820एन), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार सुंदर लाल शर्मा (जेसी-373848एन), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-373821डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार क्रिशन सिंह (जेसी-373850एल), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार असिम कुमार दास (जेसी-373822वाई), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-373851एन), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार बिपन चंद (जेसी-373823एफ), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार हरी दास के एस (जेसी-373852डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार विजयन पिल्लई एम जे (जेसी-373824के), 01 सितम्बर 2008	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)
नायब सूबेदार नजर सिंह (जेसी-373825एम), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार विरेंद्र कुमार (जेसी-373853वाई), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार मनमोड विनोद एम आर (जेसी-373826पी), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार पुरुशोष्मन पी (जेसी-373854एफ), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार दिनेश कुमार शर्मा (जेसी-373829एच), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जेसी-373855के), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-373830एक्स), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार राधा क्रिष्मन पी एस (जेसी-373858एक्स), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार कृष्ण कांत यादव (जेसी-373831ए), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार डी सी सिंह (जेसी-373859ए), 01 अक्टूबर 2008
नायब सूबेदार के सी नाहक (जेसी-373832एच), 01 सितम्बर 2008	
नायब सूबेदार एन जोहन केन्नाडी (जेसी-373833एल), 01 सितम्बर 2008	

नायब सूबेदार मोहम्मद अकरन राथर (जेसी-373860पी), 11 अक्टूबर 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अशोकन जे (जेसी-373863एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-373864एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अमित बनर्जी (जेसी-373865एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अनिल बोस एस एस (जेसी-373866डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार डी एस बिस्ट (जेसी-373867वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राघवेंद्र कुमार (जेसी-373868एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेंद्र कुमार सिंहा (जेसी-373871एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार डी दास महापात्रा (जेसी-373872के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार कलीराज वी (जेसी-373873एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-373875एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सम्भू ठाकुर (जेसी-373876ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार आर एस रावत (जेसी-373877एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राकेश चंद्र ध्यानी (जेसी-373878एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार वेद व्यास (जेसी-373880एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नरेंद्र पाल (जेसी-373881एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जेताराम बिश्नोई (जेसी-373882एन), 12 दिसम्बर 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हरीश सिंह (जेसी-373883डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार गोथल नाथुराम आर (जेसी-373884वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार रोशन सिंह (जेसी-373885एफ), 11 अक्टूबर 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार बिशोई (जेसी-373886के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार एन एस खेतवाल (जेसी-373887एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार टी नारायनन (जेसी-373888पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बीर सिंह धामी (जेसी-373889एक्स), 01 अक्टूबर 2008

5—434 GI/2009

नायब सूबेदार रामेश कुमार (जेसी-373890एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार मनोज कुमार सिंह (जेसी-373891पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हिर्दानंद तिवारी (जेसी-373892एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार करुणाकरन बी (जेसी-373893ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नगेशन ई (जेसी-373894एच), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार नितई पाडा सरकार (जेसी-373896एन), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार वेधैयन एस (जेसी-373897डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार विजीथ कुमार के के (जेसी-373898वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार पेडाडा वी रमना मूर्थी (जेसी-373899एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार संतोश कुमार पाठक (जेसी-373900एल), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार निहार कांती बाला (जेसी-373901एन), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार भगत राम (जेसी-373902डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-373903वाई), 11 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जगा राम (जेसी-373905के), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार मक्थर अहमद (जेसी-374129एफ), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार क्रिशन यादव (जेसी-374131वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार हरी कुमार जी (जेसी-374132एफ), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार अजीथ कुमार के एस (जेसी-374133के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार रमेश चंद्र पटेल (जेसी-374134एम), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार एम रामामूर्थी (जेसी-374135पी), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-374136एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार जोशी प्रवीन जे बी (जेसी-374137ए), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार अनिल कुमार सी पी (जेसी-374139एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बिनय कुमार (जेसी-374140ए), 16 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजीवन वी के (जेसी-374141एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार श्यामल भौमिक (जेसी-374142एल), 18 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हरीहरन एन पी (जेसी-374144डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार आर के यादवा (जेसी-374145वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राम निवास सिंह (जेसी-374146एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार आर सी लोहानी (जेसी-374148एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार पी के जगता सिंह (जेसी-374149पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार पी वी एस नारायना (जेसी-374150के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार प्रयाग दत्त (जेसी-374409पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार पवन कुमार अपाध्याय (जेसी-374411एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-374413एक्स), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार उत्तम कुमार हर (जेसी-374414ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जी चेल्लापांडी (जेसी-374415एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार धानेश्वर सतपथी (जेसी-374416एल), 01 मई 2009

नायब सूबेदार पटेल रजनीकांत आई एल (जेसी-373861एक्स), 07 जून 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बी टी सिन्हा महापात्रा (जेसी-374418डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार पवन कुमार (सं. 15381770पी अब जेसी-378640पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार एम आर सिंह (सं. 15382400एफ अब जेसी-378641एक्स), 01 जनवरी 2009

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 15383442ए अब जेसी-378642ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 15382873ए अब जेसी-378643एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार सुरेन्द्रन पिल्लई बी (सं. 15384292एफ अब जेसी-378644एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार राकेश चंद्र (सं. 15661112ए अब जेसी-378645एन), 06 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जया कुमार एन (सं. 15382275एच अब जेसी-378646डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार एस के एस यादव (सं. 15394259एक्स अब जेसी-378647वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार विनोद सी (सं. 15384861के अब जेसी-378648एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार श्रीवालसन जी (सं. 15377780एफ अब जेसी-378649के), 01 जनवरी 2009

हवलदार सी बैजु (सं. 15383070ए अब जेसी-378650वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार मोहन डनावाल (सं. 15382380वाई अब जेसी-378651एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार रोहित वर्मा (सं. 15398034एम अब जेसी-378652के), 01 जनवरी 2009

हवलदार सत्येन्द्र सिंह (सं. 15384039ए अब जेसी-378653एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार आर गनपती (सं. 15380039एच अब जेसी-378654पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार एस एस गुप्ता (सं. 15381879एक्स अब जेसी-378655एक्स), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जे विवेकानन्धन (सं. 15386758एक्स अब जेसी-378656ए), 14 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रकाश पाण्डे (सं. 15394820एन अब जेसी-378657एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार भोला पंडित (सं. 15375568एल अब जेसी-378658एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार बिपलब आचार्या (सं. 15386768एफ अब जेसी-378659एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार एन एस खेतवाल (सं. 15375336एम अब जेसी-378660एच), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार ए के भुयन (सं. 15382813एल अब जेसी-378821ए), 18 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बी एस काशी राम (सं. 15386490एल अब जेसी-378822एच), 01 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार समित पाल (सं. 15377421एन अब जेसी-377394एच), 02 जुलाई 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 15370450ए अब जेसी-377461एच), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार निजय कुमार सिंह (सं. 15392582एन अब जेसी-377463एन), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 15385000ए अब जेसी-377464डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार ए सैलू (सं. 15370879पी अब जेसी-377465वाई), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 15372144के अब जेसी-377467के), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पवार डी ए (सं. 15384788डब्ल्यू अब जेसी-377472पी), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 15383459एन अब जेसी-377473एक्स), 01 जुलाई 2007

हवलदार पी एस सदाशिव (सं. 15390101एक्स अब जेसी-377475एच), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 15397679एच अब जेसी-377476एल), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार आर संधिल कुमार एन (सं. 15375301डब्ल्यू अब जेसी-377487एक्स), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 15376418एफ अब जेसी-377782ए), 01 जनवरी 2008

हवलदार सोमनाथ सामंता (सं. 15370796के अब जेसी-377783एच), 01 जनवरी 2008

हवलदार ए ईसाकियप्पन (सं. 15371436ए अब जेसी-377789के), 10 मार्च 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रकाश पाण्डे (सं. 15383127के अब जेसी-378295एम), 22 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार पी एस राव (सं. 15377766पी अब जेसी-378416एच), 01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एच एन चौहान (सं. 15377577एल अब जेसी-378430पी), 01 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15397156के अब जेसी-378431एक्स), 01 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एस कुण्डु (सं. 15385576एक्स अब जेसी-378433एच), 01 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जयदेव घोष (सं. 15378048एल अब जेसी-378662एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार देवेन्द्र कुमार (सं. 15389462के अब जेसी-378663डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार सरोज कुमार गुप्ता (सं. 15371936एक्स अब जेसी-378664वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 15387510ए अब जेसी-378665एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 15394671एल अब जेसी-378666के), 01 जनवरी 2009

हवलदार विनोद कुमार (सं. 15386540एल अब जेसी-378667एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार उमेश चन्द (सं. 15372007एल अब जेसी-378668पी), 08 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार आर सेल्वाराज (सं. 15390485एक्स अब जेसी-378669एक्स), 11 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मृत्युंजय शर्मा (सं. 15375971एक्स अब जेसी-378670एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार ए के सिंह (सं. 15397486एच अब जेसी-378672एक्स), 01 जनवरी 2009

हवलदार अनूप कुमार (सं. 15376178पी अब जेसी-378673ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार पी के कौशिक (सं. 15376330एक्स अब जेसी-378674एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार एम के त्रिपाठी (सं. 15377003वाई अब जेसी-378675एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार अजय पाल सिंह (सं. 15396833के अब जेसी-378676एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार कृष्ण बहादुर राय (सं. 15357057एफ अब जेसी-378677डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार राजपूत सजन सिंह आर (सं. 15393065एच अब जेसी-378678वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार सुनील कुमार वी सी (सं. 15374727एल अब जेसी-378679एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार पुष्पेदु नन्दा (सं. 15395997एन अब जेसी-378680डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार राम किशोर (सं. 15394257एम अब जेसी-378681वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार एम डी अजमुद्दीन (सं. 15371334के अब जेसी-378682एफ), 29 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जे एस कुशवाह (सं. 15392616डब्ल्यू अब जेसी-378683के), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अमरनाथ त्रिपाठी (सं. 15374499एन अब जेसी-378684एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार महादेवप्पा अदाकी (सं. 15397477एफ अब जेसी-378685पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह (सं. 15398290एफ अब जेसी-378686एक्स), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 15399618के अब जेसी-378687ए), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15379051एक्स अब जेसी-378688एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार विवेक पोन्नाना (सं. 15661053वाई अब जेसी-378689एल), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 15662954एक्स अब जेसी-378690ए), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एन सरवानन (सं. 15372029के अब जेसी-378691एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार सुधीर कुमार (सं. 15398459एल अब जेसी-378692एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार गुरभेज सिंह (सं. 15396839एल अब जेसी-378693एन), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज पी वी (सं. 15373488पी अब जेसी-378694डब्ल्यू), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार शुशांत कुमार रानो (सं. 15378062एक्स अब जेसी-378695वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार बी राजाना (सं. 15662879वाई अब जेसी-378696एफ),
06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अजीत कुमार सिंह (सं. 15395899एन अब
जेसी-378697के), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील कुमार इस्तवाल (सं. 15397757पी अब
जेसी-378698एम), 06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बी सी दास (सं. 15395807डब्ल्यू अब जेसी-378699पी),
06 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बोला राम जोशी (सं. 15362406एफ अब
जेसी-378823एल), 06 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार वी के सिंह (सं. 15379259ए अब जेसी-378824एन),
01 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार कौशल कुमार सिंह (सं. 14246818एन अब
जेसी-376848वाई), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार गिरिधारी सिंह (सं. 15350373पी अब जेसी-376851वाई),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार सुजीत कुमार देबनाथ (सं. 14245586एन अब जेसी-
376852एफ), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार जे पी गुप्ता (सं. 14257707डब्ल्यू अब जेसी-376854एम),
10 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बी सी भंडारी (सं. 14256907ए अब जेसी-376855पी),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 14262576ए अब जेसी-376857ए),
11 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

6—434 GI/2009

हवलदार राम आशीष राम (सं. 14260434के अब जेसी-
376859एल), 17 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 14258390वाई अब जेसी-
376861एच), 12 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रविन्द्र पाल सिंह (सं. 14262619के अब जेसी-
376863एन), 09 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार घोष (सं. 14254454एफ अब जेसी-
376864डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार मन मोहन तिक्कू (सं. 14249033के अब
जेसी-376866एफ), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार उत्तम कुमार मलिक (सं. 14261077वाई अब जेसी-
376881डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार तुक्केश्वर गोगोई (सं. 14250768एल अब जेसी-376882वाई),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 14250330पी अब जेसी-376883एफ),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार राम सजीवन मिश्रा (सं. 14248191एक्स अब जेसी-
376884के), 11 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रंजन कुमार (सं. 14267866एफ अब जेसी-377016के),
01 जनवरी 2007

हवलदार धन सिंह (सं. 14250433एन अब जेसी-377255वाई),
01 अप्रैल 2007

हवलदार कीर्ति सिंह (सं. 14253841के अब जेसी-377342एम),
01 जून 2007

हवलदार एस के त्रिपाठी (सं. 14250753एच अब जेसी-377354एफ),
01 जून 2007

हवलदार शंभु प्रसाद (सं. 14256800एल अब जेसी-377402डब्ल्यू),
01 जुलाई 2007

हवलदार शिवा शंकर सी (सं. 14253556एल अब
जेसी-377411एक्स), 02 जुलाई 2007

हवलदार राम चन्द्र सिंह (सं. 14248996पी अब जेसी-377419के),
02 जुलाई 2007

हवलदार लाल सिंह अधिकारी (सं. 14254092एल अब जेसी-
377420वाई), 02 जुलाई 2007

हवलदार राम लाल पंडित (सं. 14250873एफ अब जेसी-
377425एक्स), 02 जुलाई 2007

हवलदार डी वी अम्बा दास (सं. 14262757एल अब जेसी-
377427एच), 02 जुलाई 2007

हवलदार बाबू लाल (सं. 14250386एफ अब जेसी-377429एन),
02 जुलाई 2007

हवलदार शिव शंकर सिंह (सं. 14243486के अब जेसी-
377496वाई), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 14256531के अब जेसी-377498के),
01 अगस्त 2007

हवलदार अरविन्द कुमार सिंह (सं. 14258043ए अब जेसी-
377499एम), 01 अगस्त 2007

हवलदार आर शिवाजी (सं. 14258513ए अब जेसी-377501वाई),
01 अगस्त 2007

हवलदार राजेश कुमार सिंह (सं. 14267425एल अब जेसी-
377502एफ), 01 अगस्त 2007

हवलदार बी एल सिंह (सं. 14264479एफ अब जेसी-377503के),
01 अगस्त 2007

हवलदार शिओ लाल सिंह (सं. 14265931एक्स अब जेसी-
377504एम), 01 अगस्त 2007

हवलदार सुनील (सं. 14264630एफ अब जेसी-377505पी),
01 अगस्त 2007

हवलदार रामजी लाल जाट (सं. 14264143एफ अब जेसी-
377506एक्स), 01 अगस्त 2007

हवलदार बजरंग लाल (सं. 14264042एन अब जेसी-377507ए),
01 अगस्त 2007

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14265581डब्ल्यू अब जेसी-
377508एच), 01 अगस्त 2007

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 14265646वाई अब जेसी-377509एल),
01 अगस्त 2007

हवलदार आर के त्रिपाठी (सं. 14251998एल अब जेसी-377510ए),
01 अगस्त 2007

हवलदार राकेश सिंह (सं. 14251954एन अब जेसी-377511एच),
01 अगस्त 2007

हवलदार श्यामवीर (सं. 14252329वाई अब जेसी-377512एल),
01 अगस्त 2007

हवलदार गनेश चन्द्रा भट्ट (सं. 14267927एन अब जेसी-
377513एन), 01 अगस्त 2007

हवलदार यश पाल सिंह (सं. 14252527एन अब जेसी-
377514डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार शिशु पाल (सं. 14247966एल अब जेसी-377516एफ),
01 अगस्त 2007

हवलदार ब्रजाधन सिंघा (सं. 14249990एच अब जेसी-
377599एक्स), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार मदन प्रसाद (सं. 14247065वाई अब जेसी-377651पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार पी मूर्ति (सं. 14262232एफ अब जेसी-377654एच),
01 नवम्बर 2007

हवलदार महावीर सिंह (सं. 14251800एफ अब जेसी-377673एन),
01 नवम्बर 2007

हवलदार पी मुरगन (सं. 14264167एल अब जेसी-377742वाई),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार राजू बी (सं. 14267050एक्स अब जेसी-377747एक्स),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार अजयन आर (सं. 14269786एच अब जेसी-377751ए),
10 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार शीशपाल सिंह (सं. 14251141एक्स अब
जेसी-377754एन), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार एम एन पट्टनायक (सं. 14253375ए अब
जेसी-377760एफ), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार वेलोवोलु आनंदाईया (सं. 14251608एक्स अब
जेसी-377764एक्स), 06 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 14251713एन अब जेसी-377766एच),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार नरेश (सं. 14255974वाई अब जेसी-377838एफ),
01 जनवरी 2008

हवलदार उन्नीकृष्णन के (सं. 14269305एल अब जेसी-
377848एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3382812वाई अब जेसी-377854वाई),
01 जनवरी 2008

हवलदार काम्बले अरूण राम राव (सं. 14255402एक्स अब जेसी-377856के), 12 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कनाई लाल दास (सं. 14255807एच अब जेसी-377858पी), 01 जनवरी 2008

हवलदार ओम प्रकाश शर्मा (सं. 14257087एल अब जेसी-377862एक्स), 16 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14251726एल अब जेसी-377864एच), 01 जनवरी 2008

हवलदार भीम सिंह (सं. 14252377वाई अब जेसी-377865एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14257793एम अब जेसी-377873के), 01 जनवरी 2008

हवलदार कुलवीर सिंह (सं. 3383377एफ अब जेसी-377879एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार एम पी सिंह (सं. 14258413पी अब जेसी-377880ए), 01 जनवरी 2008

हवलदार मनीकान्तन पिल्लई जे (सं. 14265806एन अब जेसी-377882एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार सिधेश्वर एन सिंह (सं. 14268084एक्स अब जेसी-377886एफ), 01 जनवरी 2008

हवलदार हलाचल प्रसाद (सं. 14246568एक्स अब जेसी-377836डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शिव प्रताप सिंह (सं. 14251760एल अब जेसी-377845एक्स), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सैय्यद एमडी अली नवाज (सं. 14253178एक्स अब जेसी-377847एच), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रघुनाथन एम (सं. 14268772डब्ल्यू अब जेसी-377866एन), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 14255653एफ अब जेसी-377872एफ), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्र नाथ यादव (सं. 14257267एन अब जेसी-377874एम), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जगरूप सिंह (सं. 14257406एम अब जेसी-377878एच), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार उत्पल कोनेर (सं. 14267345एन अब जेसी-377889पी), 01 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जगन किशोर शर्मा (सं. 14267528के अब जेसी-377937के), 01 फरवरी 2008

हवलदार यू एचएच शंकरा रेड्डी (सं. 14267946वाई अब जेसी-377938एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 14268833एच अब जेसी-377939पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार रविन्द्रन नायर जी (सं. 14265036एम अब जेसी-377940के), 01 फरवरी 2008

हवलदार बी बी पान्डे (सं. 14267845एल अब जेसी-377941एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार डी जुल्फीकार अली भुट्टो (सं. 14251407वाई अब जेसी-377942पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार रनजोध सिंह (सं. 14266113एच अब जेसी-377943एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार सुरेश सी एस (सं. 14248666डब्ल्यू अब जेसी-377944ए), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम डी अमीर अली (सं. 14259376वाई अब जेसी-377945एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार सुरजीत राम (सं. 14262687एक्स अब जेसी-377946एल), 01 फरवरी 2008

हवलदार राम चन्द्र (सं. 14248615एच अब जेसी-377947एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार के एच रामेन्द्रा सिंघा (सं. 14252179एन अब जेसी-377948डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

हवलदार गणेश प्रसाद (सं. 14264648एक्स अब जेसी-377949वाई),
01 फरवरी 2008

हवलदार गिरीश कुमार जे (सं. 14268060एन अब जेसी-377950एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार राजेश कुमार शर्मा (सं. 14268134एक्स अब जेसी-377951डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

हवलदार उमेश शर्मा (सं. 14268433डब्ल्यू अब जेसी-377952वाई),
01 फरवरी 2008

हवलदार रोहताश सिंह (सं. 13886187ए अब जेसी-377953एफ),
05 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 14264022ए अब जेसी-377954के),
01 फरवरी 2008

हवलदार विमल कुमार सिंह (सं. 14261646एन अब जेसी-377955एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14263787पी अब जेसी-377956पी),
01 फरवरी 2008

हवलदार मुकेश कुमार शर्मा (सं. 14267877एन अब जेसी-377957एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार नवीन कुमार वर्मा (सं. 14258382ए अब जेसी-377958ए),
01 फरवरी 2008

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 14264821डब्ल्यू अब जेसी-377959एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 14252909एन अब जेसी-377960एक्स),
01 फरवरी 2008

हवलदार महावीर सिंह (सं. 14268035के अब जेसी-377962एच),
01 फरवरी 2008

हवलदार राम दत्त (सं. 14248183वाई अब जेसी-377963एल),
01 फरवरी 2008

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 14250482डब्ल्यू अब जेसी-377964एन),
01 फरवरी 2008

हवलदार मोती लाल शाह (सं. 14256667एन अब जेसी-377965डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

हवलदार सुनील जोसेफ (सं. 14260812एक्स अब जेसी-377966वाई), 01 फरवरी 2008

हवलदार जी के पिल्लई सी (सं. 14254585एम अब जेसी-377967एफ), 01 फरवरी 2008

हवलदार एच उमानन्दा मितई (सं. 14250562एन अब जेसी-377968के), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम गोविन्द राव कदम (सं. 14251891डब्ल्यू अब जेसी-377969एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार टी बालाजी (सं. 14252205के अब जेसी-377961ए),
01 मार्च 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 14254284एच अब जेसी-378003वाई),
01 मार्च 2008

हवलदार शेर सिंह (सं. 14254513एच अब जेसी-378004एफ),
01 मार्च 2008

हवलदार विरेश्वर मिश्रा (सं. 14254518एफ अब जेसी-378005के),
01 मार्च 2008

हवलदार सुशेन्द्रा गोहेन (सं. 14254278पी अब जेसी-378006एम),
01 मार्च 2008

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 14254534वाई अब जेसी-378007पी),
10 मार्च 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सुन्दर (सं. 14252848एफ अब जेसी-378008एक्स),
01 मार्च 2008

हवलदार रामधर कैरी (सं. 14254682के अब जेसी-378009ए),
01 मार्च 2008

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14254855डब्ल्यू अब जेसी-378010पी),
01 मार्च 2008

हवलदार पी डी शंकर (सं. 14254903एल अब जेसी-378011एक्स),
01 मार्च 2008

हवलदार सत्यवीर (सं. 14254995एच अब जेसी-378012ए),
01 मार्च 2008

हवलदार विपन प्रकाश (सं. 14254998डब्ल्यू अब जेसी-378013एच), 01 मार्च 2008

हवलदार जोगिन्दर पाल (सं. 14255034एन अब जेसी-378014एल),
01 मार्च 2008

हवलदार रूपचंद (सं. 14255286ए अब जेसी-378015एन),
01 मार्च 2008

हवलदार रमेश चन्द (सं. 14255297एम अब जेसी-378016डब्ल्यू),
01 मार्च 2008

हवलदार बब्बन यादव (सं. 14257313एक्स अब जेसी-378017वाई),
01 मार्च 2008

हवलदार युद्धवीर सिंह (सं. 14255372एल अब जेसी-378018एफ),
01 मार्च 2008

- हवलदार ब्रज लाल (सं. 14255216एफ अब जेसी-378019के),
01 मार्च 2008
- हवलदार जसवंत सिंह (सं. 14255462एम अब जेसी-378020वाई),
01 मार्च 2008
- हवलदार उन्नीकृष्णा कुरूप पी (सं. 14255519डब्ल्यू अब जेसी-378021एफ), 01 मार्च 2008
- हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 14255530पी अब जेसी-378022के), 16 मार्च 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार बिरेन्द्र पंडित (सं. 14255561पी अब जेसी-378023एम),
01 मार्च 2008
- हवलदार अश्वनी कुमार पान्डे (सं. 14255571वाई अब जेसी-378024पी), 11 मार्च 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार जे के पांडे (सं. 14255845वाई अब जेसी-378025एक्स),
01 मार्च 2008
- हवलदार शिवाजी (सं. 14251310एन अब जेसी-378026ए),
01 मार्च 2008
- हवलदार जयमोहाना कुरूप एस (सं. 14262720के अब जेसी-378027एच), 01 मार्च 2008
- हवलदार अम्बिका यादव (सं. 14253536एक्स अब जेसी-378028एल), 01 मार्च 2008
- हवलदार बाबू पी एम (सं. 14265220एक्स अब जेसी-378147एफ),
01 अप्रैल 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)
- हवलदार जितेंद्र बहादुर सिंह (सं. 15689729एम अब जेसी-378031एल), 01 अप्रैल 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)
- हवलदार करनल सिंह (सं. 14267012एफ अब जेसी-378089एच),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार के वी सिवा हनुमईया (सं. 14251442एफ अब जेसी-378090एक्स), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार मनोज कुमार (सं. 14255982एक्स अब जेसी-378091ए),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार साहिब सिंह (सं. 14256649एल अब जेसी-378092एच),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 14263739पी अब जेसी-378093एल),
02 अप्रैल 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार दिवाकर पंत (सं. 14265235ए अब जेसी-378094एन),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार शिव राज सिंह (सं. 14248121वाई अब जेसी-378095डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार श्यामा सिंह यादव (सं. 14253321वाई अब जेसी-378096वाई), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार श्री कुमार आर (सं. 14268678एम अब जेसी-378097एफ),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार पी अरूल दास (सं. 14264768डब्ल्यू अब जेसी-378098के), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार मोहन कुमार सिंह (सं. 14252994एम अब जेसी-378099एम), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार विध्यानंद सिंह (सं. 14255317पी अब जेसी-378100डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार जय प्रकाश (सं. 14264832एच अब जेसी-378101वाई),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार गुडला रमेश कुमार (सं. 14267493वाई अब जेसी-378102एफ), 24 अप्रैल 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार विरेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 14248067डब्ल्यू अब जेसी-378103के), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 14260806के अब जेसी-378104एम), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार राजा शेखरन बी (सं. 14267043एफ अब जेसी-378105पी), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार गजेन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 14267730एक्स अब जेसी-378106एक्स), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार बी पी राजामणी नायडू (सं. 14267490एल अब जेसी-378107ए), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार अमारा राम (सं. 14267567एच अब जेसी-378108एच),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार रास बिहारी ओझा (सं. 14268364एल अब जेसी-378109एल), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार वी पी सुरेश माताबादल (सं. 14250320एल अब जेसी-378110ए), 01 अप्रैल 2008

हवलदार बिनोद प्रसाद कुशावाहा (सं. 14251728डब्ल्यू अब जेसी-378111एच), 01 अप्रैल 2008

हवलदार जगत सिंह (सं. 14258440वाई अब जेसी-378112एल), 01 अप्रैल 2008

हवलदार ए हरीदास (सं. 14251414पी अब जेसी-378113एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार डी के पाठक (सं. 14251408एफ अब जेसी-378114डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार अंजनी कुमार (सं. 14266450एक्स अब जेसी-378115वाई), 01 अप्रैल 2008

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 14262578एल अब जेसी-378116एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार श्याम सुन्दर प्रसाद (सं. 14253049एक्स अब जेसी-378117के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार वीर सिंह (सं. 14254905डब्ल्यू अब जेसी-378118एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 14258093एल अब जेसी-378119पी), 01 अप्रैल 2008

हवलदार भारत्री (सं. 14252845एन अब जेसी-378120के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार ए पी आजाद (सं. 14251733एफ अब जेसी-378121एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार केशव सिंह (सं. 14255720एफ अब जेसी-378122पी), 01 अप्रैल 2008

हवलदार बरमेश्वर चौहान (सं. 14264733ए अब जेसी-378123एक्स), 01 अप्रैल 2008

हवलदार जे यशवंत चंद्र (सं. 14269024पी अब जेसी-378124ए), 01 अप्रैल 2008

हवलदार जी एच एन लोन (सं. 14250818एल अब जेसी-378125एच), 01 अप्रैल 2008

हवलदार पुष्पराजन टी (सं. 14266946एम अब जेसी-378126एल), 01 अप्रैल 2008

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14254373एफ अब जेसी-378127एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3383324एच अब जेसी-378129वाई), 01 अप्रैल 2008

हवलदार मंजीत सिंह (सं. 14265166पी अब जेसी-378130एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार रंजीत कुमार बरूआह (सं. 14267339ए अब जेसी-378131डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार श्री इन्द्रपाल मिश्रा (सं. 14267872पी अब जेसी-378132वाई), 01 अप्रैल 2008

हवलदार सुदर्शन बाबू के जी (सं. 14250296ए अब जेसी-378133एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार गौतम घोष (सं. 14267159एक्स अब जेसी-378134के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार एम डी मानजेर आलम (सं. 14268430एच अब जेसी-378135एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार प्रभात सिंह (सं. 14254098एम अब जेसी-378136पी), 01 अप्रैल 2008

हवलदार राम प्रसाद राय (सं. 15352565एम अब जेसी-378137एक्स), 01 अप्रैल 2008

हवलदार मोहना राजन आर (सं. 14261546डब्ल्यू अब जेसी-378138ए), 19 अप्रैल 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रामा शंकर (सं. 14249660एफ अब जेसी-378139एच), 01 अप्रैल 2008

हवलदार तारकेश्वर कुमार (सं. 14249675के अब जेसी-378140एक्स), 01 अप्रैल 2008

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14246926एक्स अब जेसी-378141ए), 07 अप्रैल 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 14252049एल अब जेसी-378142एच), 01 अप्रैल 2008

हवलदार जे पी त्रिपाठी (सं. 14253983एफ अब जेसी-378143एल), 01 अप्रैल 2008

हवलदार बिंदेश्वरी प्रसाद (सं. 14248019डब्ल्यू अब जेसी-378144एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार उमाशंकर सिंह (सं. 14253864एल अब जेसी-378145डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार जगदीश पूनिया (सं. 14250551एफ अब जेसी-378146वाई), 01 अप्रैल 2008

हवलदार राहुल सिंह (सं. 15678011एच अब जेसी-378199एक्स), 08 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार सारथ चंद्रन पी एस (सं. 15687365एम अब जेसी-378200एफ), 12 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्तूबर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार के डी आर गंगाराम (सं. 14254224एन अब जेसी-378128डब्ल्यू), 02 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पी आर एस यादव (सं. 14254713वाई अब जेसी-378162डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार अशिष्ट कुमार मलिक (सं. 14248061पी अब जेसी-378163वाई), 01 मई 2008

हवलदार जय करन (सं. 14254868एन अब जेसी-378164एफ), 01 मई 2008

हवलदार जे सिंह यादव (सं. 14265903एक्स अब जेसी-378165के), 01 मई 2008

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 14254515एन अब जेसी-378166एम), 01 मई 2008

हवलदार ए के पाण्डे (सं. 14254647एफ अब जेसी-378167पी), 01 मई 2008

हवलदार राम धन (सं. 14250509एच अब जेसी-378168एक्स), 01 मई 2008

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 14250782एक्स अब जेसी-378169ए), 01 मई 2008

हवलदार गिरिधर सिंह (सं. 14251171पी अब जेसी-378170पी), 01 मई 2008

हवलदार गणेश मिश्रा (सं. 14255222पी अब जेसी-378171एक्स), 01 मई 2008

हवलदार हरेंद्रा कुमार सिंह (सं. 14250674एन अब जेसी-378172ए), 01 मई 2008

हवलदार दिपेन दास (सं. 14255567डब्ल्यू अब जेसी-378173एच), 01 मई 2008

हवलदार आर पी चौधरी (सं. 14252482पी अब जेसी-378174एल), 01 मई 2008

हवलदार भूप सिंह (सं. 14255229वाई अब जेसी-378175एन), 01 मई 2008

हवलदार रामबीर सिंह (सं. 14257497एफ अब जेसी-378177वाई), 02 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस एस सिंह यादव (सं. 14258829एफ अब जेसी-378178एफ), 01 मई 2008

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14259921एक्स अब जेसी-378179के), 01 मई 2008

हवलदार जितुल सैकिया (सं. 14259927वाई अब जेसी-378180वाई), 01 मई 2008

हवलदार राज पाल (सं. 14260134एच अब जेसी-378181एफ), 01 मई 2008

हवलदार एन एस कनवाल (सं. 14256546एम अब जेसी-378182के), 03 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार वी एस यादव (सं. 14260982ए अब जेसी-378183एम), 01 मई 2008

हवलदार एस पी यादव (सं. 14259801वाई अब जेसी-378184एफ), 01 मई 2008

हवलदार चंद्र शेखर (सं. 14260572एल अब जेसी-378185एक्स), 01 मई 2008

हवलदार ए के चक्रवर्ती (सं. 14262266पी अब जेसी-378186ए), 01 मई 2008

हवलदार ध्यान चन्द (सं. 14263102एल अब जेसी-378187एच), 01 मई 2008

हवलदार जवाहिर (सं. 14263049एल अब जेसी-378188एल), 01 मई 2008

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 14263505एल अब जेसी-378189एन), 01 मई 2008

हवलदार गवास कैलास गानु (सं. 14263525एक्स अब जेसी-378190एच), 01 मई 2008

हवलदार बी एस दत्तात्रेय (सं. 14263898एम अब जेसी-378191एल), 01 मई 2008

हवलदार राज कुमार पटलेरा (सं. 14261246पी अब जेसी-378192एन), 01 मई 2008

हवलदार ज्योति स्वरूप (सं. 14261150एम अब जेसी-378193डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार हरी चन्द (सं. 14256119डब्ल्यू अब जेसी-378194वाई), 01 मई 2008

हवलदार बलविंदर सिंह (सं. 14257999के अब जेसी-378195एफ), 01 मई 2008

हवलदार कन्हैया लाल कुम्हार (सं. 14264735एल अब जेसी-378196के), 01 मई 2008

हवलदार भूलन सिंह शर्मा (सं. 14264862ए अब जेसी-378197एम), 19 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)	हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14264361एक्स अब जेसी-378265पी), 11 जून 2008
हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 14247925एफ अब जेसी-378198पी), 01 मई 2008	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जाएगी)
हवलदार उदय कुमार ए पी (सं. 14257788एफ अब जेसी-378176डब्ल्यू), 11 जून 2008	हवलदार राजिंदर पाल सिंह (सं. 14256175पी अब जेसी-378266एक्स), 02 जून 2008
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)	हवलदार शिव राम (सं. 14256181एच अब जेसी-378267ए), 02 जून 2008
हवलदार जवाहर लाल तिवारी (सं. 14250201पी अब जेसी-378253ए), 01 जून 2008	हवलदार डी के साहू (सं. 14266942डब्ल्यू अब जेसी-378268एच), 02 जून 2008
हवलदार वी एस मिश्रा (सं. 1462396एक्स अब जेसी-378254एच), 01 जून 2008	हवलदार आर विजया राज (सं. 14267368पी अब जेसी-378269एल), 12 जून 2008
हवलदार रमा कांत राजपूत (सं. 14264965पी अब जेसी-378255एल), 01 जून 2008	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जाएगी)
हवलदार रमा कांत शर्मा (सं. 14265377एक्स अब जेसी-378256एन), 06 जून 2008	हवलदार सदा राम (सं. 14264848एन अब जेसी-378270ए), 02 जून 2008
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)	हवलदार राम पुजन दुबे (सं. 13889731पी अब जेसी-378271एच), 02 जून 2008
हवलदार देव शरण (सं. 14264629एम अब जेसी-378257डब्ल्यू), 01 जून 2008	हवलदार श्रुति कांत (सं. 14250545एन अब जेसी-378272एल), 02 जून 2008
हवलदार आर एस रून्गे (सं. 14251842एन अब जेसी-378258वाई), 25 जून 2008	हवलदार राजबीर सिंह (सं. 14256591वाई अब जेसी-378273एन), 02 जून 2008
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जाएगी)	हवलदार जी सौन्दर राज (सं. 14258511पी अब जेसी-378274डब्ल्यू), 02 जून 2008
हवलदार एस सिंह सिसोदिया (सं. 14269553एफ अब जेसी-378259एफ), 08 जून 2008	हवलदार शिव चरण (सं. 14263886एक्स अब जेसी-378275वाई), 02 जून 2008
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जाएगी)	हवलदार एस के मोहन सिंघा (सं. 14262422एन अब जेसी-378276एफ), 02 जून 2008
हवलदार सतबीर सिंह (सं. 14254808वाई अब जेसी-378260डब्ल्यू), 02 जून 2008	हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 14263109पी अब जेसी-378277के), 02 जून 2008
हवलदार गोविंद राजन एस (सं. 14267492डब्ल्यू अब जेसी-378261वाई), 22 जून 2008	हवलदार ग्यानेंद्र कुमार (सं. 14246927ए अब जेसी-378278एम), 02 जून 2008
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जाएगी)	हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14251027ए अब जेसी-378279पी), 02 जून 2008
हवलदार के ए कामांचे (सं. 14250556ए अब जेसी-378262एफ), 02 जून 2008	हवलदार प्रकाश चन्द्र (सं. 14267938ए अब जेसी-378280के), 02 जून 2008
हवलदार आर एस बिष्ट (सं. 14249593एफ अब जेसी-378263के), 02 जून 2008	हवलदार नरेंद्र एस वाल्डिया (सं. 14265679के अब जेसी-378281एम), 02 जून 2008
हवलदार बी एस बिष्ट (सं. 14257289एन अब जेसी-378264एम), 02 जून 2008	हवलदार कमलेश कुमार रे (सं. 14251236एक्स अब जेसी-378282पी), 02 जून 2008

हवलदार चंदर सिंह डुडी (सं. 14259412वाई अब जेसी-378283एक्स),
02 जून 2008

हवलदार हरी नंदन प्रसाद (सं. 14259397पी अब जेसी-378284ए),
02 जून 2008

हवलदार शिव कुमार शर्मा (सं. 14254441के अब जेसी-378285एच),
12 जून 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नेहार उद्दीन अहमद (सं. 14266242एच अब जेसी-
378286एल), 02 जून 2008

हवलदार राम प्रसाद (सं. 14263509एफ अब जेसी-378287एन),
02 जून 2008

हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 14263696एल अब जेसी-378288डब्ल्यू);
02 जून 2008

हवलदार संतर पाल (सं. 14264879एन अब जेसी-378289वाई),
02 जून 2008

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 14248986एल अब जेसी-378369डब्ल्यू),
01 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार विजय बहादुर यादव (सं. 14262453एन अब जेसी-
378370एल), 01 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार निजारुद्दीन एम (सं. 14248508एफ अब जेसी-378325वाई),
01 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एम पिल्लई टी (सं. 14265810डब्ल्यू अब जेसी-
378326एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार राम स्वरूप राठौर (सं. 14266309डब्ल्यू अब जेसी-
378327के), 01 जुलाई 2008

हवलदार मृत्युंजय राय (सं. 13886564एल अब जेसी-378328एम),
01 जुलाई 2008

हवलदार रविन्द्र नाथ दूबे (सं. 14251719पी अब जेसी-378329पी),
01 जुलाई 2008

हवलदार कमलेश कुमार सिंह (सं. 14258993पी अब जेसी-
378331एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार के के देकाराजा (सं. 14247951एच अब जेसी-378332एल),
01 जुलाई 2008

8—434 GI/2009

हवलदार केशव चौहान (सं. 14260029एम अब जेसी-378333एक्स),
11 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जय चंद (सं. 14266665डब्ल्यू अब जेसी-378334ए),
01 जुलाई 2008

हवलदार संतोष घोष (सं. 14248331वाई अब जेसी-378335एच),
01 जुलाई 2008

हवलदार जाचारिया आई (सं. 14264525एल अब जेसी-378330के),
11 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार विजया कुमार पी (सं. 14401347एच अब जेसी-273390ए),
12 मार्च 2009/01 अक्टूबर 2008 *

हवलदार पी पाण्डी (सं. 15109754एक्स अब जेसी-273391एच),
18 अप्रैल 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार आई विक्टर सयाराज (सं. 14418082ए अब जेसी-
273392एल), 11 अप्रैल 2009/30 नवम्बर 2008 *

हवलदार मुरलीधरन पी (सं. 14378513डब्ल्यू अब जेसी-273393एन),
28 मार्च 2009/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार विनोद कुमार मिनहास (सं. 14401119ए अब जेसी-
273394डब्ल्यू), 12 मार्च 2009/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार महेश चन्द्र (सं. 14397939एम अब जेसी-273395वाई),
18 अप्रैल 2009/01 जनवरी 2009 *

हवलदार निरंजन जीना (सं. 14497295एम अब जेसी-273396एफ),
16 मार्च 2009/04 जनवरी 2009 *

हवलदार शशी प्रकाश पाण्डेय (सं. 14400855एम अब जेसी-
273397के), 11 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार विजय सिंह (सं. 14395838ए अब जेसी-273398एम),
07 अप्रैल 2009/16 फरवरी 2009 *

हवलदार प्रीतम कुमार शर्मा (सं. 14395716डब्ल्यू अब जेसी-
273399पी), 21 मार्च 2009/26 फरवरी 2009 *

हवलदार सतवीर (सं. 14495627एम अब जेसी-273400वाई),
31 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 15114158पी अब जेसी-273401एफ),
21 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 15111540ए अब जेसी-273402के),
19 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार रवीन्द्र टी (सं. 15108312एम अब जेसी-273403एम),
10 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार राजू सिंह यादव (सं. 14401588एच अब जेसी-273404पी),
01 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार छतर सिंह (सं. 14497582डब्ल्यू अब जेसी-273405एक्स),
13 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार काश्मीर सिंह (सं. 15106905ए अब जेसी-273406ए),
15 अप्रैल 2009/02 अगस्त 2008 *

हवलदार सुखवन्त सिंह (सं. 15109782के अब जेसी-273407एच),
20 अप्रैल 2009/01 अक्टूबर 2008 *

हवलदार जय सिंह (सं. 14395223पी अब जेसी-273408एल),
10 अप्रैल 2009/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार विक्रम सिंह लोगवाल (सं. 14409632डब्ल्यू अब जेसी-
273409एन), 17 अप्रैल 2009/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार अतीश दिपाकर सरकार (सं. 14409833पी अब जेसी-
273410एच), 17 अप्रैल 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार तारलोचन सिंह (सं. 14400604एच अब जेसी-273411एल),
22 अप्रैल 2009/01 जनवरी 2009 *

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 14388080एक्स अब जेसी-273412एन),
25 अप्रैल 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार ब्रजेश कुमार अस्ती (सं. 14404903वाई अब जेसी-
273413डब्ल्यू), 21 मार्च 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार अलेक्स जी (सं. 14487606एफ अब जेसी-273414वाई),
01 मई 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार दिलीप कुमार द्विवेदी (सं. 14372348ए अब जेसी-
273415एफ), 19 अप्रैल 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार प्रदीप बी (सं. 14408526एल अब जेसी-273416के),
25 अप्रैल 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 15108686एच अब जेसी-273417एम),
25 अप्रैल 2009/23 फरवरी 2009 *

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 14392304के अब जेसी-273418पी),
03 मई 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार राजीन्दर सिंह (सं. 14400730पी अब जेसी-273419एक्स),
22 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार महादेव प्रसाद यादव (सं. 14392109एम अब जेसी-
273420एम), 21 अप्रैल 2009/23 मार्च 2009 *

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 15108167ए अब जेसी-273421पी),
01 अप्रैल 2009

हवलदार मधु कुमार पी एस (सं. 14386697पी अब जेसी-273325ए),
16 फरवरी 2009/31 अगस्त 2008 *

हवलदार शिवजी मिश्रा (सं. 14490425एफ अब जेसी-273326एच),
20 फरवरी 2009/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार मनोज कुमार के (सं. 14402652एलअब जेसी-273327एल),
17 फरवरी 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार पारस नाथ सिंह यादव (सं. 14497639ए अब
जेसी-273328एन), 02 मार्च 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार एम राजेन्द्रन (सं. 15107846एल अब जेसी-273329डब्ल्यू),
16 फरवरी 2009/30 नवम्बर 2008 *

हवलदार के मनीकम (सं. 14496772डब्ल्यू अब जेसी-273330एल),
20 फरवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 14496579के अब जेसी-273331एन),
19 फरवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार श्री ओम (सं. 15104568एक्स अब जेसी-273332डब्ल्यू),
02 मार्च 2009/10 दिसम्बर 2008 *

हवलदार के रामा मुर्ती (सं. 14393879एल अब जेसी-273333वाई),
21 मार्च 2009/27 जनवरी 2009 *

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 14387088एक्स अब जेसी-273334एफ),
27 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार बालाय सिंह (सं. 15116214एफ अब जेसी-273335के),
03 अप्रैल 2009/03 फरवरी 2009 *

हवलदार जोबी जोसेफ (सं. 14407157एम अब जेसी-273336एम),
03 मार्च 2009/04 फरवरी 2009 *

हवलदार सुखचैन सिंह (सं. 14387862एफ अब जेसी-273337पी),
26 फरवरी 2009/05 फरवरी 2009 *

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 15106217एफ अब जेसी-273338एक्स),
18 फरवरी 2009

हवलदार चौहान जगदबा सिंह (सं. 14404057डब्ल्यू अब जेसी-
273339ए), 02 मार्च 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार भारत कुमार (सं. 14385829एल अब जेसी-273340पी),
01 अप्रैल 2009

हवलदार केवल कृष्णन (सं. 15108186एल अब जेसी-273341एक्स),
11 नवम्बर 2008/01 जून 2008 *

हवलदार सुर्याकान्त पुजार (सं. 14400366एफ अब जेसी-273342ए)
03 मार्च 2009/28 अगस्त 2008 *

हवलदार मिथिलेश कुमार (सं. 14378072एल अब जेसी-273343)
23 फरवरी 2009/01 अक्टूबर 2008 *

हवलदार अनिल कुमार एम (सं. 15120781एफ अब जेसी
273344एल), 28 फरवरी 2009/20 नवम्बर 2008 *

हवलदार एस गुनाशेखरन (सं. 15118269के अब जेसी-273345एन),
16 मार्च 2009/15 नवम्बर 2008 *

हवलदार सुभाष चन्दर (सं. 14395717वाई अब जेसी-273346डब्ल्यू),
01 मार्च 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार राकेश सिंह (सं. 15125162एक्स अब जेसी-273347वाई),
23 फरवरी 2009/28 नवम्बर 2008 *

हवलदार नलावडे राजेन्द्र दत्तात्रय (सं. 15116073एक्स अब जेसी-
273348एफ), 03 फरवरी 2009/30 नवम्बर 2008 *

हवलदार श्रावण कुमार (सं. 15111031एफ अब जेसी-273349के),
01 मार्च 2009/30 नवम्बर 2008 *

हवलदार प्रगत सिंह (सं. 14422962एन अब जेसी-273350वाई),
22 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *

हवलदार कृष्णा चन्द्र मारोदिया (सं. 14394237एच अब जेसी-
273351एफ), 20 फरवरी 2009/18 जनवरी 2009 *

हवलदार संजय मैना (सं. 15118512डब्ल्यू अब जेसी-273352के),
03 मार्च 2009/19 जनवरी 2009 *

हवलदार एम डी बादर अली (सं. 14395348एम अब जेसी-
273353एम), 19 फरवरी 2009/24 जनवरी 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 14391888एन अब जेसी-273354पी),
20 फरवरी 2009/28 जनवरी 2009 *

हवलदार मोहम्मद निजामुद्दीन (सं. 14497866ए अब जेसी-
273355एक्स), 25 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 14389017पी अब जेसी-273356ए),
01 मार्च 2009

हवलदार दल बहादुर (सं. 15104318डब्ल्यू अब जेसी-273639एफ),
19 मई 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार बी नारायण रेड्डी (सं. 14395306ए अब जेसी-
273640डब्ल्यू), 03 जून 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 15113463पी अब जेसी-273641वाई),
11 मई 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार गुरतेज सिंह (सं. 15120115डब्ल्यू अब जेसी-273642एफ),
11 जून 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार शेख आदम (सं. 14412965एन अब जेसी-273643के),
03 जुलाई 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार गिरीश के (सं. 15120541के अब जेसी-273644एम),
18 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार घनेन्द्र सिंह (सं. 15109486वाई अब जेसी-273645पी),
08 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार आर पानूरुलाप्पन (सं. 14397517एफ अब जेसी-
273646एक्स), 10 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार चीन्ना सुब्बाया वेलुपुला (सं. 15118457एल अब
जेसी-273647ए), 28 मई 2009/22 अप्रैल 2009 *

हवलदार मंगलेश्वर सिंह (सं. 14392137वाई अब जेसी-273648एच),
07 मई 2009/03 मई 2009 *

हवलदार सावंत राजाराम बजरंग (सं. 15112824डब्ल्यू अब
जेसी-273649एल), 07 मई 2009/05 मई 2009 *

हवलदार पी अर्चुनन (सं. 15116605एम अब जेसी-273650ए),
01 जून 2009

हवलदार कुलदीप राज (सं. 15102569एफ अब जेसी-273651एच),
01 जून 2009

हवलदार पुरुषोत्तम (सं. 14389567एक्स अब जेसी-273671डब्ल्यू),
09 जुलाई 2009/07 मई 2009 *

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 14387022एफ अब जेसी-273672वाई),
01 जून 2009

हवलदार कमलेश (सं. 15103773एम अब जेसी-273673एफ),
01 जुलाई 2009

हवलदार यश पॉल (सं. 15104035ए अब जेसी-273652एल),
01 जून 2009

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 14390397एल अब जेसी-273653एन),
03 जून 2009/01 जून 2009 *

हवलदार शाम लाल (सं. 15103243एक्स अब जेसी-273654डब्ल्यू),
02 जून 2009/01 जून 2009 *

हवलदार सतीश कुमार (सं. 15109109एच अब जेसी-273658एम),
13 जुलाई 2009/01 अगस्त 2008 *

हवलदार जोगिन्दर कुमार (सं. 15109885एच अब जेसी-273659पी),
03 मार्च 2009/13 अक्टूबर 2008 *

हवलदार वेंकटेशन के (सं. 15128270एन अब जेसी-273660के),
22 मार्च 2009/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार मुट्टप्पा वनाशे नावी (सं. 14401577डब्ल्यू अब जेसी-
273661एम), 01 जून 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार विरेन्द्रा प्रताप सिंह (सं. 15104088एन अब जेसी-273662पी),
21 मई 2009/22 नवम्बर 2008 *

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14385711के अब जेसी-273663एक्स),
25 मई 2009/26 दिसम्बर 2008 *

हवलदार सुधाकर नायक (सं. 15116478एच अब जेसी-273664ए),
25 अप्रैल 2009/01 जनवरी 2009 *

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14499116ए अब जेसी-273665एच),
08 जून 2009/01 फरवरी 2008 *

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14394228एफ अब जेसी-273666एल),
08 जून 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार पाल सिंह (सं. 14498340ए अब जेसी-273667एन),
04 मार्च 2009

हवलदार राम स्वरूप यादव (सं. 15112391के अब जेसी-
273668डब्ल्यू), 25 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार जाकोब टी सी (सं. 14495224एम अब जेसी-273669वाई),
01 मई 2009

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 14393396एन अब जेसी-273670एम),
11 जून 2009/01 मई 2009 *

हवलदार नरेन्द्र सिंह खाटी (सं. 15110106एफ अब जेसी-273606डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2008/20 अगस्त 2008 *

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 15108442पी अब जेसी-273607वाई), 11 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 14403289एच अब जेसी-273608एफ), 12 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14397837डब्ल्यू अब जेसी-273609के), 20 दिसम्बर 2008/03 नवम्बर 2008 *

हवलदार अमोद कुमार (सं. 15102848एम अब जेसी-273610वाई), 24 जनवरी 2008/30 नवम्बर 2008 *

हवलदार सरदार अली शेख (सं. 14408710डब्ल्यू अब जेसी-273611एफ), 30 मार्च 2009/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार पाटील प्रदीप ज्ञानदेव (सं. 14401134पी अब जेसी-273612के), 07 फरवरी 2009/11 दिसम्बर 2008 *

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 15111715एक्स अब जेसी-273613एम), 30 मार्च 2009/12 दिसम्बर 2008 *

हवलदार गोकुल सिंह (सं. 14412860के अब जेसी-273614पी), 04 मई 2009/01 जनवरी 2009 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह भागेल (सं. 14406051एन अब जेसी-273615एक्स), 18 मई 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार माली अशोक भाऊराव (सं. 15109722पी अब जेसी-273616ए), 26 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार करमजीत सिंह (सं. 15116446एम अब जेसी-273617एच), 30 अप्रैल 2009/02 मार्च 2009 *

हवलदार राजेश कुमार (सं. 11442356पी अब जेसी-273618एल), 22 अप्रैल 2009/22 मार्च 2009 *

हवलदार बिक्रमादित्य भुयान (सं. 14408034एम अब जेसी-273619एन), 29 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार नाजिर सिंह चौहान (सं. 15119809के अब जेसी-273620एच), 29 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार अभय कुमार राय (सं. 14388736एफ अब जेसी-273621एल), 01 जून 2009

हवलदार राजू ए आर (सं. 15110601ए अब जेसी-273622एन), 09 फरवरी 2009/01 अक्टूबर 2008 *

हवलदार विजय कुमार (सं. 14421911एन अब जेसी-273623डब्ल्यू), 03 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार गणेशमूर्ती (सं. 15125852एफ अब जेसी-273624वाई), 13 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार मुकेश सिंह (सं. 15121044एम अब जेसी-273625एफ), 07 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार प्रवीण कुमार (सं. 15129758पी अब जेसी-273626के), 08 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार विजय सिंह (सं. 15117231एन अब जेसी-273627एम), 09 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14416458एक्स अब जेसी-273628पी), 07 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार अजयपाल (सं. 14416706एच अब जेसी-273629एक्स), 01 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार राजबीर (सं. 15135376एफ अब जेसी-273630एम), 30 जून 2009/22 जून 2009 *

हवलदार पवन कुमार (सं. 15134836एल अब जेसी-273631पी), 01 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह यादव (सं. 14415314एच अब जेसी-273632एक्स), 02 जुलाई 2009/22 जनवरी 2009 *

हवलदार पाटील अनिल प्रहलाद (सं. 14424639एक्स अब जेसी-273633ए), 02 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार कमल सिंह (सं. 14424574पी अब जेसी-273634एच), 01 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 15128597एल अब जेसी-273635एल), 08 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 15133836वाई अब जेसी-273636एन), 01 जुलाई 2009/22 जून 2009 *

हवलदार मेजर सिंह (सं. 15111608डब्ल्यू अब जेसी-273637डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

हवलदार श्रावण डी (सं. 14388776एच अब जेसी-273638वाई), 23 मई 2009/01 जनवरी 2009 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

ए वी बागुर
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th January 2010

ARMY BRANCH

No. 39, dated 24th December 2009—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS
BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Sub Maj (Clk GD)

Sub (Clk GD) Piar Chand Thakur (JC-347611Y), 21 Jan 2008

Sub (Clk GD) Satheesan MD (JC-347606N), 24 Jan 2008

Sub (Clk GD) Satbir Singh (JC-347624W), 04 Feb 2008

Sub (Clk GD) Jos M (JC-347685N), 06 Feb 2008

Sub (Clk GD) Ramraj Mishra (JC-347911A), 21 Jan 2008

Sub (Clk GD) Satyanarian Singh (JC-347726M), 08 Feb 2008

Sub (Clk GD) Chandan Singh (JC-347714X), 07 Feb 2008

Sub (Clk GD) Sita Sharan Shukha (JC-347961L), 02 Feb 2008

Sub (Clk GD) Suresh Chandra (JC-348145F), 04 Dec 2008

Sub (Clk GD) Rajendran Pillai S (JC-348144Y), 03 Nov 2008

Sub (Clk GD) Sree Kumar S (JC-347963W), 19 Jul 2008

Sub (Clk GD) Punjab Singh (JC-348192Y), 23 Jan 2009

Sub (Clk GD) Hari Ram (JC-348028W), 24 Jan 2009

Sub (Clk GD) Puran Singh (JC-348052M), 04 Mar 2009

Sub (Clk GD) Debesh Kumar Tripathi (JC-348163K), 07 Feb 2009

Sub (Clk GD) Kartar Singh Yadav (JC-348133M), 19 Jan 2009

Sub (Clk GD) Jhirmal Singh (JC-347968P), 06 Mar 2009

Sub (Clk GD) Satish Kumar (JC-348041A), 05 Feb 2009

Sub (Clk GD) Phool Chandra Yadav (JC-347867F), 21 Apr 2009

Sub (Clk GD) Mahabir Singh (JC-348201P), 02 May 2009

Sub (Clk GD) Jasbir Sharma (JC-348121X), 18 May 2009

Sub (Clk GD) Vinod Kumar (JC-347604H), 20 May 2009

Sub (Clk GD) Ramesh Chander (JC-348109W), 04 Aug 2008

Sub (Clk GD) Bhumi Singh (JC-347981Y), 06 Aug 2008

Sub (Clk GD) Narender Kumar (JC-348060L), 04 Sep 2008

Sub (Clk GD) Rajesh Kumar Tiwari (JC-347970M), 03 Sep 2008

Sub (Clk GD) Kewal Kumar (JC-347973A), 04 Sep 2008

Sub (Clk GD) Davange Haribhau Maruti (JC-348179P), 06 Oct 2008

Sub (Clk GD) Rameshan Nair PS (JC-348000W), 08 Oct 2008

Sub (Clk GD) Chandgi Ram Yadav (JC-348099X), 16 Oct 2008

Sub (Clk GD) Satya Narain Bhatti (JC-348308K), 03 Nov 2008

Sub (Clk GD) Amin Chand (JC-348189Y), 02 Dec 2008

Sub (Clk GD) Balbir Singh Guleria (JC-348118X), 03 Nov 2008

Sub (Clk GD) Aravindakshan Pillai N (JC-348197X), 02 Dec 2008

To be Sub Maj (GD)

Sub (GD) Shinde Bajirao Babarao (JC-348092N), 04 Feb 2008

Sub (GD) Sohanvir Singh Man (JC-348299N), 08 Feb 2008

Sub (GD) Triveni Rai (JC-348421Y), 02 Feb 2008

Sub (GD) Kasam Khan (JC-348363A), 08 Feb 2008

Sub (GD) Subhash Gulabrao Nirmale (JC-348129K), 04 Feb 2008

Sub (GD) Joginder Singh (JC-348757Y), 08 Dec 2008

Sub (GD) Mohite Rajaram (JC-348624H), 05 Oct 2008

Sub (GD) Joginder Singh (JC-348456W), 06 Feb 2009

Sub (GD) Umrao Lal Saini (JC-348782X), 05 Mar 2009

Sub (GD) Charan Singh (JC-349211L), 07 Mar 2009

Sub (GD) Rajinder Singh (JC-348771L), 13 Mar 2009

Sub (GD) Kailash Chand (JC-348924K), 01 Apr 2009

Sub (GD) Bhanwar Lal Sen (JC-348819N), 01 Apr 2009

Sub (GD) Hanif Ahmad (JC-348849L), 01 Apr 2009

Sub (GD) Yeshwant Vithal Jogle (JC-348774Y), 13 Apr 2009

Sub (GD) Davinder Singh (JC-348814P), 15 May 2009

Sub (GD) Gore Suresh Masku (JC-348262M), 18 Mar 2009

Sub (GD) Mohan Lal (JC-348449Y), 01 Jul 2008

Sub (GD) Jadhav Parsharam Dattaram (JC-348519M), 04 Sep 2008

Sub (GD) Sri Nivas Pandey (JC-348434W), 09 Sep 2008

Sub (GD) Mani Ram Sharma (JC-348513L), 02 Sep 2008

Sub (GD) Harbans Singh (JC-348491X), 01 Sep 2008

Sub (GD) Jasbir Singh (JC-348557H), 01 Oct 2008

Sub (GD) Mohamad Janudin (JC-348471K), 29 Aug 2008

Sub (GD) Patil Kiran Kumar (JC-348607H), 04 Oct 2008

Sub (GD) Charan Singh (JC-348751X), 03 Nov 2008

Sub (GD) Kaptan Singh (JC-348661W), 06 Oct 2008

To be Sub Maj (Musician)

Sub (Musician) Ram Saran (JC-349486Y), 06 Mar 2009

To be Sub Maj (SKT)

Sub (SKT) Shivraj Singh Choudhary (JC-348448W),
20 Apr 2009

To be Sub Maj (RT)

Sub (RT) Wakiluddin (JC-140506W), 05 Dec 2008

Sub (RT) Achutanand Tripathi (JC-140997X), 18 Nov
2008

To be Sub (Clk GD)

Nb Sub (Clk GD) Ved Prakash (JC-348996N), 17 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Anup Singh Jaryal (JC-349011P) Jan
2008

Nb Sub (Clk GD) Raj Karan Jat (JC-349027), 21 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Rakesh Kumar (JC-348957P), 15 Jan
2008

Nb Sub (Clk GD) Subhash Chandra (JC-348994H), 15 Jan
2008

Nb Sub (Clk GD) Prabhu Narayan Pathak (JC-348708W),
23 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Mewa Ram (JC-348993A), 06 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Kurda Ram (JC-349002N), 16 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Vikram Singh (JC-349286H), 09 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Patil Vyankat Dhondiba (JC-349571F),
19 Dec 2008

Nb Sub (Clk GD) Surendra Bahadur Singh (JC-349524K),
01 Nov 2008

Nb Sub (Clk GD) Bikram Chand Rana (JC-349597W),
01 Nov 2008

Nb Sub (Clk GD) Rajesh Singh (JC-349582N), 15 Dec 2008

Nb Sub (Clk GD) Mahaveer Prasad Sharma (JC-349565N),
01 Dec 2008

Nb Sub (Clk GD) Sukhdev Singh (JC-349575X), 01 Dec
2008

Nb Sub (Clk GD) Deshmukh Satish Kumar Eknath (JC-
349404L), 02 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Kunwar Singh (JC-349242L), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Madan Mohan Uniyal (JC-349621F),
01 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Sonawane Balkrushna Bhikaji (JC-
349611X), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Bhalerao Sanjay Kumar Shanatwan (JC-
349636K), 01 Feb 2009

Nb Sub (Clk GD) Kripa Shankar Upadhyay (JC-349635F),
02 Feb 2009

Nb Sub (Clk GD) Om Prakash (JC-349713N), 01 Feb 2009

Nb Sub (Clk GD) Joginder Singh Chauhan (JC-349590M),
01 Feb 2009

Nb Sub (Clk GD) Rajesh Kumar (JC-349620Y), 15 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Habib Shah (JC-349710A), 02 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Ranveer Singh Rawat (JC-349591P)
01 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Surendra Bahadur Singh (JC-349583W),
02 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Pamhari Dai Ray (JC-349641P), 02 Feb
2009

Nb Sub (Clk GD) Pratap Singh (JC-349634Y), 21 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Kondekar Mallu Ganpati (JC-350000P)
21 Jan 2009

Nb Sub (Clk GD) Uttam Singh (JC-349718M), 02 Apr 2008

Nb Sub (Clk GD) Kulkarni Chandrakant Haripant (JC-
349715Y), 01 Apr 2009

Nb Sub (Clk GD) Suresh Singh (JC-349181Y), 26 Mar 2008

Nb Sub (Clk GD) Chandrika Prasad (JC-349719P), 01 May
2009

Nb Sub (Clk GD) Kurhade Kashappa Kalapa (JC-349727N),
01 May 2009

Nb Sub (Clk GD) Ramjilal Goswami (JC-349803P), 01 Ju
2009

Nb Sub (Clk GD) Rajesh Prasad Singh (JC-349788L), 01 Ju
2009

Nb Sub (Clk GD) Dariba S Chougale (JC-349791L), 01 Ju
2009

Nb Sub (Clk GD) Ambar Lal (JC-349499W), 01 Sep 2008

Nb Sub (Clk GD) Khem Singh (JC-349472Y), 07 Jul 2008

Nb Sub (Clk GD) Patil Vishwanath Krishna (JC-349397A)
18 Aug 2008

Nb Sub (Clk GD) Dalbir Singh (JC-349531A), 01 Sep 2008

Nb Sub (Clk GD) Ram Nivas Singh (JC-349520N), 01 Se
2008

Nb Sub (Clk GD) Dubal Ramesh Pilaji Rao (JC-349538K)
01 Sep 2008

Nb Sub (Clk GD) Lokhande Shivaji Bapu (JC-349595L)
01 Sep 2008

Nb Sub (Clk GD) Sabale Pandurang Kachru (JC-349579N), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Dushyant Kurnar (JC-349495A), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Dhane Shivaji Shanka (JC-349506F), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Shiv Ratan Singh Shakya (JC-348668A), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Shri Krishna (JC-349541K), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Yewale Vilas Sitaram (JC-349510K), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Dhuri Vitthal Govind (JC-349536Y), 15 Oct 2008

Nb Sub (Clk GD) Phalke Rangnath Baban (JC-349521W), 01 Sep 2008

Nb Sub (Clk GD) Shiwaji Yadav (JC-349525M), 01 Nov 2008

Nb Sub (Clk GD) Mahender Singh (JC-349542M), 03 Nov 2008

Nb Sub (Clk GD) Radhey Shyam (JC-349552W), 01 Dec 2008

Nb Sub (Clk GD) Deshmukh Nanasaheb Babasaheb (JC-349576A), 01 Dec 2008

Nb Sub (Clk GD) Khem Chand Gupta (JC-349581L), 01 Dec 2008

Nb Sub (Clk GD) Rajesh Kumar Mishra (JC-349553Y), 01 Dec 2008

To be Sub (GD)

Nb Sub (GD) Gurdip Singh (JC-349676L), 17 Jan 2008

Nb Sub (GD) Gurpreet Singh (JC-349668M), 16 Jan 2008

Nb Sub (GD) Kulwant Singh (JC-349669P), 17 Jan 2008

Nb Sub (GD) Dharam Pal (JC-349696Y), 28 Jan 2008

Nb Sub (GD) Tajane Raghunath Dashrath (JC-349658H), 18 Jan 2008

Nb Sub (GD) Harbhajan Singh (JC-349642X), 15 Jan 2008

Nb Sub (GD) Kadam Shivaji Krishnaji (JC-349660A), 22 Jan 2008

Nb Sub (GD) Katare Goraknath Jagannath (JC-349680N), 18 Jan 2008

Nb Sub (GD) Chander Gopal (JC-349672P), 15 Jan 2008

Nb Sub (GD) Bhosle Amol Keshav (JC-349684K), 16 Jan 2008

Nb Sub (GD) Arvind Kumar Dutta (JC-349656X), 15 Jan 2008

Nb Sub (GD) Sattar Khan (JC-349661H), 01 Feb 2008

Nb Sub (GD) Chavan Dilip Akaram (JC-349841L), 19 Sep 2008

Nb Sub (GD) Malkit Singh (JC-349974F), 01 Nov 2008

Nb Sub (GD) Kuldeep Singh (JC-349989K), 03 Dec 2008

Nb Sub (GD) Tarsem Singh (JC-349977P), 08 Dec 2008

Nb Sub (GD) Laxman Ramchandra Sakpal (JC-349953L), 01 Dec 2008

Nb Sub (GD) Sane Subhash Shidu (JC-349971N), 13 Nov 2008

Nb Sub (GD) Subhas Chandra Ram Khot (JC-349981X), 01 Dec 2008

Nb Sub (GD) Shokat Ali (JC-350009K), 12 Jan 2008

Nb Sub (GD) Ganga Prasad Verma (JC-350080X), 10 Jan 2009

Nb Sub (GD) Major Singh (JC-349973Y), 03 Dec 2008

Nb Sub (GD) Shivaji Ram Meena (JC-350022N), 07 Jan 2009

Nb Sub (GD) Jagir Singh Bhatti (JC-350035L), 09 Jan 2009

Nb Sub (GD) Mohd Zahid Ansari (JC-350021L), 07 Jan 2009

Nb Sub (GD) Akaram Mahadev Khot (JC-350025F), 07 Jan 2009

Nb Sub (GD) Suresh Pal (JC-350042F), 16 Feb 2009

Nb Sub (GD) Malkit Singh (JC-350023W), 15 Jan 2009

Nb Sub (GD) Khamakar Bhimrao Dattatray (JC-349946P), 24 Feb 2009

Nb Sub (GD) Lute Sakharam Mahadji (JC-350010Y), 07 Jan 2009

Nb Sub (GD) Harak Singh Mehta (JC-350037W), 12 Feb 2009

Nb Sub (GD) Bansi Shripati Dhanke (JC-350014P), 12 Feb 2009

Nb Sub (GD) Rameshwar Dass (JC-350044M), 12 Feb 2009

Nb Sub (GD) Raghubir Singh (JC-350024Y), 16 Feb 2009

Nb Sub (GD) Gaikwad Maruti Ramu (JC-350038Y), 20 Feb 2009

Nb Sub (GD) Shiv Prasad Pandey (JC-350036N), 16 Feb 2009

Nb Sub (GD) Mohmad Ishaq (JC-350056F), 18 Mar 2009

Nb Sub (GD) Nehal Singh (JC-350053N), 18 Mar 2009

Nb Sub (GD) Pritam Singh (JC-350019N), 12 Mar 2009

Nb Sub (GD) Bisale Ashok Vithoba (JC-350040W), 27 Feb 2009

Nb Sub (GD) Ram Chandra (JC-350071W), 26 Mar 2009

Nb Sub (GD) Chandgude Kaka Mahipati (JC-350074K), 16 Mar 2009

Nb Sub (GD) Kadam Manik Rao Damodar (JC-350054W), 16 Mar 2009

Nb Sub (GD) Harvinder Singh (JC-350106F), 18 Mar 2009

Nb Sub (GD) Bhoop Singh (JC-350041Y), 03 Mar 2009

Nb Sub (GD) Satwinder Singh (JC-350059P), 23 Mar 2009

Nb Sub (GD) Patil Mahadeo Balavant (JC-350072Y), 21 Mar 2009

Nb Sub (GD) Khule Vinod Ganesh Rao (JC-350058M), 19 Mar 2009

Nb Sub (GD) Kadukar Shripati Shivram (JC-350309L), 20 Feb 2009

Nb Sub (GD) Peer Ali (JC-350065H), 01 Apr 2009

Nb Sub (GD) Manmohan Singh (JC-350076P), 09 Apr 2009

Nb Sub (GD) Sher Muhammad (JC-350075M), 07 Apr 2009

Nb Sub (GD) Ranjit Singh (JC-350112P), 11 Apr 2009

Nb Sub (GD) Mohammad Jalil (JC-350051H), 26 Mar 2009

Nb Sub (GD) Jawahar Khan (JC-350102L), 13 Apr 2009

Nb Sub (GD) Balvir Singh (JC-350093P), 03 Apr 2009

Nb Sub (GD) Satnam Singh (JC-350111M), 08 Apr 2009

Nb Sub (GD) Charan Singh (JC-350047A), 31 Mar 2009

Nb Sub (GD) Manjit Singh (JC-350073F), 25 Mar 2009

Nb Sub (GD) Fattan Khan (JC-350033A), 28 Mar 2009

Nb Sub (GD) Sumer Singh (JC-350064A), 02 Apr 2009

Nb Sub (GD) Ajmal (JC-350108M), 02 Apr 2009

Nb Sub (GD) Jadhav Dadarao Dattatraya (JC-350077X), 04 Apr 2009

Nb Sub (GD) Mahiman Singh Thapa (JC-350310A), 12 Mar 2009

Nb Sub (GD) Mahadik Jaywant Daulat (JC-350045P), 16 Apr 2009

Nb Sub (GD) Chopade Gajanan Bhimaji (JC-350082H), 05 Apr 2009

Nb Sub (GD) Ashok Yeswant Pawar (JC-350113X), 05 May 2009

Nb Sub (GD) Harmel Singh (JC-350110K), 08 Apr 2009

Nb Sub (GD) Gaya Prasad (JC-350103N), 29 Apr 2009

Nb Sub (GD) Hira Singh Negi (JC-350115H), 11 Apr 2009

Nb Sub (GD) Baldev Singh (JC-350373H), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Hari Singh (JC-350039F), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Tasdik (JC-350132H), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Darshan Singh (JC-350137F), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Aute Suresh Shripati (JC-350138K), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Mohan Chandra Joshi (JC-350092M), 04 May 2009

Nb Sub (GD) Tonde Chandrakant Vithoba (JC-350140F), 04 May 2009

Nb Sub (GD) Parbhathi Lal (JC-350118W), 11 Apr 2009

Nb Sub (GD) Mahendra Singh (JC-350186K), 18 May 2009

Nb Sub (GD) Jaspal Singh (JC-350123F), 11 May 2009

Nb Sub (GD) Rajendran P (JC-350048H), 16 May 2009

Nb Sub (GD) Harmohinder Singh (JC-350143P), 10 May 2009

Nb Sub (GD) Surinder Pal Singh (JC-350141K), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Muraleedharan K (JC-350158X), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Gurmail Singh (JC-350114A), 08 Apr 2009

Nb Sub (GD) Jaspal Singh (JC-350194H), 01 Jun 2009

Nb Sub (GD) Balbir Singh (JC-350142M), 25 May 2009

Nb Sub (GD) Kanahya Thakur (JC-350182N), 01 Jun 2009

Nb Sub (GD) Majhi Sawaiyan (JC-350378F), 01 Jun 2009

Nb Sub (GD) Sant Singh (JC-350196N), 01 Jun 2009

Nb Sub (GD) Bhiungade Laxman Maruti (JC-350261H), 02 Jun 2009

Nb Sub (GD) Sukhchain Singh (JC-350144X), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Khot Sakharan Khandu (JC-350109P), 03 Apr 2009

Nb Sub (GD) Ras Bihari (JC-350104W), 15 May 2009

Nb Sub (GD) Sadanand Ram (JC-350057K), 01 May 2009

Nb Sub (GD) Vadiraj Chanageri (JC-349898A), 02 Aug 2008

Nb Sub (GD) Vinod Kumar (JC-349812W), 05 Jul 2008

Nb Sub (GD) Bakhshish Singh (JC-349839N), 14 Aug 2008

Nb Sub (GD) Momeen Khan (JC-349876F), 05 Sep 2008

Nb Sub (GD) Kusheba Tulsiram Hangare (JC-349891W), 06 Sep 2008

Nb Sub (GD) Joginder Singh (JC-349915P), 04 Sep 2008

Nb Sub (GD) Berandra Singh (JC-349888W), 01 Sep 2008

Nb Sub (GD) Ingle Rajaram Mahadeo (JC-349892Y), 01 Sep 2008

Nb Sub (GD) Yamin Ali (JC-349893F), 01 Sep 2008

Nb Sub (GD) Gurdip Singh (JC-349911Y), 01 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Joginder Singh (JC-349895M), 02 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Kulwant Singh (JC-349894K), 08 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Gurmeh Singh (JC-349827Y), 11 Aug 2008
 Nb Sub (GD) Rajinder Singh (JC-349889Y), 06 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Padle Bhaginath Ambadas (JC-349887N), 05 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Darshan Singh (JC-349902X), 09 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Gurjant Singh (JC-349933X), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Dilip Dinkar Patil (JC-349913K), 11 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Chand Singh (JC-349922L), 03 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Harbhajan Singh (JC-349916X), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Surinder Singh (JC-349920A), 03 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Om Pal Singh (JC-349917A), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Allabchaya Mirasi (JC-349945M), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Ethape Ramdas Nanabhau (JC-349962M), 06 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Sunil Moti Ram Jogi (JC-349947X), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Gurdev Singh (JC-349936L), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Gurjant Singh (JC-349960F), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Nawab Ali Ansari (JC-349923N), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Gian Singh Jatav (JC-349919L), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Jitendra Pal Singh (JC-349938W), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Darshan Singh (JC-349961K), 14 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Dayal Singh (JC-349857W), 20 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Hari Singh (JC-349939Y), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Jarnail Singh (JC-349918H), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Rawal Singh (JC-349968N), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Bhaghowan Sripathi Patil (JC-349857W), 01 Jul 2008
 Nb Sub (GD) Sakhare Dnyaneshwar Bhayyaji (JC-349817P), 10 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Sarabjit Singh (JC-349972W), 11 Nov 2008
 Nb Sub (GD) Rakesh Chandra Pandey (JC-349965A), 01 Nov 2008
 Nb Sub (GD) Ayub Khan (JC-349970L), 03 Nov 2008
 Nb Sub (GD) Bahadur Singh (JC-349967L), 03 Nov 2008
 Nb Sub (GD) Jadhav Rajaram Baburao (JC-349966H), 03 Nov 2008

Nb Sub (GD) Shivtaj Singh (JC-349914M), 01 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Davinder Singh (JC-349969W), 10 Nov 2008
 Nb Sub (GD) Gurmit Singh (JC-349944K), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Kashmir Singh (JC-349980P), 01 Dec 2008
 Nb Sub (GD) Patil Dattatray Parasu (JC-349901P), 05 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Abdul Kalam Ansari (JC-349890N), 02 Sep 2008
 Nb Sub (GD) Bhatkar Sudhir Gulabrao (JC-349995X), 08 Nov 2008
 Nb Sub (GD) Ashok Bapurao Satpute (JC-349952H), 01 Dec 2008
 Nb Sub (GD) Rulda Ram (JC-349949H), 01 Oct 2008
 Nb Sub (GD) Harbans Singh (JC-349976M), 04 Dec 2008
 Nb Sub (GD) Ashok Kumar (JC-349979A), 01 Dec 2008
 Nb Sub (GD) Ubhe Mohan Balu (JC-349990Y), 05 Dec 2008
 Nb Sub (GD) Dina Nath Tripathi (JC-349996A), 08 Dec 2008

To be Sub (SKT)

Nb Sub (SKT) Bhabhishan Singh (JC-349423W), 03 Oct 2008
 Nb Sub (SKT) Om Lal (JC-349053F), 09 Jan 2008
 Nb Sub (RT) Surinder Singh (JC-349055M), 07 Feb 2008

To be Sub (RT)

Nb Sub (RT) Mahendra Kumar (JC-348397N), 06 Apr 2009

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Gabru Khan (No 1575134Y now JC-351173Y), 01 Jun 2009

Hav (GD) Gurmit Singh (No 1575151Y now JC-351174F), 01 Jun 2009

Hav (GD) Desale Gokul Pandit (No 1575449H now JC-351175K), 01 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Joseph Hemrom (No 1575921A now JC-351176M), 11 May 2009

Hav (GD) Gurcharan Singh (No 1576142K now JC-351177P), 01 Jun 2009

Hav (GD) Jagdish Singh (No 1576402P now JC-351178X), 15 May 2009

Hav (GD) Jagdale Vijay Kumar Jaysinghrao (No 1576415F now JC-351179A), 01 May 2009

Hav (GD) Om Dev (No 1576647A now JC-351180P), 01 May 2009

Hav (GD) Ram Singh (No. 1576682H now JC-351181X),
10 Jun 2009

Hav (GD) Jadhav Narayan Vitthal (No. 1576882Y now JC-351182A), 07 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009
with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Karande Ananda Pralhad (No. 1571317X now JC-351188F), 03 Jun 2009

Hav (GD) Pawar Subhash Jayasing (No. 1571360Y now JC-351189K), 01 Jun 2009

Hav (GD) Sukhdev Singh (No. 1571395P now JC-351190Y),
02 Jun 2009

Hav (GD) Anandpal Singh Shishodia (No. 1576993W now JC-351191F), 01 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Godge Ramesh Tukaram (No. 1577002K now JC-351192K), 09 Jun 2009

Hav (GD) Santosh Kumar (No. 1577010H now JC-351193M), 02 Jun 2009

Hav (GD) Afak Ahmad Ansari (No. 1577070X now JC-351194P), 02 Jun 2009

Hav (GD) Beni Prasad Namdeo (No. 1577274K now JC-351195X), 04 Jun 2009

Hav (GD) Sultan Singh (No. 1577532Y now JC-351196A),
22 Jun 2009

Hav (GD) Zaved Khan (No. 1577549M now JC-351197H),
08 Jun 2009

Hav (GD) Darshan Singh (No. 1577582K now JC-351198L),
01 Jun 2009

Hav (GD) Patil Raj Kumar Shankar (No. 1577850H now JC-351199N), 03 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
with/without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Sarbhat Singh (No. 1581562N now JC-351183H), 01 Jun 2009

Hav (Clk GD) Suresh Singh Narwaria (No. 1576312H now JC-351184L), 01 Jun 2009

Hav (Clk GD) Inder Kumar Yadav (No. 1580488L now JC-351185N), 18 Jun 2009

Hav (Clk GD) Goutam Roy (No. 1580498P now JC-351186W), 01 Jun 2009

Hav (Clk GD) Som Nath (No. 1580967M now JC-351187Y),
22 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
with/without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Surender Singh (No. 1581373K now JC-351201A), 04 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Maya Shankar Pandey (No. 6930903N now JC-351207F), 13 Jul 2009

Hav (Clk GD) Kaur Singh Yadav (No. 1581368Y now JC-351208K), 14 Jul 2009

Hav (Clk GD) Abhaya Dev Prasad (No. 1581566K now JC-351209M), 13 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Ravi Bhikaji More (No. 1574534Y now JC-351200X), 20 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Jagtar Singh (No. 1576396F now JC-351202H),
10 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Balwant Rai (No. 1571531A now JC-351203L),
01 Jul 2009

Hav (GD) Patil Arvind Yeshwant Rao (No. 1577261M now JC-351204N), 20 Jun 2009

Hav (GD) Banshraj Verma (No. 1577685H now JC-351205W), 06 Jul 2009

Hav (GD) Shahid Hussain (No. 1577783H now JC-351206Y), 11 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Dilbagh Singh (No. 1572698W now JC-351210F),
01 Jul 2009

Hav (GD) Ram Bahadur Singh (No. 1572930W now JC-351211K), 01 Jul 2009

Hav (GD) Sukhdev Singh (No. 1573150X now JC-351212M), 01 Jul 2009

Hav (GD) Baldev Singh (No. 1573154N now JC-351213P),
01 Jul 2009

Hav (GD) Ramji Ram (No. 1577898W now JC-351214X),
01 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009
with effect on pay and allowances)

Hav (GD) Lakhwinder Singh (No. 1577946L now JC-351215A), 03 Jul 2009

Hav (GD) Kailash Nath (No. 1577972M now JC-351216H),
01 Jul 2009

Hav (GD) Lawate Baban Niwarutti (No. 1577991X now JC-351217L), 01 Jul 2009

Hav (GD) Feeroj Ali (No. 1579090K now JC-351218N), 02 Jul 2009

Hav (GD) Ram Shabda Singh (No. 1573422M now JC-351219W), 06 Jul 2009

Hav (GD) Ware Baba Bhimrao (No. 1573488H now JC-351220L), 01 Jul 2009

Hav (GD) Mahavir Vaishnav (No. 1573733A now JC-351221N), 02 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 with/without effect on pay and allowances)

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Gireesha Chandra Rai (No. 1476292L now JC-338772A), 22 Nov 2008\$

Hav Rakesh Kumar (No. 1472234K now JC-338773H), 02 May 2009@

Hav Narendra Singh Asgola (No. 1477658K now JC-338774L), 02 Apr 2009@

Hav Jagdish Singh (No. 1478175Y now JC-338775N), 01 Apr 2009@

Hav Naresh Kumar (No. 1478192Y now JC-338776W), 17 Apr 2009@

Hav Prodip Kumar Biswas (No. 1478322W now JC-338777Y), 18 May 2009#

Hav Hira Singh (No. 1478448W now JC-338778F), 01 May 2009#

Hav Amrik Singh (No. 1478484F now JC-338779K), 01 May 2009#

Hav Rakesh Kumar Singh (No. 1478517F now JC-338780Y), 01 May 2009#

Hav Neetra Pal Singh (No. 1478525A now JC-338781F), 01 May 2009#

Hav Bhupal Singh (No. 1478575L now JC-338782K), 01 May 2009#

Hav Tarinder Pal Singh (No. 1478645Y now JC-338783M), 04 May 2009#

Hav Bijender Singh (No. 1478739W now JC-338784P), 01 May 2009#

Hav Ramesh Singh (No. 1478828P now JC-338785X), 01 Jun 2009*

Hav Mangla Nand (No. 1478834H now JC-338786A), 05 Jun 2009*

Hav Dalip Kumar Nath (No. 1478845P now JC-338787H), 01 Jun 2009*

Hav Chandravir Singh (No. 1478851H now JC-338788L), 01 Jun 2009*

Hav Jai Narayan (No. 1478863X now JC-338789N), 02 Jun 2009*

Hav Devinder Singh (No. 1478872Y now JC-338790H), 01 Jun 2009*

Hav Dilip Kumar Swain (No. 1478887F now JC-338791L), 01 Jun 2009*

Hav Kishan Singh (No. 1478936Y now JC-338792N), 02 Jun 2009*

Hav Virendra Kumar Singh (No. 1479006K now JC-338793W), 01 Jun 2009*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 1479017W now JC-338794Y), 01 Jun 2009*

Hav Madhu Suden Gope (No. 1479019F now JC-338795F), 01 Jun 2009*

Hav Sunil Kumar Chhatttri (No. 1492485P now JC-338796K), 01 Jun 2009*

Hav Kanwar Rakesh Singh (No. 1493222H now JC-338797M), 01 Jun 2009*

Hav P Radha Krishnan (No. 1488527Y now JC-338798P), 01 Jun 2009*

Hav Chet Ram (No. 1475004F now JC-338799X), 02 Jul 2009*

Hav Gajjan Singh (No. 1476026M now JC-338800F), 24 Jun 2009*

Hav Kuber Singh (No. 1476121Y now JC-338801K), 01 Jul 2009**

Hav Ali Borddin Biswas (No. 1476649W now JC-338802M), 01 Jul 2009**

Hav Virender Kumar (No. 1477475N now JC-338803P), 01 Jul 2009**

Hav Javeer Singh (No. 1477760M now JC-338804X), 01 Jul 2009**

Hav Prabhu Nath Yadava (No. 1478516Y now JC-338805A), 01 Jul 2009**

Hav Balwant Kumar Pandey (No. 1478760Y now JC-338806H), 01 Jul 2009**

Hav Rajesh Kumar Singh (No. 1476190P now JC-338807L), 01 Jul 2009**

Hav Kisun Bihari Singh Yadav (No. 1479001L now JC-338808N), 01 Jul 2009**

Hav Sukhbir Singh (No. 1479126H now JC-338809W), 01 Jul 2009**

Hav Naba Kumar Singha (No. 1479179F now JC-338810L), 17 Jul 2009**

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Satya Pal Sharma (No. 1574387F now JC-338811N), 28 May 2009@

Hav Manoj Kumar Pandey (No. 1477170N now JC-338812W), 21 May 2009@

Hav Raghunath Prasad Sinha (No. 1477235W now JC-338813Y), 09 Jul 2009@

Hav Ram Bilash (No. 1477348Y now JC-338814F), 09 Jun 2009@

Hav Sudhersanan K (No. 1477764H now JC-338815K), 10 May 2009@

Hav Jagdish Singh Patel (No. 1478469M now JC-338816M), 18 May 2009#

Hav Tapan Kumar Das (No. 1478520F now JC-338817P), 15 Jun 2009#

Hav Ramesh TC (No. 1478731K now JC-338818X), 05 Jun 2009#

Hav Braj Bhushan Roy (No. 1477237F now JC-338819A), 13 Jul 2009*

Hav S Laxshmanan (No. 1478003K now JC-338820P), 13 Jul 2009*

Hav Liakat Ali Mandal (No. 1478527L now JC-338821X), 13 Jul 2009*

Hav Raj Kumar Singh (No. 1479430M now JC-338822A), 01 Jun 2009*

Hav Amarjeet Singh (No. 1479522Y now JC-338823H), 11 Jul 2009**

Hav Hanumana Ram (No. 1479858Y now JC-338824L), 14 Jul 2009**

To be Nb Sub Clk (IM)

Hav Om Pal Singh (No. 1475817X now JC-338825N), 26 May 2009#

To be Nb Sub (Svy Cat)

Hav Yogendra Singh Negi (No. 15344313K now JC-338826W), 09 May 2009@

Hav Heera Singh (No. 15344326F now JC-338827Y), 12 Jun 2009@

Hav Mahesh Kumar (No. 15344300M now JC-338828F), 27 May 2009@

Hav Shiv Shankar Singh Yadav (No. 1479599F now JC-338829K), 18 May 2009#

Hav Davendra Singh (No. 1480806P now JC-338830Y), 14 May 2009#

Hav Pankaj Jha (No. 15344338W now JC-338831F), 01 Jul 2009**

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allces)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allces)

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allces)

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allces)

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

ALKA JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 40, dated 29th December 2009—The President is pleased to make the following promotions/appointments :—

REGULAR ARMY

CORPS OF SIGNALS

To be Subs Sub (Op Ciph)

Nb Sub Sunder Lal Gautam (JC-374580N), 01 Nov 2007

Nb Sub M Ajmeri (JC-374585M), 01 Dec 2007

Nb Sub Mahinder Singh (JC-374587X), 01 Dec 2007

Nb Sub Kailash Chandra (JC-374588A), 01 Dec 2007

Nb Sub Devdas V (JC-374589H), 01 Dec 2007

Nb Sub Bharat Ram (JC-374606X), 01 Dec 2007

Nb Sub Ramesh Chandra Singh (JC-374607A), 01 Dec 2007

Nb Sub Budh Prakash Singh (JC-374610A), 01 Dec 2007

Nb Sub Tulsi Singh (JC-374688L), 27 Jan 2008

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darshan Singh (JC-374691L), 01 Feb 2008

Nb Sub Satruhan Tiwari (JC-374758Y), 01 Mar 2008

Nb Sub Naresh Kumar (JC-374761Y), 01 Apr 2008

Nb Sub V Raveendran Nair (JC-374763K), 01 Apr 2008

Nb Sub Ranjit Singh (JC-374806N), 01 Apr 2008

Nb Sub Ram Pati (JC-374807W), 01 Apr 2008

Nb Sub Mahinder Singh (JC-374808Y), 01 Apr 2008

Nb Sub Kaushlendra Kumar (JC-374809F), 01 Apr 2008

Nb Sub Rishi Muni Sharma (JC-374810W), 01 Apr 2008

Nb Sub Naresh Datt (JC-375058X), 01 Apr 2008

Nb Sub Lila Ram (JC-375079N), 01 Apr 2008

Nb Sub Parthasarathy K (JC-375080H), 01 Apr 2008

Nb Sub Prem Nath Sah (JC-375084Y), 01 Apr 2008

Nb Sub Ashok Kumar (JC-375085F), 01 Apr 2008	Nb Sub Ramjiyawan (JC-375799P), 25 Nov 2008
Nb Sub N Kishore Pokharia (JC-375188A), 01 Apr 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Jagbir Singh (JC-375189H), 01 Apr 2008	Nb Sub Satvinder Singh (JC-375845Y), 01 Nov 2008
Nb Sub Maghar Singh (JC-375190X), 01 Apr 2008	Nb Sub Rai Singh (JC-375846F), 01 Nov 2008
Nb Sub Dharamvir (JC-375191A), 01 Apr 2008	Nb Sub Anil Kumar Tiwari (JC-375848M), 01 Nov 2008
Nb Sub Nirmal Singh (JC-375193L), 01 Apr 2008	Nb Sub Mohammed NK (JC-375849P), 01 Nov 2008
Nb Sub Buta Singh (JC-375226L), 01 May 2008	Nb Sub Brajesh Kumar (JC-375850K), 01 Nov 2008
Nb Sub Jai Bhagwan (JC-375227N), 01 May 2008	Nb Sub Ram Karan (JC-375851M), 01 Nov 2008
Nb Sub Ram Kishore Sahu (JC-375216F), 01 May 2008	Nb Sub Jangbir (JC-375852P), 01 Nov 2008
Nb Sub Sombir Sharma (JC-375258N), 01 Jun 2008	Nb Sub Suman Kumar (JC-375853X), 01 Dec 2008
Nb Sub Shadi Ram Parjapat (JC-375259W), 01 Jun 2008	Nb Sub Surender Singh (JC-375854A), 01 Dec 2008
Nb Sub Mohinder Singh (JC-375292N), 07 Jun 2008	Nb Sub Kapal Singh (JC-375917X), 01 Jan 2009
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Brajabandhu Mahanty (JC-375918A), 01 Jan 2009
Nb Sub Sudhakaran N (JC-375293W), 01 Jun 2008	Nb Sub Rajender Singh (JC-375919H), 01 Jan 2009
Nb Sub Mammachan TM (JC-375334P), 01 Jun 2008	Nb Sub Zile Singh (JC-375920X), 01 Jan 2009
Nb Sub BK Mahapatra (JC-375366X), 01 Jun 2008	Nb Sub Ved Prakash (JC-375921A), 01 Jan 2009
Nb Sub Radha Krishna Mishra (JC-375368H), 01 Jun 2008	Nb Sub Ram Dev (JC-375922H), 01 Jan 2009
Nb Sub Ajit Kumar Rai (JC-375369L), 01 Jun 2008	Nb Sub Deshmukh Nagorao VR (JC-376030K), 01 Jan 2009
Nb Sub Tara Dutt Sharma (JC-375415P), 01 Jun 2008	Nb Sub Azad Singh (JC-376032P), 01 Jan 2009
Nb Sub Deep Chand Sahu (JC-375417A), 01 Jun 2008	Nb Sub Markandey (JC-376033X), 01 Jan 2009
Nb Sub Mathew PM (JC-375453L), 17 Apr 2009	Nb Sub Shri Bhagwan (JC-376090Y), 01 Jan 2009
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Divakar Prasad Maurya (JC-376091F), 01 Jan 2009
Nb Sub Satyabir Singh (JC-375456Y), 01 Aug 2008	Nb Sub Mitter Dev Thakur (JC-376092K), 01 Feb 2009
Nb Sub Srawan Kumar (JC-375488F), 01 Aug 2008	Nb Sub Chandbir (JC-376093M), 01 Feb 2009
Nb Sub K Bahadur Singh (JC-375489K), 01 Sep 2008	Nb Sub Daya Krishan (JC-376095X), 01 Feb 2009
Nb Sub Mainejar Prasad (JC-375490Y), 01 Sep 2008	Nb Sub Debashis Chatterjee (JC-376099N), 01 Mar 2009
Nb Sub Susanta Kumar Dash (JC-375491F), 01 Sep 2008	Nb Sub Pramod Kumar Sharma (JC-376100X), 01 Mar 2009
Nb Sub Umesh Prasad Singh (JC-375492K), 01 Sep 2008	Nb Sub Dinesh Singh Rawat (JC-376101A), 01 Mar 2009
Nb Sub Satpal Verma (JC-375493M), 01 Sep 2008	Nb Sub Bijay K Mohapatra (JC-376102H), 01 Mar 2009
Nb Sub AN Tripathi (JC-375494P), 01 Sep 2008	Nb Sub Sakadevan B (JC-376103L), 01 Mar 2009
Nb Sub Gangadharan A (JC-375518N), 01 Sep 2008	Nb Sub Kali Ram Yadav (JC-376104N), 01 Mar 2009
Nb Sub BS Karwasra (JC-375520L), 01 Oct 2008	Nb Sub Ashok Kumar Gupta (JC-376105W), 01 Mar 2009
Nb Sub Anand Kumar (JC-375522W), 01 Oct 2008	Nb Sub Pawan Kumar (JC-376188M), 01 Mar 2009
Nb Sub Rajender Singh (JC-375542K), 01 Oct 2008	Nb Sub Ram Autar (JC-376189P), 01 Apr 2009
Nb Sub Rajan VC (JC-375543M), 01 Oct 2008	Nb Sub Shyam Babu Sharma (JC-376190K), 01 Apr 2009
Nb Sub Jai Singh (JC-375544P), 01 Oct 2008	Nb Sub Bachchu Singh Choudhary (JC-376230A), 01 Apr 2009
Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-375764Y), 01 Oct 2008	

Nb Sub Raj Kumar (JC-376231H), 01 Apr 2009
 Nb Sub Saroj Kumar Sharma (JC-376269M), 01 Apr 2009
 Nb Sub Banamali Naik (JC-376265W), 01 Apr 2009
 Nb Sub JS Prasad Raman (JC-376267F), 01 Apr 2009
 Nb Sub Dinesh Kumar (JC-376268K), 01 Apr 2009
 Nb Sub Shiva Kumar (JC-376270F), 01 Apr 2009
 Nb Sub Harish ER (JC-376271K), 01 Apr 2009
 Nb Sub Labh Singh (JC-376337P), 01 Apr 2009
 Nb Sub Om Prakash (JC-376340P), 01 May 2009
 Nb Sub Pushkar Singh Rawat (JC-376341X), 01 May 2009
 Nb Sub Raj Karan (JC-376342A), 01 Jun 2009
 Nb Sub Pavithran V (JC-376358L), 01 Jun 2009
 Nb Sub Brijendra Singh (JC-376359N), 01 Jun 2009
 Nb Sub Jaya Kumar A (JC-376360H), 01 Jun 2009
 Nb Sub RKS Kushwaha (JC-376361L), 01 Jun 2009
 Nb Sub Rajesh Kumar (JC-376362N), 01 Jun 2009

To be Subs Sub (Y of S)

Nb Sub Lukose D (JC-372598L), 01 Mar 2008
 Nb Sub Ved Prakash Sharma (JC-372599N), 12 Mar 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Budra Oraon (JC-372600X), 01 Mar 2008
 Nb Sub Ram Singh (JC-372601A), 01 Mar 2008
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-372602H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Sardar Singh Rawat (JC-372603L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Kalil T (JC-372604N), 01 Apr 2008
 Nb Sub Hira Lal (JC-372605W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Suresh Kumar N (JC-372606Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub Kailash Yadav (JC-372680A), 01 Apr 2008
 Nb Sub Dushasan Parida (JC-372681H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Ram Dhyan Singh (JC-372682L), 12 May 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub K C Jena (JC-372683N), 01 May 2008
 Nb Sub Ramnath Prasad (JC-372723K), 01 Jun 2008
 Nb Sub Dayanand Yadav (JC-372802Y), 01 Jul 2008
 Nb Sub Hardan Rawat (JC-372803F), 01 Aug 2008
 Nb Sub S S Negarkoti (JC-372804K), 01 Aug 2008
 Nb Sub Dilip Sharmah (JC-372805M), 01 Aug 2008

Nb Sub Rajendra Singh (JC-372806P), 01 Aug 2008
 Nb Sub Ajeet Raj (JC-372807X), 17 Aug 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Mahipal Singh (JC-372808A), 01 Sep 2008
 Nb Sub Nahar Singh (JC-372868P), 01 Sep 2008
 Nb Sub Gokaran Singh (JC-372869X), 01 Sep 2008
 Nb Sub Dibakar Sahu (JC-372902K), 01 Sep 2008
 Nb Sub Suresh Chandra Hota (JC-372903M), 01 Sep 2008
 Nb Sub Parashu Ram Sah (JC-372960N), 01 Sep 2008
 Nb Sub Kishan Singh (JC-373034P), 01 Sep 2008
 Nb Sub Dalwinder Singh (JC-373035X), 01 Sep 2008
 Nb Sub Jarnail Singh (JC-373036A), 01 Sep 2008
 Nb Sub Pargat Singh (JC-373037H), 01 Sep 2008
 Nb Sub Binoda Nand Jha (JC-373038L), 01 Sep 2008
 Nb Sub P K Chakraborty (JC-373039N), 01 Sep 2008
 Nb Sub Wazir Singh Siwach (JC-373040H), 01 Sep 2008
 Nb Sub Rajinder Singh (JC-373041L), 01 Sep 2008
 Nb Sub Jay Bhagwan (JC-373042N), 01 Sep 2008
 Nb Sub Omprakash Purohit (JC-373043W), 01 Sep 2008
 Nb Sub Rohitash (JC-373044Y), 01 Sep 2008
 Nb Sub Amrik Singh (JC-373045F), 01 Sep 2008
 Nb Sub Balbir Singh (JC-373046K), 01 Sep 2008
 Nb Sub Jhabbu Singh (JC-373143F), 01 Sep 2008
 Nb Sub Ram Saran (JC-373144K), 01 Sep 2008
 Nb Sub Mehtab Singh (JC-373191F), 01 Oct 2008
 Nb Sub Sher Singh (JC-373192K), 01 Oct 2008
 Nb Sub Nar Singh Awana (JC-373193M), 01 Oct 2008
 Nb Sub S Rama Moorthy (JC-373194P), 01 Oct 2008
 Nb Sub Omkar Singh (JC-373195X), 01 Oct 2008
 Nb Sub Sasi K (JC-373300H), 01 Oct 2008
 Nb Sub M P Singh (JC-373301L), 01 Oct 2008
 Nb Sub Palwinder Singh (JC-373302N), 01 Oct 2008
 Nb Sub Ramesh Chandra Naik (JC-373303W), 01 Oct 2008
 Nb Sub Baldev Singh (JC-373305F), 01 Oct 2008
 Nb Sub Lakhvir Singh (JC-373307M), 01 Oct 2008
 Nb Sub Sarwan Singh (JC-373308P), 01 Oct 2008
 Nb Sub Ram Kishan Yadav (JC-373310M), 01 Oct 2008
 Nb Sub Satyendra (JC-373326X), 01 Oct 2008

Nb Sub ES Narayana Murty (JC-373327A), 01 Oct 2008
 Nb Sub Dayanath Pratihast (JC-373440P), 01 Oct 2008
 Nb Sub Damodar S (JC-373441X), 01 Oct 2008
 Nb Sub Rajender Ram (JC-373442A), 01 Nov 2008
 Nb Sub Chandrakant R K (JC-373443H), 01 Nov 2008
 Nb Sub Raj Pal (JC-373444L), 01 Dec 2008
 Nb Sub C Gnanendriya Rao (JC-373445N), 01 Dec 2008
 Nb Sub K S Joorail (JC-373446W), 01 Jan 2009
 Nb Sub Rama Krishnan Nair B (JC-373447Y), 01 Jan 2009
 Nb Sub Manik Chandra Saikia (JC-373448F), 01 Jan 2009
 Nb Sub Sambarekar PB (JC-373450Y), 27 Jan 2009
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Sunil Dutt (JC-373451F), 01 Mar 2009
 Nb Sub Tej Ram Premi (JC-373452K), 01 Mar 2009
 Nb Sub Soman Nair R (JC-373779H), 01 Mar 2009
 Nb Sub Ravendra Singh (JC-373780X), 01 Mar 2009
 Nb Sub Atish Baboo (JC-373783L), 01 Mar 2009
 Nb Sub Dharam Singh (JC-373784N), 01 Apr 2009
 Nb Sub Jai Singh (JC-373785W), 01 Apr 2009
 Nb Sub Kamala Kanta Mahakud (JC-373786Y), 01 Apr 2009
 Nb Sub K Ashok Chinkuba (JC-373787F), 01 Apr 2009
 Nb Sub Sree Kumar B (JC-373788M), 01 Apr 2009
 Nb Sub Man Singh Baghel (JC-373789M), 01 Apr 2009
 Nb Sub Indramani Sahoo (JC-373790F), 01 Apr 2009
 Nb Sub Harjit Singh (JC-373791K), 01 Apr 2009
 Nb Sub Sunil Kumar (JC-373792M), 01 May 2009
 To be Substantive Subedar (F of S)
 Nb Sub Satheesan N (JC-373106N), 01 Nov 2007
 Nb Sub K C Khanda (JC-373108Y), 01 Nov 2007
 Nb Sub Roop Singh (JC-373113K), 01 Dec 2007
 Nb Sub S Mohmmmed Rarook Z (JC-373114M), 01 Dec 2007
 Nb Sub M Y Srinivasa Rao (JC-373115P), 01 Dec 2007
 Nb Sub Om Prakash (JC-373116X), 01 Dec 2007
 Nb Sub Anil Kumar Pandey (JC-373129P), 07 Mar 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Venugopalan MP (JC-373130K), 01 Mar 2008

Nb Sub Saraswati Prasad (JC-373131M), 01 Mar 2008
 Nb Sub Yashwant Rao M (JC-373132P), 01 Mar 2008
 Nb Sub M Visweswara Reddy (JC-373133X), 01 Mar 2008
 Nb Sub Pradeep Kumar Singh (JC-373134A), 01 Mar 2008
 Nb Sub N P Rao (JC-373136L), 01 Mar 2008
 Nb Sub P K Giri (JC-373137N), 01 Apr 2008
 Nb Sub T Phanibabu (JC-373138W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Naresh Kumar (JC-373139Y), 15 Apr 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Biswajit Nandi (JC-373140N), 01 Apr 2008
 Nb Sub Devendra Singh (JC-373141W), 20 Apr 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Rajendra Kumar (JC-373142Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub Kanickai Raja A (JC-373383Y), 01 May 2008
 Nb Sub Boopalan P (JC-373384F), 01 May 2008
 Nb Sub Sasi Mohanan AV (JC-373385K), 01 May 2008
 Nb Sub Sobaran Lal Sharma (JC-373386M), 01 May 2008
 Nb Sub Subrata Bhowmik (JC-373387P), 01 May 2008
 Nb Sub Devraj Verma (JC-373388X), 01 May 2008
 Nb Sub Harcharan Singh (JC-373389A), 01 May 2008
 Nb Sub Shyamal Kumar Das (JC-373390P), 01 Jun 2008
 Nb Sub Harendra Singh (JC-373391X), 01 Jun 2008
 Nb Sub Mahendra Singh (JC-373392A), 16 Jul 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Thakur Dutt (JC-373393H), 01 Jun 2008
 Nb Sub Narahari Samal (JC-373394L), 01 Jun 2008
 Nb Sub R Rajendran (JC-373395N), 01 Jun 2008
 Nb Sub Lagan Singh Rana (JC-373396W), 01 Jul 2008
 Nb Sub S Narayana Murty (JC-373397Y), 01 Jul 2008
 Nb Sub Patoli Sadashiv B (JC-373398F), 01 Jul 2008
 Nb Sub C M Nair K (JC-373399K), 01 Jul 2008
 Nb Sub Thamban PV (JC-373400N), 01 Jul 2008
 Nb Sub Swaran Deepak (JC-373401W), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ravi Chandran R (JC-373402Y), 17 Jul 2008
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Atul Rajingle (JC-373120A), 01 Aug 2008

Nb Sub Inder Singh Chouhan (JC-373403F), 01 Aug 2008	Nb Sub Dariya Singh (JC-373820N), 01 Sep 2008
Nb Sub Arvind Kumar Singh (JC-373405M), 01 Sep 2008	Nb Sub Sunil Kumar (JC-373821W), 01 Sep 2008
Nb Sub Sanjay Kumar Singh (JC-373406P), 17 Sep 2008	Nb Sub Asim Kumar Das (JC-373822Y), 01 Sep 2008
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Bipin Chand (JC-373823F), 01 Sep 2008
Nb Sub Apurba Kumar Das (JC-373407X), 01 Sep 2008	Nb Sub Vijayan Pillai MJ (JC-373824K), 01 Sep 2008
Nb Sub Mangal Sain (JC-373408A), 01 Sep 2008	Nb Sub Najar Singh (JC-373825N), 01 Sep 2008
Nb Sub Mishal Nagesh B (JC-373409H), 01 Sep 2008	Nb Sub Manmode Vinod MR (JC-373826P), 01 Sep 2008
Nb Sub Sundaran E (JC-373410X), 01 Sep 2008	Nb Sub Dinesh Kumar Sharma (JC-373829H), 01 Sep 2008
Nb Sub N R Harmukh (JC-373411A), 01 Sep 2008	Nb Sub Rajesh Kumar (JC-373830X), 01 Sep 2008
Nb Sub Sunil Narwani (JC-373412H), 01 Sep 2008	Nb Sub Krishna Kant Yadav (JC-373831A), 01 Sep 2008
Nb Sub Nandan Singh Jeena (JC-373413L), 01 Sep 2008	Nb Sub K C Nahak (JC-373832H), 01 Sep 2008
Nb Sub Rama Samy R (JC-373414N), 01 Sep 2008	Nb Sub N John Kennady (JC-373833L), 01 Sep 2008
Nb Sub Rajesh Kumar (JC-373415W), 01 Sep 2008	Nb Sub Dinesh Pratap (JC-373834N), 01 Sep 2008
Nb Sub Awate P D (JC-373416Y), 01 Sep 2008	Nb Sub P Murgan (JC-373835W), 03 Sep 2008
Nb Sub Bata Krushan Behera (JC-373417F), 01 Sep 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Mahabeer Prasad Joshi (JC-373419M), 01 Sep 2008	Nb Sub Kailash Chand (JC-373836Y), 01 Sep 2008
Nb Sub Nirakar Barik (JC-373420F), 01 Sep 2008	Nb Sub Sudhir Kumar (JC-373837F), 03 Oct 2008
Nb Sub Sunil M (JC-373421K), 01 Sep 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Nek Ram Rathore (JC-373422M), 01 Sep 2008	Nb Sub Manmohan Mohapatra (JC-373838K), 01 Sep 2008
Nb Sub Umesh Chandra (JC-373424X), 01 Sep 2008	Nb Sub Pijus Kanti Datta (JC-373839M), 01 Sep 2008
Nb Sub Ranjeet Kumar (JC-373425A), 01 Sep 2008	Nb Sub Anil Kumar K V (JC-373840F), 01 Sep 2008
Nb Sub Jinka Seshadri (JC-373426H), 10 Feb 2009	Nb Sub Jaybhaye Madhukar N (JC-373842M), 01 Oct 2008
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Tika Ram (JC-373843P), 01 Oct 2008
Nb Sub Dinesh Singh (JC-373427L), 01 Sep 2008	Nb Sub Durgesh Yadava (JC-373844X), 17 Oct 2008
Nb Sub M Paul Raj (JC-373808M), 09 Sep 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Shiv Singh (JC-373845A), 01 Oct 2008
Nb Sub Sajeev MP (JC-373809P), 01 Sep 2008	Nb Sub Virender Singh (JC-373846H), 01 Oct 2008
Nb Sub Avachar Ganesh K (JC-373811M), 01 Sep 2008	Nb Sub Avinash Chandra Pant (JC-373847L), 01 Oct 2008
Nb Sub Elengovan N (JC-373812P), 01 Sep 2008	Nb Sub Sunder Lal Sharma (JC-373848N), 01 Oct 2008
Nb Sub B K Jayaswal (JC-373813X), 01 Sep 2008	Nb Sub Krishan Singh (JC-373850L), 01 Oct 2008
Nb Sub Mukesh Kumar Sharma (JC-373814A), 01 Sep 2008	Nb Sub Ram Prakash (JC-373851N), 01 Oct 2008
Nb Sub V Shanmugam (JC-373815H), 01 Sep 2008	Nb Sub Hari Das KS (JC-373852W), 21 Oct 2008
Nb Sub N Kumar Sarangi (JC-373816L), 01 Sep 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Khushi Lal Rajput (JC-373817N), 01 Sep 2008	Nb Sub Virander Kumar (JC-373853Y), 01 Oct 2008
Nb Sub Soneshwer Dev (JC-373818W), 01 Sep 2008	Nb Sub Purushothaman P (JC-373854F), 01 Oct 2008
Nb Sub Rajender Singh (JC-373819Y), 01 Sep 2008	

Nb Sub Girdhari Lal (JC-373855K), 01 Oct 2008	Nb Sub Nitai Pada Sarkar (JC-373896N), 01 Nov 2008
Nb Sub Radha Krishnan PS (JC-373858X), 01 Oct 2008	Nb Sub Vedhaiyan S (JC-373897W), 01 Nov 2008
Nb Sub D C Singh (JC-373859A), 01 Oct 2008	Nb Sub Vijith Kumar KK (JC-373898Y), 01 Nov 2008
Nb Sub Mohd Akram Rather (JC-373860P), 11 Oct 2008	Nb Sub Pedada V Ramana Murthy (JC-373899F), 01 Nov 2008
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Santosh Kumar Pathak (JC-373900L), 01 Nov 2008
Nb Sub Asokan J (JC-373863H), 01 Oct 2008	Nb Sub Nihar Kanti Bala (JC-373901N), 01 Nov 2008
Nb Sub Vijay Kumar (JC-373864L), 01 Oct 2008	Nb Sub Bhagat Ram (JC-373902W), 01 Jan 2009
Nb Sub Amit Banerjee (JC-373865N), 01 Oct 2008	Nb Sub Gajraj Singh (JC-373903Y), 11 Jan 2009
Nb Sub Anil Bose SS (JC-373866W), 01 Oct 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
Nb Sub D S Bisht (JC-373867Y), 01 Oct 2008	Nb Sub Jaga Ram (JC-373905K), 01 Jan 2009
Nb Sub Raghvendra Kumar (JC-373868F), 01 Oct 2008	Nb Sub Makthar Ahmed (JC-374129F), 01 Jan 2009
Nb Sub Rajendra Kumar Sinha (JC-373871F), 01 Oct 2008	Nb Sub Krishan Yadav (JC-374131Y), 01 Feb 2009
Nb Sub D Das Mahapatra (JC-373872K), 01 Oct 2008	Nb Sub Hari Kumar G (JC-374132F), 01 Feb 2009
Nb Sub Kaliraj V (JC-373873M), 01 Oct 2008	Nb Sub Ajith Kumar KS (JC-374133K), 01 Feb 2009
Nb Sub Naresh Kumar (JC-373875X), 01 Oct 2008	Nb Sub Ramesh Chandra Patel (JC-374134M), 01 Feb 2009
Nb Sub Shambhu Thakur (JC-373876A), 01 Oct 2008	Nb Sub M Ramamurthy (JC-374135P), 01 Feb 2009
Nb Sub R S Rawat (JC-373877H), 01 Oct 2008	Nb Sub Sube Singh (JC-374136X), 01 Feb 2009
Nb Sub Rakesh Chandra Dhyani (JC-373878L), 01 Oct 2008	Nb Sub Joshi Praveen J B (JC-374137A), 01 Feb 2009
Nb Sub Ved Vyas (JC-373880H), 01 Oct 2008	Nb Sub Anil Kumar CP (JC-374139L), 01 Apr 2009
Nb Sub Narendra Pal (JC-373881L), 01 Oct 2008	Nb Sub Binay Kumar (JC-374140A), 16 Apr 2009
Nb Sub Jetaram Bishnoi (JC-373882N), 12 Dec 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Rajeevan VK (JC-374141H), 01 Apr 2009
Nb Sub Harish Singh (JC-373883W), 01 Oct 2008	Nb Sub Shyamal Bhowmick (JC-374142L), 18 Apr 2009
Nb Sub Gothai Nathuram R (JC-373884Y), 01 Oct 2008	(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Roshan Singh (JC-373885F), 11 Oct 2008	Nb Sub Hariharan N P (JC-374144W), 01 Apr 2009
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)	Nb Sub R K Yadava (JC-374145Y), 01 Apr 2009
Nb Sub Pradeep Kumar Bishoyi (JC-373886K), 01 Oct 2008	Nb Sub Ram Niwas Singh (JC-374146F), 01 Apr 2009
Nb Sub N S Khetwal (JC-373887M), 01 Oct 2008	Nb Sub RC Lohani (JC-374148M), 01 Apr 2009
Nb Sub T Narayanan (JC-373888P), 01 Oct 2008	Nb Sub P K Jagata Singh (JC-374149P), 01 Apr 2009
Nb Sub Beer Singh Dhami (JC-373889X), 01 Oct 2008	Nb Sub P V S Narayana (JC-374150K), 01 Apr 2009
Nb Sub Ramesh Kumar (JC-373890M), 01 Oct 2008	Nb Sub Prayag Datt (JC-374409P), 01 Apr 2009
Nb Sub Manoj Kumar Singh (JC-373891P), 01 Oct 2008	Nb Sub Pavan Kumar Upadhyay (JC-374411M), 01 Apr 2009
Nb Sub Hirdyanand Tiwari (JC-373892X), 01 Oct 2008	Nb Sub Devendra Kumar (JC-374413X), 01 Apr 2009
Nb Sub Karunakaran B (JC-373893A), 01 Oct 2008	Nb Sub Uttam Kumar Har (JC-374414A), 01 Apr 2009
Nb Sub Ganeshan E (JC-373894H), 01 Nov 2008	

Nb Sub G Chellapandi (JC-374415H), 01 May 2009

Nb Sub Dhaneshwar Satapathy (JC-374416L), 01 May 2009

Nb Sub Patel Rajinikant IL (JC-373861X), 07 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub B T Sinha Mahapatra (JC-374418W), 01 Jun 2009

To be Nb Sub (Y of S)

Hav Pawan Kumar (No. 15381770P now JC-378640P), 01 Jan 2009

Hav MR Singh (No. 15382400F now JC-378641X), 01 Jan 2009

Hav Promod Kumar (No. 15383442A now JC-378642A), 01 Jan 2009

Hav Rajendra Kumar (No. 15382873A now JC-378643H), 01 Jan 2009

Hav Surendran Pillai B (No. 15384292F now JC-378644L), 01 Jan 2009

Hav Rakesh Chandra (No. 15661112A now JC-378645N), 06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jaya Kumar N (No. 15382275H now JC-378646W), 01 Jan 2009

Hav SKS Yadav (No. 15394259X now JC-378647Y), 01 Jan 2009

Hav Vinod C (No. 15384861K now JC-378648F), 01 Jan 2009

Hav Sreevalsan G (No. 15377780F now JC-378649K), 01 Jan 2009

Hav C Baiju (No. 15383070A now JC-378650Y), 01 Jan 2009

Hav Mohan Dangwal (No. 15382380Y now JC-378651F), 01 Jan 2009

Hav Rohit Verma (No. 15398034M now JC-378652K), 01 Jan 2009

Hav Satyendra Singh (No. 15384039A now JC-378653M), 01 Jan 2009

Hav R Ganapathy (No. 15380039H now JC-378654P), 01 Jan 2009

Hav SS Gupta (No. 15381879P now JC-378655X), 06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav J Vivekananthan (No. 15386758X now JC-378656A), 14 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Pandey (No. 15394820N now JC-378657H), 01 Jan 2009

Hav Bhola Pandit (No. 15375568L now JC-378658L), 01 Jan 2009

Hav Biplab Acharya (No. 15386768F now JC-378659N), 01 Jan 2009

Hav NS Khetwal (No. 15375336M now JC-378660H), 06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav AK Bhuyan (No. 15382813L now JC-378821A), 18 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav BS Kashi Ram (No. 15386490L now JC-378822H), 01 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (FOS)

Hav Samit Pal (No. 15377421N now JC-377394H), 02 Jul 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh (No. 15370450A now JC-377461H), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Nijay Kumar Singh (No. 15392582N now JC-377463N), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Nandan Singh (No. 15385000A now JC-377464W), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav A Sailu (No. 15370879P now JC-377465Y), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar Singh (No. 15372144K now JC-377467K), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Pawar DA (No. 15384788W now JC-377472P),
01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 15383459N now JC-377473X),
01 Jul 2007

Hav PS Sadashiv (No. 15390101X now JC-377475H),
01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Jaswant Singh (No. 15397679H now JC-377476L),
01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007
without effect on pay and allowances)

Hav R Senthil Kumar N (No. 15375301W now
JC-377487X), 01 Sep 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 15376418F now JC-377782A),
01 Jan 2008

Hav Somnath Samanta (No. 15370796K now JC-377783H),
01 Jan 2008

Hav A Esakkiappan (No. 15371436A now JC-377789K),
10 Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Prakash Pandey (No. 15383127K now
JC-378295M), 22 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav TS Rao (No. 15377766P now JC-378416H), 01 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav HN Chauhan (No. 15377577L now JC-378430P),
01 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 15397156K now JC-378431X),
01 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav S Kundu (No. 15385576X now JC-378433H), 01 Sep
2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Jaydeb Ghosh (No. 15378048L now JC-378662N),
01 Jan 2009

Hav Devendra Kumar (No. 15389462K now JC-378663W),
01 Jan 2009

Hav Saroj Kumar Gupta (No. 15371936X now JC-378664Y),
01 Jan 2009

Hav Pradeep Kumar (No. 15387510A now JC-378665F),
01 Jan 2009

Hav Mahipal Singh (No. 15394671L now JC-378666K),
01 Jan 2009

Hav Vinod Kumar (No. 15386540L now JC-378667M),
01 Jan 2009

Hav Umesh Chand (No. 15372007L now JC-378668P), 08 Jan
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav R Selvaraj (No. 15390485X now JC-378669X), 11 Jan
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Mritunjay Sharma (No. 15375971X now JC-378670M),
01 Jan 2009

Hav AK Singh (No. 15397486H now JC-378672X), 01 Jan
2009

Hav Anoop Kumar (No. 15376178P now JC-378673A),
01 Jan 2009

Hav PK Kaushik (No. 15376330X now JC-378674H),
01 Jan 2009

Hav MK Tripathi (No. 15377003Y now JC-378675L),
01 Jan 2009

Hav Ajai Pal Singh (No. 15396833K now JC-378676N),
01 Jan 2009

Hav Krishna Bahadur Rai (No. 15357057F now
JC-378677W), 01 Jan 2009

Hav Rajput Sajan Singh R (No. 15393065H now
JC-378678Y), 01 Jan 2009

Hav Sunil Kumar VC (No. 15374727L now JC-378679F),
01 Jan 2009

Hav Puspendu Nanda (No. 15395997N now JC-378680W),
01 Jan 2009

Hav Ram Kishor (No. 15394257M now JC-378681Y),
01 Jan 2009

Hav MD Ajmuddin (No. 15371334K now JC-378682F),
29 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav JS Kushwah (No. 15392616W now JC-378683K),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Amamath Tripathi (No. 15374499N now JC-378684M),
01 Jan 2009

Hav Mahadevappa Adaki (No. 15397477F now
JC-378685P), 01 Jan 2009

Hav Surinder Pal Singh (No. 15398290F now JC-378686X),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sukhdev Singh (No. 15399618K now JC-378687A),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 15379051X now JC-378688H),
01 Jan 2009

Hav Vivek Ponnanna (No. 15661053Y now JC-378689L),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Ranbeer Singh (No. 15662954X now JC-378690A),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav N Saravanan (No. 15372029K now JC-378691H),
01 Jan 2009

Hav Sudheer Kumar (No. 15398459L now JC-378692L),
01 Jan 2009

Hav Gurbhej Singh (No. 15396839L now JC-378693N),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Manoj PV (No. 15373488P now JC-378694W), 06 Jan
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Susanta Kumar Rano (No. 15378062X now
JC-378695Y), 01 Jan 2009

Hav B Rajanna (No. 15662879Y now JC-378696F), 06 Jan
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Ajeet Kumar Singh (No. 15395899N now JC-378697K),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sunil Kumar Istwal (No. 15397757P now JC-378698M),
06 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav BC Das (No. 15395807W now JC-378699P), 06 Jan
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Bola Ram Joshi (No. 15362406F now JC-378823L), 06
Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav VK Singh (No. 15379259A now JC-378824N), 01 Mar
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav Kaushal Kumar Singh (No. 14246818N now
JC-376848Y), 01 Oct 2006

Hav Giridhari Singh (No. 15350373P now JC-376851Y),
01 Oct 2006

Hav Sujit Kumar Debnath (No. 14245586N now
JC-376852F), 01 Oct 2006

Hav JP Gupta (No. 14257707W now JC-376854M), 10 Oct
2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006
without effect on pay and allowances)

Hav BC Bhandari (No. 14256907A now JC-376855P),
01 Oct 2006

Hav Gurnam Singh (No. 14262576A now JC-376857A),
11 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Ashish Ram (No. 14260434K now JC-376859L),
17 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Sunil Kumar Singh (No. 14258390Y now JC-376861H),
12 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra Pal Singh (No. 14262619K now JC-376863N),
09 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Ghosh (No. 14254454F now JC-376864W), 01 Oct 2006

Hav Man Mohan Tickoo (No. 14249093K now JC-376866F), 01 Oct 2006

Hav Uttam Kumar Mallick (No. 14261077Y now JC-376881W), 24 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Tukheshwar Gogoi (No. 14250768L now JC-376882Y), 01 Oct 2006

Hav Manjit Singh (No. 14250330P now JC-376883F), 01 Oct 2006

Hav Ram Sajiwan Mishra (No. 14248191X now JC-376884K), 11 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjan Kumar (No. 14267866F now JC-377016K), 01 Jan 2007

Hav Dhan Singh (No. 14250433N now JC-377255Y), 01 Apr 2007

Hav Kirti Singh (No. 14253841K now JC-377342M), 01 Jun 2007

Hav SK Tripathi (No. 14250753H now JC-377354F), 01 Jun 2007

Hav Sambhu Prasad (No. 14256800L now JC-377402W), 01 Jul 2007

Hav Siva Sankar C (No. 14253556L now JC-377411X), 02 Jul 2007

Hav Ram Chandra Singh (No. 14248996P now JC-377419K), 02 Jul 2007

Hav Lal Singh Adhikari (No. 14254092L now JC-377420Y), 02 Jul 2007

Hav Ram Lal Pandit (No. 14250873F now JC-377425X), 02 Jul 2007

Hav DB Amba Das (No. 14262757L now JC-377427H), 02 Jul 2007

Hav Babu Lal (No. 14250386F now JC-377429N), 02 Jul 2007

Hav Shiv Shankar Singh (No. 14243486K now JC-377496Y), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Singh (No. 14256531K now JC-377498K), 01 Aug 2007

Hav Arvind Kumar Singh (No. 14258043A now JC-377499M), 01 Aug 2007

Hav R Sivaji (No. 14258513A now JC-377501Y), 01 Aug 2007

Hav Rajesh Kumar Singh (No. 14267425L now JC-377502F), 01 Aug 2007

Hav BL Singh (No. 14264479F now JC-377503K), 01 Aug 2007

Hav Shio Lal Singh (No. 14265931X now JC-377504M), 01 Aug 2007

Hav Sunil (No. 14264630F now JC-377505P), 01 Aug 2007

Hav Ramji Lal Jat (No. 14264143F now JC-377506X), 01 Aug 2007

Hav Bajrang Lal (No. 14264042N now JC-377507A), 01 Aug 2007

Hav Ashwani Kumar (No. 14265581W now JC-377508H), 01 Aug 2007

Hav Tarsem Singh (No. 14265646Y now JC-377509L), 01 Aug 2007

Hav RK Tripathi (No. 14251998L now JC-377510A), 01 Aug 2007

Hav Rakesh Singh (No. 14251954N now JC-377511H), 01 Aug 2007

Hav Shyamvir (No. 14252329Y now JC-377512L), 01 Aug 2007

Hav Ganesh Chandra Bhatt (No. 14267927N now JC-377513N), 01 Aug 2007

Hav Yash Pal Singh (No. 14252527N now JC-377514W), 01 Aug 2007

Hav Shishu Pal (No. 14247966L now JC-377516F), 01 Aug 2007

Hav Brajadhan Singha (No. 14249990H now JC-377599X), 01 Oct 2007

Hav Madan Prasad (No. 14247065Y now JC-377651P), 01 Nov 2007

Hav P Moorthy (No. 14262232F now JC-377654H), 01 Nov 2007

Hav Mahavir Singh (No. 14251800F now JC-377673N), 01 Nov 2007

Hav P Murugan (No. 14264167L now JC-377742Y), 01 Dec 2007

Hav Raju B (No. 14267050X now JC-377747X), 01 Dec 2007

Hav Ajayan R (No. 14269786H now JC-377751A), 10 Dec 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Shishpal Singh (No. 14251141X now JC-377754N),
01 Dec 2007

Hav MN Pattanaik (No. 14253375A now JC-377760F),
01 Dec 2007

Hav Velovolu Anandaiah (No. 14251608X now
JC-377764X), 06 Dec 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Ranjit Singh (No. 14251713N now JC-377766H),
01 Dec 2007

Hav Naresh (No. 14255974Y now JC-377838F), 01 Jan
2008

Hav Unnikrishnan K (No. 14269305L now JC-377848L),
01 Jan 2008

Hav Davinder Singh (No. 3382812Y now JC-377854Y),
01 Jan 2008

Hav Kamble Arun Ram Rao (No. 14255402X now
JC-377856K), 12 Jan 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kanai Lal Das (No. 14255807H now JC-377858P),
01 Jan 2008

Hav Om Prakash Sharma (No. 14257087L now
JC-377862X), 16 Jan 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh (No. 14251726L now JC-377864H),
01 Jan 2008

Hav Bhim Singh (No. 14252377Y now JC-377865L), 01 Jan
2008

Hav Ashwani Kumar (No. 14257793M now JC-377873K),
01 Jan 2008

Hav Kulvir Singh (No. 3383377F now JC-377879L), 01 Jan
2008

Hav MP Singh (No. 14258413P now JC-377880A), 01 Jan
2008

Hav Manikantan Pillai J (No. 14265806N now JC-377882L),
01 Jan 2008

Hav Sidheswar N Singh (No. 14268084X now JC-377886F),
01 Jan 2008

Hav Halachal Prasad (No. 14246568X now JC-377836W),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Partap Singh (No. 14251760L now JC-377845X),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Syed Md Ale Nowaj (No. 14253178X now
JC-377847H), 01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Raghunadhan M (No. 14268772W now JC-377866N),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Shamsheer Singh (No. 14255653F now JC-377872F),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Nath Yadav (No. 14257267N now
JC-377874M), 01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Jag Roop Singh (No. 14257406M now JC-377878H),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Utpal Koner (No. 14267345N now JC-377889P),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Jagan Kishor Sharma (No. 14267528K now
JC-377937K), 01 Feb 2008

Hav UHH Sankara Reddy (No. 14267946Y now
JC-377938M), 01 Feb 2008

Hav Ishwar Singh (No. 14268833H now JC-377939P),
01 Feb 2008

Hav Raveendran Nair G (No. 14265036M now
JC-377940K), 01 Feb 2008

Hav BB Pandey (No. 14267845L now JC-377941M),
01 Feb 2008

Hav D Zulfikar Ali Bhutto (No. 14251407Y now
JC-377942P), 01 Feb 2008

Hav Ranjodh Singh (No. 14266113H now JC-377943X),
01 Feb 2008

Hav Suresh CS (No. 14248666W now JC-377944A), 01 Feb
2008

Hav Md Amir Ali (No. 14259376Y now JC-377945H), 01 Feb
2008

Hav Surjit Ram (No. 14262687X now JC-377946L), 01 Feb
2008

Hav Ram Chander (No. 14248615H now JC-377947N),
01 Feb 2008

Hav KH Ramendra Singha (No. 14252179N now
JC-377948W), 01 Feb 2008

Hav Ganesh Prasad (No. 14264648X now JC-377949Y),
01 Feb 2008

Hav Gireesh Kumar J (No. 14268060N now JC-377950N),
01 Feb 2008

Hav Rajesh Kumar Sharma (No. 14268134X now JC-377951W), 01 Feb 2008

Hav Umesh Sharma (No. 14268433W now JC-377952Y),
01 Feb 2008

Hav Rotash Singh (No. 13886187A now JC-377953F),
05 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Gajendra Singh (No. 14264022A now JC-377954K),
01 Feb 2008

Hav Bimal Kumar Singh (No. 14261646N now JC-377955M), 01 Feb 2008

Hav Ashok Kumar (No. 14263787P now JC-377956P),
01 Feb 2008

Hav Mukesh Kumar Sharma (No. 14267877N now JC-377957X), 01 Feb 2008

Hav Navin Kumar Varma (No. 14258382A now JC-377958A), 01 Feb 2008

Hav Mukesh Kumar (No. 14264821W now JC-377959H),
01 Feb 2008

Hav Chandan Singh (No. 14252909N now JC-377960X),
01 Feb 2008

Hav Mahavir Singh (No. 14248035K now JC-377962H),
01 Feb 2008

Hav Ram Datt (No. 14248183Y now JC-377963L), 01 Feb
2008

Hav Pratap Singh (No. 14250482W now JC-377964N),
01 Feb 2008

Hav Moti Lal Sah (No. 14256667N now JC-377965W),
01 Feb 2008

Hav Sunil Joseph (No. 14260812X now JC-377966Y),
01 Feb 2008

Hav GK Pillai C (No. 14254585M now JC-377967F),
01 Feb 2008

Hav H Umananda Meetei (No. 14250562N now JC-377968K), 01 Feb 2008

Hav M Govind Rao Kadam (No. 14251891W now JC-377969M), 01 Feb 2008

Hav T Balaji (No. 14252205K now JC-377961A), 01 Mar
2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chand (No. 14254284H now JC-378003Y),
01 Mar 2008

Hav Sher Singh (No. 14254513H now JC-378004F),
01 Mar 2008

Hav Vireswar Misra (No. 14254518F now JC-378005K),
01 Mar 2008

Hav Susendra Gohain (No. 14254278P now JC-378006M),
01 Mar 2008

Hav Subhash Chand (No. 14254534Y now JC-378007P),
10 Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Sunder (No. 14252848F now JC-378008X),
01 Mar 2008

Hav Ramadhar Kairi (No. 14254682K now JC-378009A),
01 Mar 2008

Hav Vinod Kumar (No. 14254855W now JC-378010P),
01 Mar 2008

Hav PD Shankar (No. 14254903L now JC-378011X),
01 Mar 2008

Hav Satyavir (No. 14254995H now JC-378012A), 01 Mar
2008

Hav Vipin Parkash (No. 14254998W now JC-378013H),
01 Mar 2008

Hav Joginder Pal (No. 14255034N now JC-378014L),
01 Mar 2008

Hav Rup Chand (No. 14255286A now JC-378015N),
01 Mar 2008

Hav Ramesh Chand (No. 14255297M now JC-378016W),
01 Mar 2008

Hav Babban Yadav (No. 14257313X now JC-378017Y),
01 Mar 2008

Hav Yudhvair Singh (No. 14255372L now JC-378018F),
01 Mar 2008

Hav Brij Lal (No. 14255216F now JC-378019K), 01 Mar
2008

Hav Jaswant Singh (No. 14255462M now JC-378020Y),
01 Mar 2008

Hav Unnikrishna Kurup P (No. 14255519W now JC-378021F), 01 Mar 2008

Hav Anil Kumar Singh (No. 14255530P now JC-378022K),
16 Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Birender Pandit (No. 14255561P now JC-378023M),
01 Mar 2008

Hav Ashwini Kumar Pandey (No. 14255571Y now JC-378024P), 11 Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav J K Pandey (No. 14255845Y now JC-378025X), 01 Mar 2008

Hav Shivaji (No. 14251310N now JC-378026A), 01 Mar 2008

Hav Jayamohana Kurup S (No. 14262720K now JC-378027H), 01 Mar 2008

Hav Ambika Yadav (No. 14253536X now JC-378028L), 01 Mar 2008

Hav Babu PM (No. 14265220X now JC-378147F), 01 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Jitendra Bahadur Singh (No. 15689729M now JC-378031L), 01 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Karnail Singh (No. 14267012F now JC-378089H), 01 Apr 2008

Hav KV Siva Hanumaiah (No. 14251442F now JC-378090X), 01 Apr 2008

Hav Manoj Kumar (No. 14255982X now JC-378091A), 01 Apr 2008

Hav Sahib Singh (No. 14256649L now JC-378092H), 01 Apr 2008

Hav Lakhwinder Singh (No. 14263739P now JC-378093L), 02 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Diwakar Pant (No. 14265235A now JC-378094N), 01 Apr 2008

Hav Shiv Raj Singh (No. 14248121Y now JC-378095W), 01 Apr 2008

Hav Shyama Singh Yadav (No. 14253321Y now JC-378096Y), 01 Apr 2008

Hav Sree Kumar R (No. 14268678M now JC-378097F), 01 Apr 2008

Hav P Arul Das (No. 14264768W now JC-378098K), 01 Apr 2008

Hav Mohan Kumar Singh (No. 14252994M now JC-378099M), 01 Apr 2008

Hav Vidyanand Singh (No. 14255317P now JC-378100W), 01 Apr 2008

Hav Jai Prakash (No. 14264832H now JC-378101Y), 01 Apr 2008

Hav Gudla Ramesh Kumar (No. 14267493Y now JC-378102F), 24 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Birender Prasad Singh (No. 14248067W now JC-378103K), 01 Apr 2008

Hav Arun Kumar Singh (No. 14260806K now JC-378104M), 01 Apr 2008

Hav Raja Sekharan B (No. 14267043F now JC-378105P), 01 Apr 2008

Hav Gajendra Kumar Mishra (No. 14267730X now JC-378106X), 01 Apr 2008

Hav BP Rajamani Naidu (No. 14267490L now JC-378107A), 01 Apr 2008

Hav Amara Ram (No. 14267567H now JC-378108H), 01 Apr 2008

Hav Ras Bihari Ojha (No. 14268364L now JC-378109L), 01 Apr 2008

Hav VP Suresh Matabadal (No. 14250320L now JC-378110A), 01 Apr 2008

Hav Binod Prasad Kuswaha (No. 14251728W now JC-378111H), 01 Apr 2008

Hav Jagat Singh (No. 14258440Y now JC-378112L), 01 Apr 2008

Hav A Haridas (No. 14251414P now JC-378113N), 01 Apr 2008

Hav DK Pathak (No. 14251408F now JC-378114W), 01 Apr 2008

Hav Anjani Kumar (No. 14266450X now JC-378115Y), 01 Apr 2008

Hav Pradip Kumar (No. 14262578L now JC-378116F), 01 Apr 2008

Hav Shyam Sunder Prasad (No. 14253049X now JC-378117K), 01 Apr 2008

Hav Vir Singh (No. 14254905W now JC-378118M), 01 Apr 2008

Hav Raghuveer Singh (No. 14258093L now JC-378119P), 01 Apr 2008

Hav Bhartri (No. 14252845N now JC-378120K), 01 Apr 2008

Hav AP Azad (No. 14251733F now JC-378121M), 01 Apr 2008

Hav Keshab Singh (No. 14255720F now JC-378122P), 01 Apr 2008

Hav Barmeshwar Chauhan (No. 14264733A now JC-378123X), 01 Apr 2008

Hav J Yashwant Chandru (No. 14269024P now JC-378124A), 01 Apr 2008

Hav GH N Lone (No. 14250818L now JC-378125H), 01 Apr 2008

Hav Pushparajan T (No. 14266946M now JC-378126L), 01 Apr 2008

Hav Rajesh Kumar (No. 14254373F now JC-378127N), 01 Apr 2008

Hav Lakhwinder Singh (No. 3383324H now JC-378129Y), 01 Apr 2008

Hav Manjit Singh (No. 14265166P now JC-378130N), 01 Apr 2008

Hav Ranjit Kumar Baruah (No. 14267339A now JC-378131W), 01 Apr 2008

Hav Sri Indrapal Mishra (No. 14267872P now JC-378132Y), 01 Apr 2008

Hav Sudersan Babu KG (No. 14250296A now JC-378133F), 01 Apr 2008

Hav Goutam Ghosh (No. 14267159X now JC-378134K), 01 Apr 2008

Hav MD Manjer Alam (No. 14268430H now JC-378135M), 01 Apr 2008

Hav Prabhat Singh (No. 14254098M now JC-378136P), 01 Apr 2008

Hav Ram Prasad Ray (No. 15352565M now JC-378137X), 01 Apr 2008

Hav Mohana Rajan R (No. 14261546W now JC-378138A), 19 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rama Shanker (No. 14249660F now JC-378139H), 01 Apr 2008

Hav Tarkeshwar Kumar (No. 14249675K now JC-378140X), 01 Apr 2008

Hav Suresh Kumar (No. 14246926X now JC-378141A), 07 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rajveer Singh (No. 14252049L now JC-378142H), 01 Apr 2008

Hav JP Tripathi (No. 14253983F now JC-378143L), 01 Apr 2008

Hav Bindeshwari Prasad (No. 14248019W now JC-378144N), 01 Apr 2008

Hav Umashankar Singh (No. 14253864L now JC-378145W), 01 Apr 2008

Hav Jagdish Pooniya (No. 14250551F now JC-378146Y), 01 Apr 2008

Hav Rahul Singh (No. 15678011H now JC-378199X), 08 May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Sarath Chandran PS (No. 15687365M now JC-378200F), 12 May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav KDR Ganga Ram (No. 14254224N now JC-378128W), 02 May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav PRS Yadav (No. 14254713Y now JC-378162W), 01 May 2008

Hav Ashit Kumar Mallick (No. 14248061P now JC-378163Y), 01 May 2008

Hav Jai Karan (No. 14254868N now JC-378164F), 01 May 2008

Hav J Singh Yadav (No. 14265903X now JC-378165K), 01 May 2008

Hav Ved Prakash (No. 14254515N now JC-378166M), 01 May 2008

Hav AK Pandey (No. 14254647F now JC-378167P), 01 May 2008

Hav Ram Dhan (No. 14250509H now JC-378168X), 01 May 2008

Hav Jagbir Singh (No. 14250782X now JC-378169A), 01 May 2008

Hav Giridhar Singh (No. 14251171P now JC-378170P), 01 May 2008

Hav Ganesh Mishra (No. 14255222P now JC-378171X), 01 May 2008

Hav Harendra Kumar Singh (No. 14250674N now JC-378172A), 01 May 2008

Hav Dipen Das (No. 14255567W now JC-378173H), 01 May 2008

Hav RP Chaudhri (No. 14252482P now JC-378174L), 01 May 2008

Hav Bhup Singh (No. 14255229Y now JC-378175N), 01 May 2008

Hav Rambeer Singh (No. 14257497F now JC-378177Y), 02 May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav SS Singh Yadav (No. 14258829F now JC-378178F),
01 May 2008

Hav Kuldip Singh (No. 14259921X now JC-378179K),
01 May 2008

Hav Jitul Saikia (No. 14259927Y now JC-378180Y), 01 May
2008

Hav Raj Pal (No. 14260134H now JC-378181F), 01 May
2008

Hav NS Kanwal (No. 14256546M now JC-378182K),
03 May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav VS Yadav (No. 14260982A now JC-378183M),
01 May 2008

Hav SP Yadav (No. 14259801Y now JC-378184F), 01 May
2008

Hav Chandra Shekher (No. 14260572L now JC-378185X),
01 May 2008

Hav AK Chakravorty (No. 14262266P now JC-378186A),
01 May 2008

Hav Dhian Chand (No. 14263102L now JC-378187H),
01 May 2008

Hav Jawahir (No. 14263049L now JC-378188L), 01 May
2008

Hav Ramesh Chander (No. 14263505L now JC-378189N),
01 May 2008

Hav Gawas Kailas Ganu (No. 14263525X now JC-
378190H), 01 May 2008

Hav BS Dattatraya (No. 14263898M now JC-378191L),
01 May 2008

Hav Raj Kumar Patlra (No. 14261246P now JC-378192N),
01 May 2008

Hav Jyoti Swaroop (No. 14261150M now JC-378193W),
01 May 2008

Hav Hari Chand (No. 14256119W now JC-378194Y),
01 May 2008

Hav Balvinder Singh (No. 14257999K now JC-378195F),
01 May 2008

Hav Kanhaiya Lal Kumhar (No. 14264735L now JC-
378196K), 01 May 2008

Hav Bhoolan Singh Sharma (No. 14264862A now JC-
378197M), 19 May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 14247925F now JC-
378198P), 01 May 2008

Hav Udaya Kumar AP (No. 14257788F now JC-378176W),
11 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jawahar Lal Tiwari (No. 14250201P now JC-378253A),
01 Jun 2008

Hav VS Mishra (No. 14262396X now JC-378254H),
01 Jun 2008

Hav Rama Kant Rajput (No. 14264965P now JC-378255L),
01 Jun 2008

Hav Rama Kant Sharma (No. 14265377X now JC-378256N),
06 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Deo Sharan (No. 14264629M now JC-378257W),
01 Jun 2008

Hav RS Runge (No. 14251842N now JC-378258Y), 25 Jun
2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav S Singh Shisodia (No. 14269553F now JC-378259F),
08 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Satbir Singh (No. 14254808Y now JC-378260W),
02 Jun 2008

Hav Govinda Rajan S (No. 14267492W now JC-378261Y),
22 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav KA Kamanche (No. 14250556A now JC-378262F),
02 Jun 2008

Hav RS Bisht (No. 14249593F now JC-378263K), 02 Jun
2008

Hav BS Bisht (No. 14257289N now JC-378264M), 02 Jun
2008

Hav Om Prakash (No. 14264361X now JC-378265P),
11 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Pal Singh (No. 14256175P now JC-378266X),
02 Jun 2008

Hav Shiv Ram (No. 14256181H now JC-378267A), 02 Jun
2008

Hav DK Sahoo (No. 14266942W now JC-378268H),
02 Jun 2008

Hav R Vijaya Raj (No. 14267368P now JC-378269L),
12 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Sada Ram (No. 14264848N now JC-378270A),
02 Jun 2008

Hav Ram Pujan Dubey (No. 13889731P now JC-378271H),
02 Jun 2008

Hav Sharuti Kant (No. 14250545N now JC-378272L),
02 Jun 2008

Hav Rajbir Singh (No. 14256591Y now JC-378273N),
02 Jun 2008

Hav G Sounder Raj (No. 14258511P now JC-378274W),
02 Jun 2008

Hav Shiv Charan (No. 14263886X now JC-378275Y), 02 Jun
2008

Hav SK Mohan Singha (No. 14262422N now JC-378276F),
02 Jun 2008

Hav Ramesh Chandra (No. 14263109P now JC-378277K),
02 Jun 2008

Hav Gyanendra Kumar (No. 14246927A now JC-378278M),
02 Jun 2008

Hav Om Prakash (No. 14251027A now JC-378279P), 02 Jun
2008

Hav Prakash Chandra (No. 14267938A now JC-378280K),
02 Jun 2008

Hav Narender S Waldia (No. 14265679K now JC-
378281M), 02 Jun 2008

Hav Kamlesh Kumar Ray (No. 14251236X now JC-
378282P), 02 Jun 2008

Hav Chandar Singh Dudi (No. 14259412Y now JC-
378283X), 02 Jun 2008

Hav Hari Nandan Prasad (No. 14259397P now JC-
378284A), 02 Jun 2008

Hav Shiv Kumar Sharma (No. 14254441K now JC-
378285H), 12 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Nehar Uddin Ahmed (No. 14266242H now JC-
378286L), 02 Jun 2008

Hav Ram Prasad (No. 14263509F now JC-378287N), 02 Jun
2008

Hav Satendra Singh (No. 14263696L now JC-378288W),
02 Jun 2008

Hav Santar Pal (No. 14264879N now JC-378289Y), 02 Jun
2008

Hav Gyan Singh (No. 14248986L now JC-378369W),
01 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2007 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Bahadur Yadav (No. 14262453N now
JC-378370L), 01 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Nizarudeen M (No. 14248508F now JC-378325Y),
01 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Hav M Pillai T (No. 14265810W now JC-378326F), 01 Jul
2008

Hav Ram Swaroop Rathore (No. 14266309W now
JC-378327K), 01 Jul 2008

Hav Mritunjay Rai (No. 13886564L now JC-378328M),
01 Jul 2008

Hav Ravindra Nath Dubey (No. 14251719P now
JC-378329P), 01 Jul 2008

Hav Kamlesh Kumar Singh (No. 14258993P now
JC-378331M), 01 Jul 2008

Hav KK Dekaraja (No. 14247951H now JC-378332P),
01 Jul 2008

Hav Keshava Chouhan (No. 14260029M now
JC-378333X), 11 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Jai Chand (No. 14266665W now JC-378334A), 01 Jul
2008

Hav Santosh Ghosh (No. 14248331Y now JC-378335H),
01 Jul 2008

Hav Zacharia I (No. 14264525L now JC-378330K), 11 Aug
2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Vijaya Kumar P (No. 14401347H now JC-273390A),
12 Mar 2009/01 Oct 2008*

Hav P Pandi (No. 15109754X now JC-273391H), 18 Apr
2009/22 Nov 2008*

Hav I Victor Sahayaraj (No. 14418082A now JC-273392L),
11 Apr 2009/30 Nov 2008*

Hav Muraledharan P (No. 14378513W now JC-273393N),
28 Mar 2009/01 Dec 2008*

Hav Vinod Kumar Minhas (No. 14401119A now JC-
273394W), 12 Mar 2009/01 Dec 2008*

Hav Mahesh Chandra (No. 14397939M now JC-273395Y),
18 Apr 2009/01 Jan 2009*

Hav Niranjan Jena (No. 14497295M now JC-273396F),
16 Mar 2009/04 Jan 2009*

Hav Shashi Prakash Pandey (No. 14400855M now JC-273397K), 11 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Vijay Singh (No. 14395838A now JC-273398M),
07 Apr 2009/16 Feb 2009*

Hav Pritam Kumar Sharma (No. 14395716W now JC-273399P), 21 Mar 2009/26 Feb 2009*

Hav Satvir (No. 14495627M now JC-273400Y), 31 Mar
2009/01 Mar 2009*

Hav Sukhbir Singh (No. 15114158P now JC-273401F),
21 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Lakhvinder Singh (No. 15111540A now JC-273402K),
19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Ravichandran T (No. 15108312M now JC-273403M),
10 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Raju Singh Yadava (No. 14401588H now JC-273404P),
01 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Chhatar Singh (No. 14497582W now JC-273405X),
13 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Kashmir Singh (No. 15106905A now JC-273406A),
15 Apr 2009/02 Aug 2008*

Hav Sukhwant Singh (No. 15109782K now JC-273407H),
20 Apr 2009/01 Oct 2008*

Hav Jai Singh (No. 14395223P now JC-273408L), 10 Apr
2009/01 Nov 2008*

Hav Vikram Singh Lagwal (No. 14409632W now JC-273409N), 17 Apr 2009/01 Nov 2008*

Hav Atish Dipankar Sarkar (No. 14409833P now JC-273410H), 17 Apr 2009/22 Nov 2008*

Hav Tarlochan Singh (No. 14400604H now JC-273411L),
22 Apr 2009/01 Jan 2009*

Hav Surender Kumar (No. 14388080X now JC-273412N),
25 Apr 2009/01 Feb 2009*

Hav Brajesh Kumar Asati (No. 14404903Y now JC-273413W), 21 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav Alex G (No. 14487606F now JC-273414Y), 01 May
2009/01 Feb 2009*

Hav Dilip Kumar Dwivedi (No. 14372348A now JC-273415F), 19 Apr 2009/01 Feb 2009*

Hav Pradeep B (No. 14408526L now JC-273416K), 25 Apr
2009/01 Feb 2009*

Hav Lakhwinder Singh (No. 15108686H now JC-273417M),
25 Apr 2009/23 Feb 2009*

Hav Govind Singh (No. 14392304K now JC-273418P),
03 May 2009/01 Mar 2009*

Hav Rajinder Singh (No. 14400730P now JC-273419X),
22 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Mahadev Prasad Yadav (No. 14392109M now JC-273420M), 21 Apr 2009/23 Mar 2009*

Hav Ved Prakash (No. 15108167A now JC-273421P),
01 Apr 2009

Hav Madhu Kumar PS (No. 14386697P now JC-273325A),
16 Feb 2009/31 Aug 2008*

Hav Shivji Mishra (No. 14490425F now JC-273326H),
20 Feb 2009/01 Nov 2008*

Hav Manoj Kumar K (No. 14402652F now JC-273327L),
17 Feb 2009/22 Nov 2008*

Hav Paras Nath Singh Yadav (No. 14497639A now JC-273328N), 02 Mar 2009/22 Nov 2008*

Hav M Rajendran (No. 15107846L now JC-273329W),
16 Feb 2009/30 Nov 2008*

Hav K Manickam (No. 14496772W now JC-273330L),
20 Feb 2009/01 Dec 2008*

Hav Kulwant Singh (No. 14496579K now JC-273331N),
19 Feb 2009/01 Dec 2008*

Hav Shree Om (No. 15104568X now JC-273332W),
02 Mar 2009/10 Dec 2008*

Hav K Rama Murthy (No. 14393879L now JC-273333Y),
21 Mar 2009/27 Jan 2009*

Hav Surjit Singh (No. 14387088X now JC-273334F),
27 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Balay Singh (No. 15116214F now JC-273335K),
03 Apr 2009/03 Feb 2009*

Hav Jobi Joseph (No. 14407157M now JC-273336M),
03 Mar 2009/04 Feb 2009*

Hav Sukhchain Singh (No. 14387862F now JC-273337P),
26 Feb 2009/05 Feb 2009*

Hav Balwinder Singh (No. 15106217F now JC-273338X),
18 Feb 2009

Hav Chouhan Jagdamba Singh (No. 14404057W now JC-273339A), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Bharat Kumar (No. 14385829L now JC-273340P),
01 Apr 2009

Hav Kewal Krishan (No. 15108186L now JC-273341X),
11 Nov 2008/01 Jun 2008*

Hav Suryakant Pujar (No. 14400366F now JC-273342A),
03 Mar 2009/28 Aug 2008*

Hav Mithlesh Kumar (No. 14378072L now JC-273343H),
23 Feb 2009/01 Oct 2008*

Hav Anil Kumar M (No. 15120781F now JC-273344L),
28 Feb 2009/20 Nov 2008*

Hav S Gunasekaran (No. 15118269K now JC-273345N),
16 Mar 2009/15 Nov 2008*

Hav Subash Chander (No. 14395717Y now JC-273346W),
01 Mar 2009/22 Nov 2008*

Hav Rakesh Singh (No. 15125162X now JC-273347Y),
23 Feb 2009/28 Nov 2008*

Hav Nalavade Rajendra Dattatraya (No. 15116073X now
JC-273348F), 03 Feb 2009/30 Nov 2008*

Hav Sarwan Kumar (No. 15111031F now JC-273349K),
01 Mar 2009/30 Nov 2008*

Hav Pargat Singh (No. 14422962N now JC-273350Y),
22 Jan 2009/01 Jan 2009*

Hav Krishna Chandra Marodia (No. 14394237H now JC-
273351F), 20 Feb 2009/18 Jan 2009*

Hav Sanjay Maina (No. 15118512W now JC-273352K),
03 Mar 2009/19 Jan 2009*

Hav Md Badar Ali (No. 14395348M now JC-273353M),
19 Feb 2009/24 Jan 2009*

Hav Surendra Kumar (No. 14391888N now JC-273354P),
20 Feb 2009/28 Jan 2009*

Hav Mohammad Nijamuddin (No. 14497866A now JC-
273355X), 25 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Rajbir Singh (No. 14389017P now JC-273356A),
01 Mar 2009

Hav Dal Bahadur (No. 15104318W now JC-273639F),
19 May 2009/01 Feb 2009*

Hav B Narayana Reddy (No. 14395306A now JC-
273640W), 03 Jun 2009/01 Feb 2009*

Hav Balbir Singh (No. 15113463P now JC-273641Y),
11 May 2009/01 Feb 2009*

Hav Gurtej Singh (No. 15120115W now JC-273642F),
11 Jun 2009/01 Mar 2009*

Hav Shaik Adam (No. 14412965N now JC-273643K),
03 Jul 2009/01 Mar 2009*

Hav Gireesh K (No. 15120541K now JC-273644M),
18 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Ghanendra Singh (No. 15109486Y now JC-273645P),
08 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav R Ponnuirulappan (No. 14397517F now JC-273646X),
10 Jun 2009/01 Apr 2009*

Hav Chinna Subbaiah Velpula (No. 15118457L now JC-
273647A), 28 May 2009/22 Apr 2009*

Hav Mangleshwar Singh (No. 14392137Y now JC-
273648H), 07 May 2009/03 May 2009*

Hav Sawant Raja Ram Bajarang (No. 15112824W now
JC-273649L), 07 May 2009/05 May 2009*

15—434 GI/2009

Hav P Archunan (No. 15116605M now JC-273650A),
01 Jun 2009

Hav Kuldeep Raj (No. 15102569F now JC-273651H),
01 Jun 2009

Hav Yash Paul (No. 15104035A now JC-273652L), 01 Jun
2009

Hav Laxman Singh (No. 14390397L now JC-273653N),
03 Jun 2009/01 Jun 2009*

Hav Sham Lal (No. 15103243X now JC-273654W), 02 Jun
2009/01 Jun 2009*

Hav Satish Kumar (No. 15109109H now JC-273658M),
13 Jul 2009/01 Aug 2008*

Hav Joginder Kumar (No. 15109885H now JC-273659P),
03 Mar 2009/13 Oct 2008*

Hav Venkatesan K (No. 15128270N now JC-273660K),
22 Mar 2009/01 Nov 2008*

Hav Muttappa Vanashe Navi (No. 14401577W now JC-
273661M), 01 Jun 2009/22 Nov 2008*

Hav Virendra Pratap Singh (No. 15104088N now JC-
273662P), 21 May 2009/22 Nov 2008*

Hav Ashok Kumar (No. 14385711K now JC-273663X),
25 May 2009/26 Dec 2008*

Hav Sudhakar Naik (No. 15116478H now JC-273664A),
25 Apr 2009/01 Jan 2009*

Hav Balbir Singh (No. 14499116A now JC-273665H),
08 Jun 2009/01 Feb 2009*

Hav Ashok Kumar (No. 14394228F now JC-273666L),
08 Jun 2009/01 Mar 2009*

Hav Pal Singh (No. 14498340A now JC-273667N), 04 Mar
2009

Hav Ram Swaroop Yadav (No. 15112391K now JC-
273668W), 25 Jun 2009/01 Apr 2009*

Hav Jacob TC (No. 14495224M now JC-273669Y),
01 May 2009

Hav Nirmal Singh (No. 14393396N now JC-273670M),
11 Jun 2009/01 May 2009*

Hav Purushotam (No. 14389567X now JC-273671W),
09 Jul 2009/07 May 2009*

Hav Rajvir Singh (No. 14387022F now JC-273672Y),
01 Jun 2009

Hav Kamlesh (No. 15103773M now JC-273673F), 01 Jul
2009

Hav Narendra Singh Khatri (No. 15110106F now JC-
273606W), 03 Oct 2008/20 Aug 2008*

Hav Jagdish Singh (No. 15108442P now JC-273607Y),
11 Nov 2008/01 Oct 2008*

Hav Surender Kumar (No. 14403289H now JC-273608F),
12 Nov 2008/01 Nov 2008*

Hav Anil Kumar (No. 14397837W now JC-273609K),
20 Dec 2008/03 Nov 2008*

Hav Amod Kumar (No. 15102848M now JC-273610Y),
24 Jan 2009/30 Nov 2008*

Hav Sadar Ali Shaikh (No. 14408710W now JC-273611F),
30 Mar 2009/01 Dec 2008*

Hav Patil Pradeep Dnyandeo (No. 14401134P now JC-
273612K), 07 Feb 2009/11 Dec 2008*

Hav Trilok Singh (No. 15111715X now JC-273613M),
30 Mar 2009/12 Dec 2008*

Hav Gokul Singh (No. 14412860K now JC-273614P),
04 May 2009/01 Jan 2009*

Hav Rajendra Singh Baghel (No. 14406051N now JC-
273615X), 18 May 2009/01 Feb 2009*

Hav Mali Ashok Bhau Rao (No. 15109722P now JC-
273616A), 26 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Karamjit Singh (No. 15116446M now JC-273617H),
30 Apr 2009/02 Mar 2009*

Hav Rajesh Kumar (No. 14492356P now JC-273618L),
22 Apr 2009/22 Mar 2009*

Hav Bikramatiya Bhuyan (No. 14408034M now JC-
273619N), 29 Jun 2009/01 Apr 2009*

Hav Najeer Singh Chouhan (No. 15119809K now JC-
273620H), 29 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Abhay Kumar Rai (No. 14388736F now JC-273621L),
01 Jun 2009

Hav Raju AR (No. 15110601A now JC-273622N), 09 Feb
2009/01 Oct 2008*

Hav Vijay Kumar (No. 14421911N now JC-273623W),
03 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Ganesamoorthy (No. 15125852F now JC-273624Y),
13 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Mukesh Singh (No. 15121044M now JC-
273625F), 07 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Praveen Kumar (No. 15129758P now JC-
273626K), 08 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Vijay Singh (No. 15117231N now JC-273627M),
09 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Surender Singh (No. 14416458X now JC-273628P),
07 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Ajaypal (No. 14416706H now JC-273629X), 01 Jul
2009/22 Jun 2009*

Hav Rajbeer (No. 15135376F now JC-273630M), 30 Jun
2009/22 Jun 2009*

Hav Pawan Kumar (No. 15134836L now JC-273631P),
01 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Surendra Singh Yadav (No. 14415314H now JC-
273632X), 02 Jul 2009/22 Jan 2009*

Hav Patil Anil Prahlad (No. 14424639X now JC-273633A),
02 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Kamal Singh (No. 14424574P now JC-273634H),
01 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Krishan Kumar (No. 15128597L now JC-273635L),
08 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Jasbir Singh (No. 15133836Y now JC-273636N),
01 Jul 2009/22 Jun 2009*

Hav Major Singh (No. 15111608W now JC-273637W),
01 Jul 2009

Hav Saravanan D (No. 14388776H now JC-273638Y),
23 May 2009/01 Jan 2009*

*(Gtd Seniority wef)

AV BAGUR
Under Secy.